



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31—अगस्त 6, 2004 (श्रावण 9, 1926)  
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31—AUGUST 6, 2004 (SRAVANA 9, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 4

#### [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से  
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2004

सं. 374, दिनांक, 8 जुलाई 2004—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिचम बंगल : 89) के अधिकारी श्री संजय कृष्णराव थड़े को 3 जून 2004 (अपराह्न) से 27 अप्रैल 2009 तक अथवा उनके रक्षा मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहने तक अथवा आगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. सरस्वती  
अवर सचिव

सेना शास्त्रा

महानिदेशालय, रक्षा संपदा

सं. 375, दिनांक 9 जुलाई 2004—राष्ट्रपति महोदय, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री कालू राम, सहायक को

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 376, दिनांक 13 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्त करते हैं:-

श्री नगल्ला रवी भृष्णा को अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के रूप में रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के ई. प्ल. आर. एल, हैदराबाद में दिनांक 01.10.2001 से वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- पर एक वर्ष की परखावधि पर।

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाएं गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- पर :--

नाम	स्थापना	दिनांक
श्री एस अमृदेश	एन पी ओ एल कोचीन	11.07.2001
श्री बैजू एम नायर	-वही-	23.09.2002
श्री पुनीत कुमार शर्मा	एस एस पी एल दिल्ली	23.09.2002
श्री फाहिम	-वही-	19.03.2001
श्री कृष्णनु रे	इस्सा, दिल्ली	08.08.2002
श्री आनन्द मोडन	लासटेक, दिल्ली	12.07.1999
श्रीमती पावर्ती यू एम	ए डी ई बैंगलोर	05.12.2001
श्रीमती प्रीतिकाना देबनाथ	-वही-	20.07.2001
कुमारी रेखा आर	-वही-	21.01.2002
श्री अखिलेश कुमार झा	-वही-	11.07.2001
श्री विजयवीटटालपी नाडागुड़डा	-वही-	01.02.2002
श्री पंकज कुमार मौर्या	-वही-	08.08.2002

जे. के. खड़वाल  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 377, दिनांक 14 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, महोदय निम्नलिखित महिला को लेक्चर सांख्यिकी एवं जनांकिकी (परिवार कल्याण) (वर्ग के राजपत्रित) के पद पर उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से अगला आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत परिवार कल्याण संगठन में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। ये दो वर्ष की अवधि के लिए परखावधीन रहेंगी।

(क) श्रीमती सीमा राजेता पत्रिकार, 01.08.2003 (पूर्वाह)

संजय सिन्हा  
संयुक्त निदेशक

नेवी ब्रांच,

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 378, दिनांक 9 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित व्यक्तिका सहायकों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपि सेवा में अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500-10,500) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

(क) श्री लछमन दाश, 25 फरवरी 2004

(ख) श्री वी नरसिंह राव, 01 मार्च 2004

सन्तोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 379, दिनांक 8 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

थल सेना विभाग

तोपखाना रेजीमेंट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार क्रिशन (जे.सी.-258872एक्स), 27 जून 2002/01 अप्रैल 2002\*

नायब सूबेदार एम चेनव्या (जे.सी.-260905डब्ल्यू), 04 मई 2002/01 अप्रैल 2002\*

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे.सी.-262290पी), 13 सितम्बर 2002/31 अगस्त 2002\*

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जे.सी.-259655एच), 01 नवम्बर 2002/14 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार सिथाराम सिंह (जे.सी.-258862एन), 21 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार बाबूराम (जे.सी.-262780एच), 17 दिसम्बर 2002/26 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार भूप सिंह (जे.सी.-263078के), 17 दिसम्बर 2002/26 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार प्रेम चन्द्र एम बी (जे.सी.-258004एल), 03 मार्च 2003/28 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार दलबीर सिंह धानी (जे.सी.-259205डब्ल्यू), 28 मार्च 2003/30 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार करन सिंह (जे.सी.-262925एच), 03 मार्च 2003/30 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जे.सी.-262660के), 31 मार्च 2003/30 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार रत्न लाल (जे.सी.-261487वाई), 24 जनवरी 2003/31 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार चन्द्र भान झण्डू (जे.सी.-260473एम), 02 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

नायब सूबेदार कन्वर पाल सिंह (जे.सी.-260480एच), 27 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे.सी.-260777के), 17 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2002\*

नायब सूबेदार पोखरवर कृष्ण गणपत (जे.सी.-262308ए), 30 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जे.सी.-261753एम), 11 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002\*

नायब सूबेदार ए अम्बूरोज (जे.सी.-261511डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार आंकारचन्द शर्मा (जे.सी.-262357एच), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार बिशन सिंह (जे.सी.-263130एफ), 05 अप्रैल 2003/01 नवम्बर 2002\*

नायब सूबेदार विजय सिंह (जे.सी.-263200पी), 20 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

नायब सूबेदार मेहाबूब अलाम (जे.सी.-256969के), 01 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

नायब सूबेदार हिंद कुमार (जे.सी.-261818पी), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जे.सी.-260135पी), 02 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार सुरत मल (जे.सी.-260315एक्स), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार मनोहर लाल राजपूत (जे.सी.-260956के), 22 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार पदमना बी एस (जे.सी.-261138पी), 14 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार देवन्द्र सिंह (जे.सी.-261566एन), 25 मई 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार बलदेव राज (जे.सी.-262267एफ), 13 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार निहाल सिंह (जे.सी.-262127पी), 12 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार जगमल सिंह (जे.सी.-262484एक्स), 12 मई 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार प्रेम चन्द्र पाण्डे (जे.सी.-262837एम), 15 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जे.सी.-263166ए), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार बिनोद कुमार पाठक (जे.सी.-263542एच), 05 अगस्त 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार राज सिंह (जे.सी.-261727एल), 01 मई 2003/05 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जे.सी.-260412पी), 01 जून 2003

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जे.सी.-261601एल), 23 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार श्रवण सिंह (जे.सी.-261428एम), 12 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जे.सी.-261729डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार कदम नामदेव राजाराम (जे.सी.-261933पी), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जे.सी.-262557वाई), 11 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे.सी.-262635के), 04 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जे.सी.-262417एम), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार एम जी करुप स्वामी (जे.सी.-262678ए), 20 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जे.सी.-262791पी), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे.सी.-262180एक्स), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जे.सी.-262620एच), 12 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार अजीत सिंह यादव (जे.सी.-262809ए), 11 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जे.सी.-262658एन), 13 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार इश्काला जोरनिश (जे.सी.-262767वाई), 15 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे.सी.-262830एच), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार नारंग सिंह (जे.सी.-263136एच), 21 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

- नायब सूबेदार बीर सिंह (जे.सी.-263004ए), 14 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार अनिल सिन्हा (जे.सी.-263686ए.ल.), 04 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार अत्तर सिंह (जे.सी.-263253ए.न.), 15 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार किंगद शर्मा (जे.सी.-263593डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार शिवपुजन सिंह (जे.सी.-263538ए), 25 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार राय सिंह (जे.सी.-263541ए), 03 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार सतीश कुमार (जे.सी.-263500डब्ल्यू), 18 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार बबरंग सिंह (जे.सी.-263482वाई), 19 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार भरत चन्द उपाध्याय (जे.सी.-263739वाई), 27 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार व्यानपाल सिंह (जे.सी.-263828एक्स), 01 अक्टूबर 2003
- नायब सूबेदार बर्ला पुरषोत्तम (जे.सी.-263742वाई), 20 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार बीरपाल सिंह (जे.सी.-263923के), 05 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार बालसुभामन्यम ए के (जे.सी.-263945ए.च.), 18 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार कमलेश कुमार मिश्रा (जे.सी.-264300एम), 24 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार बलदेव राज (जे.सी.-264263के), 18 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार जादीश प्रसाद यादव (जे.सी.-261879एन), 02 नवम्बर 2003/02 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार उमेश बाबू (जे.सी.-263212के), 08 नवम्बर 2003/05 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार किशोर के एस (जे.सी.-263334एन), 22 नवम्बर 2003/12 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार लाल सिंह (जे.सी.-258972ए.च.), 19 अक्टूबर 2003
- नायब सूबेदार दर्शनकुमार सेनी (जे.सी.-262568ए.ल.), 16 दिसम्बर 2003/22 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार करन सिंह (जे.सी.-264308वाई), 12 नवम्बर 2003/29 अक्टूबर 2003\*
- नायब सूबेदार करन सिंह (जे.सी.-260631डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार रामबीर सिंह (जे.सी.-261398ए), 03 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार कमलेश बहादुर सिंह (जे.सी.-261415पी), 15 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार निप्रला पाल्ले धर्मा रेडी (जे.सी.-261739ए), 03 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार नित्यानंद (जे.सी.-261098वाई), 22 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार भगीरथी खुननीया (जे.सी.-261719एम), 01 नवम्बर 2003
- नायब सूबेदार दिनेश चन्द वारे (जे.सी.-262097ए.च.), 03 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जे.सी.-261941एन), 08 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार नेमालापुरी प्रसाद राव (जे.सी.-262169एफ), 14 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार हरीन्द्र सिंह (जे.सी.-262589एफ), 11 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे.सी.-262776ए), 08 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार सोम दत्त (जे.सी.-262869पी), 10 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार डेप्टी सिंह (जे.सी.-262913एन), 29 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार राम बहादुर प्रसाद यादव (जे.सी.-263225एफ), 11 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार सिद्ध नाथ दुबे (जे.सी.-262934के), 01 नवम्बर 2003
- नायब सूबेदार श्रवण सिंह (जे.सी.-263275एम), 01 नवम्बर 2003
- नायब सूबेदार पूरन चन्द (जे.सी.-263509ए.ल.), 11 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जे.सी.-263484के), 01 नवम्बर 2003
- नायब सूबेदार कन्वर सिंह यादव (जे.सी.-264405डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार रमजीत सिंह (जे.सी.-261507एफ), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जे.सी.-262205एफ), 08 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार जनन्दु पी (जे.सी.-261846एफ), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार देव राज (जे.सी.-262397के), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार राधा कृष्ण (जे.सी.-263038एच), 13 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार बिरेन्द्र प्रसाद (जे.सी.-262569पी), 18 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार पी मुथु राज (जे.सी.-263221एल), 15 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार राम सिंह (जे.सी.-262753वाई), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार कोयले अशोक तुकाराम (जे.सी.-263389एक्स), 13 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार नरबीर सिंह (जे.सी.-263195पी), 07 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार एस साहुल हामीद (जे.सी.-263199एल), 05 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार गामीनी रमेश बाबू (जे.सी.-263476एल), 13 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जे.सी.-263523एक्स), 24 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जे.सी.-263081के), 01 दिसम्बर 2003\*

नायब सूबेदार प्रभु दयाल (जे.सी.-261320पी), 11 जून 2003/01 जून 2003\*

नायब सूबेदार सुलाखान सिंह (जे.सी.-262223के), 01 जुलाई 2003/06 जून 2003\*

नायब सूबेदार वेणु गोपालन के पी (जे.सी.-261377के), 02 अक्टूबर 2003/10 जून 2003\*

नायब सूबेदार कंचन राम (जे.सी.-259921एफ), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार हरविन्दर कुमार (जे.सी.-261089एक्स), 09 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003\*

नायब सूबेदार सिन्दर राम (जे.सी.-261405एल), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार हरदन मुजूमदार (जे.सी.-261549एन), 05 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003\*

नायब सूबेदार जी चिन्ना सामी (जे.सी.-263100के), 17 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003\*

नायब सूबेदार निशान सिंह (जे.सी.-262863एन), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे.सी.-261585वाई), 12 सितम्बर 2003/01 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जे.सी.-263752एच), 28 अगस्त 2003/01 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार राम शरन सिंह (जे.सी.-264329पी), 28 अक्टूबर 2003/13 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार ए हरीकृष्ण (जे.सी.-262855पी), 13 अक्टूबर 2003/13 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे.सी.-263900एच), 27 नवम्बर 2003/16 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जे.सी.-264124ए), 15 अक्टूबर 2003/17 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार सुधांशु शेखर सत्यपति (जे.सी.-263720ए), 22 नवम्बर 2003/25 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार मोलचन दास (जे.सी.-264558ए), 29 दिसम्बर 2003/25 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार दीदार सिंह (जे.सी.-263205एन), 11 जनवरी 2004/31 अगस्त 2003\*

नायब सूबेदार जितेन्द्र प्रसाद सिंह (जे.सी.-263712एफ), 13 नवम्बर 2003/06 सितम्बर 2003\*

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जे.सी.-264179के), 22 सितम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

नायब सूबेदार यन्नाम पोली रेड़ी (जे.सी.-264411के), 01 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

नायब सूबेदार विन्देश्वर प्रसाद (जे.सी.-259179ए), 11 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जे.सी.-259746एक्स), 24 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जे.सी.-260560ए), 23 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार सुरेश कुमार यादव (जे.सी.-259741वाई), 05 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार इन्द्रजीत अग्निहोत्री (जे.सी.-260410के), 09 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

नायब सूबेदार जे बलेन्द्र सिंह (जेसी-261302एम), 22 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*	नायब सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-261207ए), 21 जून 2002/01 अप्रैल 2002*
नायब सूबेदार घन श्याम मीना (जेसी-261285के), 05 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*	नायब सूबेदार जीत बहादुर पून (जेसी-261136के), 01 अप्रैल 2002
नायब सूबेदार तसेम सिंह (जेसी-260945एक्स), 01 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*	नायब सूबेदार नन्दा राज भण्डारी (जेसी-261141पी), 01 अप्रैल 2002
नायब सूबेदार राम नरेश राय (जेसी-260961पी), 05 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003*	नायब सूबेदार अजैब सिंह (जेसी-261533एच), 01 अप्रैल 2002
नायब सूबेदार योगेन्द्र नाथ सिंह यादव (जेसी-261014ए), 01 अक्टूबर 2003	नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-262045एम), 02 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*
नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-261030एक्स), 13 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003*	नायब सूबेदार मोहन दास पी एस (जेसी-262521ए), 24 जून 2002/01 अप्रैल 2002*
नायब सूबेदार थामडा तिरुपति राव (जेसी-262265डब्ल्यू), 12 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*	नायब सूबेदार रत्न लाल (जेसी-259585ए), 28 मई 2002/01 मई 2002*
नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-261189एच), 01 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*	नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-261538एफ), 01 जुलाई 2002/01 मई 2002*
नायब सूबेदार ह बाबू (जेसी-261380एम), 14 अप्रैल 2002/01 मार्च 2002*	नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-262297वाई), 10 जुलाई 2002/07 मई 2002*
नायब सूबेदार हीन दयाल यादव (जेसी-259614के), 01 अप्रैल 2002	नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-256498एफ), 24 मई 2002
नायब सूबेदार विशन लाल (जेसी-259868एफ), 18 मई 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार बलक राम धीमन (जेसी-258791एक्स), 09 नवम्बर 2002/01 जून 2002*
नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-259982वाई), 24 अगस्त 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार रामचन्द्र गोविन्द स्वामी (जेसी-262077पी), 20 जुलाई 2002/01 जून 2002*
नायब सूबेदार मेध भैया बीर्या (जेसी-259753एन), 01 अप्रैल 2002	नायब सूबेदार पहल सिंह थापा (जेसी-258596ए), 18 अक्टूबर 2002/01 अगस्त 2002*
नायब सूबेदार पाटील विठ्ठल श्रीपति (जेसी-260035के), 22 मई 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार अब्दुल सलीम एम (जेसी-259111वाई), 01 अगस्त 2002
नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-260240एल), 18 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार पट्टू सिंह परिहार (जेसी-261067वाई), 30 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002*
नायब सूबेदार राम वृक्ष यादव (जेसी-260274वाई), 02 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार तारलोचन सिंह (जेसी-257306एल), 16 अगस्त 2002/10 अगस्त 2002*
नायब सूबेदार विजय पाल (जेसी-260393पी), 15 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-263315एच), 09 नवम्बर 2002/22 अगस्त 2002*
नायब सूबेदार हाकिम सिंह (जेसी-260714एफ), 08 मई 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार धीमन के (जेसी-263043एन), 25 अक्टूबर 2002/30 अगस्त 2002*
नायब सूबेदार वी एस वीसान्तीआगो (जेसी-261369एल), 01 अप्रैल 2002	नायब सूबेदार महिषाल (जेसी-258828एन), 28 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*
नायब सूबेदार गयानेंद्र कुमार राय (जेसी-260274एल), 13 अगस्त 2002/01 अप्रैल 2002*	नायब सूबेदार जलेश शर्मा (जेसी-259569एच), 21 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जे.सी.-259852एन), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार बिसम्बर दयाल (जे.सी.-260642एच), 24 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002\*

नायब सूबेदार अरसूल सन्दीपन भगवान राव (जे.सी.-261803एम), 28 फरवरी 2003/01 सितम्बर 2002\*

नायब सूबेदार दौलत राम (जे.सी.-258373एच), 12 अक्टूबर 2002/10 सितम्बर 2002\*

नायब सूबेदार कार्तिक चन्द्र पाल (जे.सी.-261186पी), 15 नवम्बर 2002/11 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार गुरसिंहर सिंह (जे.सी.-262983एम), 02 नवम्बर 2002/23 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जे.सी.-263139डब्ल्यू), 20 नवम्बर 2002/23 अक्टूबर 2002\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार (कलर्क जी डी/एस के टी) के पद में

हवलदार (कलर्क) बीरबल सिंह (सं. 14359691के अब जे.सी.-266330एच), 30 दिसम्बर 2003/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) हीरामठ नगया (सं. 14469854पी अब जे.सी.-266331एल), 29 दिसम्बर 2003/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) सुमेर सिंह (सं. 14476862डब्ल्यू अब जे.सी.-266390एक्स), 01 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (कलर्क) टी एन रमन (सं. 14478691एन अब जे.सी.-266329एन), 31 दिसम्बर 2003/01 अप्रैल 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (कलर्क) जनार्दन के सी (सं. 14360338के अब जे.सी.-266391ए), 31 दिसम्बर 2003/01 मई 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (कलर्क) शोभा सिंह (सं. 14468375एफ अब जे.सी.-266332एन), 31 दिसम्बर 2003/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) हरीश चन्द्रा (सं. 14352595एम अब जे.सी.-266333डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2003/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) वी वी मदन मोहन (सं. 14469175एक्स अब जे.सी.-266392एच), 01 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (कलर्क) मंगल सिंह (सं. 14469296वाई अब जे.सी.-266393एल), 02 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) दुर्योधन बेहरा (सं. 14346061एल अब जे.सी.-266394एन), 03 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) एन गोपाल स्वामी (सं. 14467921डब्ल्यू अब जे.सी.-266295एल), 20 दिसम्बर 2003/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) सुरेन्द्र पाल (सं. 14352908ए अब जे.सी.-266396वाई), 01 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) सुभाष सिंह कलोथरा (सं. 14469309एल अब जे.सी.-266397एफ), 01 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) अभयवीर सिंह (सं. 14482788डब्ल्यू अब जे.सी.-266398के), 01 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) अश्वनी कुमार पाठक (सं. 14369909वाई अब जे.सी.-266399एम), 01 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) सीवासन्करन एम (सं. 14468064एन अब जे.सी.-266395डब्ल्यू), 08 जनवरी 2004/12 नवम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (कलर्क) बहादुर सिंह (सं. 14370337पी अब जे.सी.-266296एन), 20 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) ईश्वर सिंह (सं. 14370427डब्ल्यू अब जे.सी.-266400डब्ल्यू), 05 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

हवलदार (कलर्क) सुखपाल सिंह (सं. 14483425वाई अब जे.सी.-266401वाई), 01 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (कलर्क) सुभाष चन्द्र (सं. 14370495के अब जे.सी.-266402एफ), 08 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004\*

हवलदार (कलर्क) आजाद सिंह (सं. 14483596एफ अब जे.सी.-266403के), 07 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार शायर सिंह (सं. 14453605ए अब जे.सी.-266449एम), 19 जनवरी 2004/13 जून 2003\*

हवलदार दीलिप डी (सं. 14360227एम अब जे.सी.-266450एफ), 18 जनवरी 2004/22 सितम्बर 2003\*

हवलदार रीहितास यादव (सं. 14467345एक्स अब जे.सी.-266451के), 01 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार के सेल्वा कुमार (सं. 14372069पी अब जे.सी.-266452एम), 18 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003\*

- हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 14357144वाई अब जेसी-266453पी), 03 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- हवलदार एस विक्टर तेयसीलन (सं. 14344287एक्स अब जेसी-266454एक्स), 20 दिसम्बर 2003/09 अक्टूबर 2003\*
- हवलदार वेद प्रकाश (सं. 14339004एफ अब जेसी-266455ए), 18 अक्टूबर 2003/10 अक्टूबर 2003\*
- आर एच एम जागीर सिंह (सं. 14467745के अब जेसी-266456एच), 01 नवम्बर 2003
- बी एच एम महावीर सिंह (सं. 14464558ए अब जेसी-266457एल), 19 दिसम्बर 2003/04 नवम्बर 2003\*
- बी एच एम जोसेफ पी एल (सं. 14470218एन अब जेसी-266458एन), 29 दिसम्बर 2003/06 नवम्बर 2003\*
- हवलदार कोला नागेश्वर राव (सं. 15109975के अब जेसी-266459डब्ल्यू), 12 जनवरी 2004/22 नवम्बर 2003\*
- हवलदार पुरासोथमन एम (सं. 14404718एल अब जेसी-266460एल), 01 फरवरी 2004/25 दिसम्बर 2003\*
- बी एच एम दलीप सिंह (सं. 14467262एम अब जेसी-266461एन), 19 फरवरी 2004/13 जनवरी 2004\*
- आर एच एम नारायण सिंह (सं. 14344038वाई अब जेसी-266462डब्ल्यू), 19 फरवरी 2004/13 जनवरी 2004\*
- आर एच एम बबन सिंह (सं. 14464388एफ अब जेसी-266463वाई), 01 फरवरी 2004
- हवलदार झारकर राजाभाऊ गणपतराव (सं. 14386443एक्स अब जेसी-266464एफ), 10 मार्च 2004/01 फरवरी 2004\*
- हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14357292एफ अब जेसी-266465के), 07 दिसम्बर 2003/01 अगस्त 2003\*
- बी एच एम स्वर्ण सिंह (सं. 14474017एम अब जेसी-266466एम), 16 फरवरी 2004/05 अगस्त 2003\*
- हवलदार मेवा लाल (सं. 14394403एल अब जेसी-266467पी), 03 फरवरी 2004/25 अगस्त 2003\*
- हवलदार अजय कुमार तिवारी (सं. 14489245एम अब जेसी-266468एक्स), 20 नवम्बर 2003/25 अगस्त 2003\*
- हवलदार सुरीमाचन्द्रन ओ एस (सं. 14486837एल अब जेसी-266469ए), 29 दिसम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*
- बी एच एम करुण कुमार सिंह (सं. 14349880ए अब जेसी-266470पी), 16 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003\*
- बी एच एम रूप सिंह (सं. 14368541पी अब जेसी-266471एक्स), 24 दिसम्बर 2003/23 अक्टूबर 2003\*
- हवलदार चन्द्रन सिंह सौन (सं. 14462974एल अब जेसी-266472ए), 08 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*
- हवलदार भूपिन्दर सिंह (सं. 14366669एफ अब जेसी-266473एच), 30 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003\*
- आर एच एम राम अवतार (सं. 14343765के अब जेसी-266474एल), 30 दिसम्बर 2003/15 नवम्बर 2003\*
- हवलदार भजन लाल (सं. 14470134ए अब जेसी-266475एन), 30 दिसम्बर 2003/15 नवम्बर 2003\*
- बी एच एम गुरुमेल सिंह (सं. 14467389पी अब जेसी-266476डब्ल्यू), 26 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*
- आर एच एम सिकन्दर यादव (सं. 14345237एन अब जेसी-266477वाई), 12 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*
- हवलदार मुल राज (सं. 14470339पी अब जेसी-266478एफ), 01 जनवरी 2004
- हवलदार हरनाम सिंह (सं. 14469745एच अब जेसी-266479के), 31 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004\*
- हवलदार शिंदे मलहरी गणपत (सं. 14499627के अब जेसी-266480वाई), 28 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004\*
- आर एच एम अवदेश कुमार तिवारी (सं. 14486942एफ अब जेसी-266481एफ), 09 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003\*
- आर एच एम सुरेश (सं. 14399746एल अब जेसी-266482के), 16 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*
- आर एच एम राजबीर सिंह (सं. 15100216एच अब जेसी-266483एम), 01 दिसम्बर 2003
- आर एच एम आर राजगोपाल (सं. 15112879ए अब जेसी-266484पी), 01 दिसम्बर 2003
- आर एच एम देवेन्द्र सिंह (सं. 15100028एफ अब जेसी-266485एक्स), 01 दिसम्बर 2003
- आर एच एम जाधव तुकाराम हिन्दु (सं. 14397137एच अब जेसी-266486ए), 01 दिसम्बर 2003
- आर एच एम अतीश कुमार (सं. 15113717एफ अब जेसी-266487एच), 01 दिसम्बर 2003
- आर एच एम नरेन्द्र कुमार (सं. 14492273के अब जेसी-266488एल), 10 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*
- आर एच एम राकेश कुमार (सं. 14396090डब्ल्यू अब जेसी-266489एन), 01 जनवरी 2004
- हवलदार जगदीश के (सं. 14368676डब्ल्यू अब जेसी-266490एच), 18 अक्टूबर 2003/13 अगस्त 2003\*
- हवलदार पालवे धर्मनाथ मोहन (सं. 14359414वाई अब जेसी-266491एल), 01 दिसम्बर 2003/06 सितम्बर 2003\*
- आर एच एम मुखित्यार सिंह (सं. 14345918एफ अब जेसी-266492एन), 20 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003\*
- बी एच एम के अमृता राव (सं. 14462299के अब जेसी-266493डब्ल्यू), 25 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

आर एच एम सुशील कुमार ज्ञा (सं. 14464074ए अब जेसी-266494वाई), 03 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

हवलदार एन शिमारे इडी (सं. 14490863के अब जेसी-266495एफ), 27 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

हवलदार श्रीमोन्तु राय (सं. 14467680एफ अब जेसी-266496के), 11 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

बी एच एम कुलदीप सिंह (सं. 14466899के अब जेसी-266497एम), 16 जनवरी 2004/22 दिसम्बर 2003\*

हवलदार मदन सिंह रावत (सं. 14340538वाई अब जेसी-266498पी), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004\*

आर एच एम शंकर सहा (सं. 14352408एच अब जेसी-266499एक्स), 26 जनवरी 2004/09 जनवरी 2004\*

बी एच एम मदन लाल (सं. 14468255एच अब जेसी-266500एफ), 24 जनवरी 2004/11 जनवरी 2004\*

हवलदार शिव दयाल सिंह (सं. 14339490के अब जेसी-266501के), 15 जनवरी 2004

हवलदार मुन्सी राम (सं. 14376977पी अब जेसी-266502एम), 20 फरवरी 2004/15 जनवरी 2004\*

बी एच एम देवेन्द्र नाथपातरा (सं. 14352271पी अब जेसी-266503पी), 01 फरवरी 2004/20 जनवरी 2004\*

बी एच एम बहु प्रकाश (सं. 14460457पी अब जेसी-266504एक्स), 14 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004\*

बी एच एम कृष्णा देव प्रसाद यादव (सं. 14472997ए अब जेसी-266506ए), 10 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004\*

हवलदार पी एम मचैया (सं. 14462285के अब जेसी-266358एच), 07 नवम्बर 2003/01 जुलाई 2003\*

हवलदार एम मुथ्या लागू (सं. 14355600एक्स अब जेसी-266359एल), 20 नवम्बर 2003/31 अगस्त 2003\*

हवलदार अवतार सिंह (सं. 14462348एफ अब जेसी-266360ए), 06 नवम्बर 2003/31 अगस्त 2003\*

हवलदार धना कान्त चौधरी (सं. 14344187एम अब जेसी-266361एच), 13 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003\*

आर एच एम जसवन्त सिंह (सं. 14346748एच अब जेसी-266362एल), 12 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

बी एच एम निशान सिंह (सं. 14350879एक्स अब जेसी-266363एन), 04 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

आर एच एम फकुरुद्दीन (सं. 14345690डब्ल्यू अब जेसी-266364डब्ल्यू), 22 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 15102201एम अब जेसी-266365वाई), 12 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार जी अंकी रेड़ी (सं. 14464367एल अब जेसी-266366एफ), 06 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (सं. 14371522पी अब जेसी-266367के), 09 नवम्बर 2003/14 अक्टूबर 2003\*

बी एच एम नारायण गोपाला कृष्णनदू (सं. 14341078पी अब जेसी-266368एम), 15 दिसम्बर 2003/22 अक्टूबर 2003\*

बी एच एम गुरचरन सिंह (सं. 14497210एल अब जेसी-266369पी), 05 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003\*

हवलदार तालबिन्दर सिंह (सं. 14462762ए अब जेसी-266370के), 01 नवम्बर 2003

आर एच एम पी अशोक कुमार (सं. 14342689डब्ल्यू अब जेसी-266371एम), 05 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

बी एच एम एन राजकिशोर सिन्हा (सं. 14343096डब्ल्यू अब जेसी-266372पी), 13 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

बी एच एम खोरी सिंह (सं. 14462844एच अब जेसी-266373एक्स), 12 दिसम्बर 2003

हवलदार फुन्डी सिंह (सं. 14377567एल अब जेसी-266374ए), 01 दिसम्बर 2003/01 मार्च 2003\*

हवलदार माहिल सिंह (सं. 14481206वाई अब जेसी-266375एच), 15 अक्टूबर 2003/01 अगस्त 2003\*

हवलदार शोभ नाथ (सं. 14378520एम अब जेसी-266376एल), 17 अक्टूबर 2003/05 अगस्त 2003\*

हवलदार खेम करन सिंह (सं. 14347216एफ अब जेसी-266377एन), 01 नवम्बर 2003/25 अगस्त 2003\*

हवलदार निशान सिंह (सं. 14455929डब्ल्यू अब जेसी-266378डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

हवलदार मृत्युंजय सिंह (सं. 14482729के अब जेसी-266379वाई), 22 दिसम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

आर एच एम सुरजन सिंह (सं. 14347248के अब जेसी-266380एन), 04 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार राजबीर (सं. 14472892डब्ल्यू अब जेसी-266381डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार राधा कृष्णन के एन (सं. 14391879एम अब जेसी-266382वाई), 08 अक्टूबर 2003

आर एच एम विजय कुमार (सं. 14349097पी अब जेसी-266383एफ), 19 नवम्बर 2003/25 अक्टूबर 2003\*

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 14490015एल अब जेसी-266384के), 16 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14492456ए अब जेसी-266385एम), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं. 14378091डब्ल्यू अब जेसी-266386पी), 17 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

आर एच एम बदलू राम यादव (सं. 14356643वाई अब जेसी-266387एक्स), 24 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

हवलदार मुरतोधरन नायर आर (सं. 14346510पी अब जेसी-266388ए), 08 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003\*

बी एच एम हरीश चन्द्र यादव (सं. 14355618एन अब जेसी-266389एच), 22 दिसम्बर 2003/02 दिसम्बर 2003\*

हवलदार कृष्ण ए (सं. 14345352वाई अब जेसी-266404एम), 05 जनवरी 2004/01 जून 2003\*

हवलदार जेम्स कुट्टी डी (सं. 14350541एम अब जेसी-266405पी), 12 नवम्बर 2003/01 जून 2003\*

हवलदार चंद्रार सिंह (सं. 14469021एल अब जेसी-266406एक्स), 10 नवम्बर 2003/01 अगस्त 2003\*

हवलदार कामपता प्रसाद मिश्रा (सं. 14478718एम अब जेसी-266407ए), 22 दिसम्बर 2003/16 अगस्त 2003\*

हवलदार दण्डान सिंह (सं. 14461886एच अब जेसी-266408एच), 09 सितम्बर 2003/28 अगस्त 2003\*

हवलदार सुरेश बाबू (सं. 14462280एल अब जेसी-266409एल), 16 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003\*

बी एच एम रनधीर सिंह (सं. 14368498वाई अब जेसी-266410ए), 19 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार रंजन कुमार दास (सं. 14341923पी अब जेसी-266411एच), 23 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

बी एच एम विजय कुमार ए (सं. 14357451एन अब जेसी-266412एल), 22 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14347988वाई अब जेसी-266413एन), 14 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

आर एच एम कनक चन्द्र गोगई (सं. 14343287एल अब जेसी-266414डब्ल्यू), 05 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003\*

हवलदार बाबू सिंह लानगोव (सं. 14482673एच अब जेसी-266415वाई), 24 जनवरी 2004/30 नवम्बर 2003\*

हवलदार महेश्वर साहू (सं. 15115936एफ अब जेसी-266416एफ), 24 जनवरी 2004/30 नवम्बर 2003\*

बी एच एम महार्डीक महादेव बाबू (सं. 14474506एक्स अब जेसी-266417के), 14 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

आर एच एम दर्शन सिंह (सं. 14466521एक्स अब जेसी-266418एम), 01 दिसम्बर 2003

बी एच एम रामपल सिंह (सं. 14467014डब्ल्यू अब जेसी-266419पी), 08 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

हवलदार ओम प्रकाश शुक्ला (सं. 14475641एक्स अब जेसी-266420के), 07 जनवरी 2004/01 मार्च 2003\*

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 14366034एच अब जेसी-266421एम), 20 जनवरी 2004/01 अगस्त 2003\*

हवलदार खेम बहादुर थापा (सं. 14342747पी अब जेसी-266422पी), 13 दिसम्बर 2003/21 अगस्त 2003\*

हवलदार सज्जन सिंह (सं. 15111521पी अब जेसी-266423एक्स), 13 जनवरी 2004/01 सितम्बर 2003\*

बी एच एम दिवान सिंह (सं. 14464507एम अब जेसी-266424ए), 25 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003\*

हवलदार देवेन्द्र पाल सिंह (सं. 14357385डब्ल्यू अब जेसी-266425एच), 05 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

हवलदार योगेश कुमार (सं. 14481964डब्ल्यू अब जेसी-266426एल), 27 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003\*

बी एच एम पदमनाभन पी.सी (सं. 14357022एम अब जेसी-266427एन), 09 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003\*

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 14466160के अब जेसी-266428डब्ल्यू), 18 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

हवलदार देव धौर्य सिंह (सं. 14472721के अब जेसी-266429वाई), 27 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14344358एन अब जेसी-266430एन), 16 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003\*

आर एच एम उथप्पा एम एन (सं. 14484212एक्स अब जेसी-266431डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2003/02 नवम्बर 2003\*

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14463609डब्ल्यू अब जेसी-266432वाई), 24 दिसम्बर 2003/06 नवम्बर 2003\*

हवलदार महादेव राम जाट (सं. 15100406पी अब जेसी-266433एफ), 21 जनवरी 2004/25 नवम्बर 2003\*

हवलदार हरी सिंह (सं. 14476053डब्ल्यू अब जेसी-266434के), 01 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003\*

हवलदार मोहन लाल (सं. 14457180डब्ल्यू अब जेसी-266435एम), 21 जनवरी 2004/06 दिसम्बर 2003\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

आर. चतुर्वेदी  
अवर सचिव

सं. 380, दिनांक 9 जुलाई 2004--राष्ट्रपति छुट्टे होकर निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना  
क्षमित कोर  
स्थाई रिसालदार के रैक में

रिसालदार औंकार सिंह (जेसी-236965एम), 07 सितम्बर 2003\*

\*(रिसालदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

रिसालदार प्रेम दास (जेसी-236891एच), 01 सितम्बर 2003

रिसालदार जसवन्त सिंह (जेसी-237147एक्स), 03 अक्टूबर 2003\*

\*(रिसालदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)

रिसालदार क्लर्क (जीडी) मोहिन्दर सिंह (जेसी-236429एच), 01 नवम्बर 2003

रिसालदार अब्दुल गफ्फुर (जेसी-237446डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2003\*

\*(रिसालदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

रिसालदार प्रकाश चन्द (जेसी-237368के), 01 जनवरी 2004

रिसालदार शम्भु सिंह (जेसी-237546एफ), 12 फरवरी 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

रिसालदार चन्द्रा कुमार राय (जेसी-236017ए), 05 फरवरी 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार के रैक में

दफादार/क्लर्क उदयवीर सिंह तनवर (सं. 1073718एन अब जेसी-240538एन) 01 फरवरी 2004

दफादार/क्लर्क गुलाब सिंह (सं. 1073716एक्स अब जेसी-240539डब्ल्यू) 01 फरवरी 2004

दफादार/क्लर्क जितेन्द्र सिंह (सं. 1073751ए अब जेसी-240540एल) 03 फरवरी 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क विमलजीत दास (सं. 1073772डब्ल्यू अब जेसी-240541एन) 03 फरवरी 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क जवराम सिंह दिवाकर (सं. 1068748डब्ल्यू अब जेसी-240637डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2004

दफादार/क्लर्क उम्पल कुमार फोदार (सं. 1073774एफ अब जेसी-240638एच) 01 अप्रैल 2004

दफादार/क्लर्क जगदीश (सं. 1073797एच अब जेसी-240639एफ) 01 अप्रैल 2004

दफादार/एस के टी प्रेम पाल सिंह (सं. 1079061एम अब जेसी-240640डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2004

ओस थोमस  
अवर सचिव

सं. 381, दिनांक 8 जुलाई 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना  
सेना शिक्षा कार  
सूबेदार मेजर के रैक में

पीए सूबेदार मेजर मसकीन सिंह भाऊ (जेसी-207066एच), 01 दिसम्बर 2003

पीए सूबेदार मेजर रामफल सिंह (जेसी-211926एच), 01 दिसम्बर 2003

पीए सूबेदार मेजर हरपाल सिंह (जेसी-214281डब्ल्यू), 04 फरवरी 2004\*

पीए सूबेदार मेजर राकेश कुमार शर्मा (जेसी-209928पी), 06 फरवरी 2004\*

\*(सूबेदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

पीए सूबेदार मेजर भरत सिंह (जेसी-206827डब्ल्यू), 22 मार्च 2004=

=\*(सूबेदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

पीए सूबेदार मेजर प्रताप सिंह (जेसी-211933एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार के रैक में

पीए सूबेदार रमेश प्रताप सिंह रघुवंशी (जेसी-802704के), 03 अक्टूबर 2003\*

पीए सूबेदार कृष्ण बल्लभ लाल (जेसी-802711ए), 01 फरवरी 2004\*

\*(सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाएगी)

पीए सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-802720एफ), 01 सितम्बर 2003  
 पीए सूबेदार अशोक सिंह (जेसी-802728एन), 03 अक्टूबर 2003:  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)  
 पीए सूबेदार अमी चन्द (जेसी-802734एफ), 01 दिसम्बर 2003  
 पीए सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (जेसी-802736एम), 02 दिसम्बर 2003=  
 पीए सूबेदार आदित्य नाथ मिश्र (जेसी-802739एन), 01 दिसम्बर 2003  
 पीए सूबेदार अरूण कुमार राय (जेसी-802741एक्स), 01 दिसम्बर 2003  
 = (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)  
 पीए सूबेदार राम गोपाल (जेसी-802580ए), 01 अप्रैल 2004"  
 पीए सूबेदार विजय बहादुर सिंह सेंगर (जेसी-802770एम), 01 अप्रैल 2004"  
 "(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)  
 पीए सूबेदार कुलविंदर सिंह (जेसी-802745एन), 01 जनवरी 2004  
 पीए सूबेदार विजय पाल सिंह रावत (जेसी-802747वाई), 01 जनवरी 2004  
 पीए सूबेदार लक्ष्मी नारायण मिश्र (जेसी-802759एन), 03 जनवरी 2004\*  
 पीए सूबेदार मारादी धर्मा राओ (जेसी-802761एल), 01 जनवरी 2004  
 पीए सूबेदार महेश कुमार (जेसी-802762एन), 01 जनवरी 2004  
 \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)  
 पीए सूबेदार नगेन्द्र सिंह (जेसी-802774एच), 01 फरवरी 2004  
 पीए सूबेदार प्रकाश चन्द्रा पाठक (जेसी-802765एफ), 15 मार्च 2004\*\*  
 पीए सूबेदार मुख्त्यार सिंह (जेसी-802766के), 04 फरवरी 2004\*\*  
 पीए सूबेदार संतोष कुमार मिश्र (जेसी-802767एम), 01 फरवरी 2004

पीए सूबेदार शिव कुमार मिश्र (जेसी-802768पी), 04 फरवरी 2004\*\*  
 पीए सूबेदार गंगा सहाय (जेसी-802775एल), 01 मार्च 2004\*\*  
 पीए सूबेदार कुशलानन्द पुरोहित (जेसी-802776एन), 03 फरवरी 2004\*\*  
 पीए सूबेदार मदन मोहन (जेसी-802777डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004  
 पीए सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-802778वाई), 13 फरवरी 2004\*\*  
 पीए सूबेदार हरदेव प्रसाद (जेसी-802779एफ), 01 फरवरी 2004  
 पीए सूबेदार सर्वेश्वर पाठक (जेसी-802780डब्ल्यू), 11 फरवरी 2004\*\*  
 पीए सूबेदार/कलर्क नारायण सिंह राठौर (जेसी-803042वाई), 03 फरवरी 2004\*\*  
 पीए सूबेदार/कलर्क रामनाथ (जेसी-803043एफ), 01 फरवरी 2004  
 \*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)  
 पीए सूबेदार पूरन चन्द्र मिश्र (जेसी-802781वाई), 13 मार्च 2004::  
 पीए सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-802783के), 01 मार्च 2004  
 ::(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)  
 पीए सूबेदार सतेन्द्र प्रकाश त्यागी (जेसी-802784एम), 01 अप्रैल 2004  
 पीए सूबेदार ईस अहमद (जेसी-802785पी), 01 अप्रैल 2004  
 पीए सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-802786एक्स), 05 अप्रैल 2004==  
 ==\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)  
 नायब सूबेदार के रैंक में  
 हवलदार चौद सिंह (सं. 9509540डब्ल्यू अब जेसी-803591वाई), 10 मार्च 2004\*  
 हवलदार शशीन्द्र वी के (सं. 9509541वाई अब जेसी-803592एफ ), 09 मार्च 2004\*  
 हवलदार प्रेम लाल (सं. 9509542एफ अब जेसी-803593के), 01 मार्च 2004

हवलदार कंबर पाल (सं. 9509543के अब जेसी-803594एम),  
08 मार्च 2004x

हवलदार छबील दास (सं. 9509544एम अब  
जेसी-803595पी), 15 मार्च 2004x

हवलदार उमाकान्त बराल (सं. 9509545पी अब  
जेसी-803596एक्स), 01 मार्च 2004

हवलदार लवकुश कुमार शर्मा (सं. 9509548एच अब  
जेसी-803597ए), 08 मार्च 2004x

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 9509553एन अब जेसी-803598एच),  
03 मार्च 2004x

हवलदार देवेंद्रपाल सिंह (सं. 9509555वाई अब  
जेसी-803599एल), 09 मार्च 2004x

हवलदार मुरलीधर पाण्डेय (सं. 9509556एफ अब  
जेसी-803600पी), 14 मार्च 2004x

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार ओम प्रकाश द्विवेदी (सं. 9509561एम अब  
जेसी-803601एक्स), 08 मई 2004:

हवलदार युद्धवीर सिंह (सं. 9509562पी अब जेसी-803602ए),  
01 अप्रैल 2004

हवलदार रबीन्द्र सिंह राबत (सं. 9509563एक्स अब  
जेसी-803603एच), 01 अप्रैल 2004

हवलदार मुकेश चन्द्र (सं. 9509564ए अब जेसी-803604एल),  
01 अप्रैल 2004

हवलदार हेम सिंह (सं. 9509565एच अब जेसी-803605एन),  
05 अप्रैल 2004:

हवलदार दलजीत सिंह चौहान (सं. 9509568डब्ल्यू अब  
जेसी-803606डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

हवलदार बजरंग साल (सं. 9509571डब्ल्यू अब  
जेसी-803607वाई), 01 अप्रैल 2004

हवलदार ओकार नाथ त्रिपाठी (सं. 9509573एफ अब  
जेसी-803609के), 01 अप्रैल 2004

हवलदार देवकरण (सं. 9509574के अब जेसी-803610वाई),  
01 अप्रैल 2004

:(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार पीताम्बर मिश्रा (सं. 9508710एच अब  
जेसी-803611एफ), 01 मई 2004

हवलदार मोहन के (सं. 9509468एल अब जेसी-803612के),  
01 मई 2004

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 9509577एक्स अब  
जेसी-803614पी), 01 मई 2004

हवलदार हंस यात्रा (सं. 9509579एच अब जेसी-803616ए),  
01 मई 2004

हवलदार राम फल (सं. 9509583एल अब जेसी-803617एच),  
01 मई 2004

हवलदार पुलक कान्ति मंडल (सं. 9509584एन अब  
जेसी-803618एल), 01 मई 2004

हवलदार कुलदीप कुमार (सं. 9509586वाई अब  
जेसी-803620एच), 01 मई 2004

हवलदार राधे कान्ति दुबे (सं. 9509587एफ अब  
जेसी-803621एल), 01 मई 2004

हवलदार मणी सेखर एम (सं. 9509591के अब  
जेसी-803623डब्ल्यू), 01 मई 2004

हवलदार अशोक कुमार (सं. 9509598एन अब  
जेसी-803628पी), 01 मई 2004

हवलदार दिलेर सिंह (सं. 9509611एम अब जेसी-803631पी),  
01 मई 2004

हवलदार अशोक थापा (सं. 9509398एक्स अब  
जेसी-803498एक्स), 28 मई 2003x

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2003 से दी जाएगी)

हवलदार सांचर मल सुधार (सं. 9509010एफ अब  
जेसी-803555एन), 10 दिसम्बर 2003:

हवलदार बृज चन्द्र यादव (सं. 9509340ए अब  
जेसी-803556डब्ल्यू), 12 मार्च 2004:

:(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जाएगी)

हवलदार सकल देव सिंह (सं. 9508660एच अब  
जेसी-803569एन), 09 जनवरी 2004=

हवलदार रमेश सिंह (सं. 9509467एफ अब  
जेसी-803571एल), 11 जनवरी 2004=

हवलदार राज कुमार (सं. 9509222एम अब जेसी-803572एन),  
17 जनवरी 2004=

हवलदार नरेन्द्र पाल सिंह (सं. 9509281वाई अब  
जेसी-803573डब्ल्यू), 05 जनवरी 2004=

हवलदार राजेन्द्र राम (सं. 9509478पी अब जेसी-803574वाई),  
04 जनवरी 2004=

=(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार शिवानीराव बाबूराम (सं. 9509508एफ अब जेसी-803575एफ), 01 फरवरी 2004

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 9509518एल अब जेसी-803576पी), 14 फरवरी 2004"

हवलदार देवांगसु हाजरा (सं. 9509520एच अब जेसी-803577एम), 06 फरवरी 2004"

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 9509522एन अब जेसी-803578पी), 03 फरवरी 2004"

हवलदार अजित सिंह (सं. 9509524वाई अब जेसी-803579एक्स), 06 फरवरी 2004"

हवलदार मथाइ कुमु पी पी (सं. 9509527एम अब जेसी-803580एम), 10 फरवरी 2004"

हवलदार शिव शंकर पुष्टि (सं. 9509528पी अब जेसी-803581पी ), 01 फरवरी 2004

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 9509529एक्स अब जेसी-803582एक्स), 01 फरवरी 2004

हवलदार सत्य प्रकाश महापात्र (सं. 9509530एम अब जेसी-803583ए), 09 फरवरी 2004"

हवलदार सुरेश चन्द तिवारी (सं. 9509534एच अब जेसी-803584एच), 01 फरवरी 2004

हवलदार प्रेम चन्द्र पाल (सं. 9509535एल अब जेसी-803585एल), 04 फरवरी 2004"

हवलदार रवीन्द्र नाथ ठाकुर (सं. 9509536एन अब जेसी-803586एन), 01 फरवरी 2004

हवलदार अनिल कुमार (सं. 9509538वाई अब जेसी-803587डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 9509539एफ अब जेसी-803588वाई), 01 फरवरी 2004

हवलदार/कलर्क दलचीर सिंह (सं. 9508299एच अब जेसी-803589एफ), 24 फरवरी 2004"

हवलदार/कलर्क कुलदीप सिंह राधव (सं. 9508300एम अब जेसी-803590डब्ल्यू), 05 फरवरी 2004"

"(नायक सूचेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले जिना च्योटिला 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

विजय कपूर  
अवर सचिव

मिलिट्री नसिंग सेवा  
(स्थायी कमीशन)

सं. 382, दिनांक 13 जुलाई 2004--राष्ट्रपति प्रत्येक अधिकारी के सम्मुख दर्शाई गई तारीख से निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

(लेफ्टिनेंट कर्नल (टी एस) से ले. कर्नल (चयन))

नाम व्यक्तिगत संख्या पदोन्नतियों की तारीख  
ए एम ई कोलटस (एन आर-14709-एम), 01 दिसम्बर 1992

श्रीमती ए सुषमा सोय (एन आर-15784-के), 07 मई 1999

श्रीमती प्रमिला कुमारी काप्पर (एन आर-15773-एक्स), 09 मई 2000

श्रीमती शोभा राय (एन आर-15829-वाई), 31 मई 2000

श्रीमती रुपा राम शर्मा (एन आर-15798-के), 17 फरवरी 2001

श्रीमती वाई लहामु (एन आर-15953-ए), 19 फरवरी 2001

श्रीमती पी यू मैरी (एन आर-16032-एम), 20 फरवरी 2001

श्रीमती पी भंडारी (एन आर-16095-पी), 20 फरवरी 2001

श्रीमती डोरोथी दौलत (एन आर-16135-एल), 15 मार्च 2001

श्रीमती आर विजयालक्ष्मी (एन आर-16055-एन), 30 मार्च 2001

श्रीमती नोमी देवी (एन आर-15960-डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2001

श्रीमती एन मानिकयम्मा (एन आर-16070-एच), 07 अप्रैल 2001

श्रीमती अनवैरी बेगम (एन आर-16142-एफ), 10 अप्रैल 2001

श्रीमती पी उषा रानी (एन आर-16090-डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2001

श्रीमती इन्दिरा भेनन (एन आर-15936-ए), 10 मई 2001

श्रीमती सुनीता कपूर (एन आर-15948-पी), 10 मई 2001

श्रीमती प्रकाश कौर (एन आर-15990-एन), 10 मई 2001

श्रीमती स्टेफेन शेरली (एन आर-16039-डब्ल्यू), 10 मई 2001

श्रीमती परमजीत कौर (एन आर-16089-एफ), 10 मई 2001

श्रीमती निर्मल कापिल बाट्टा (एन आर-16151-एच), 10 मई 2001

श्रीमती सुशुना मुरारी (एन आर-15897-एम), 13 मई 2001

श्रीमती वी सरस्वती (एन आर-15893-डब्ल्यू), 10 अप्रैल 2001

श्रीमती रीता राजूर (एन आर-15583-एल), 17 मई 2001  
 श्रीमती पी एल भोला (एन आर-15918-एक्स), 17 मई 2001  
 श्रीमती समशेर कौर (एन आर-15946-के), 31 मई 2001  
 श्रीमती एन जी शांता (एन आर-16088-वाई), 23 जून 2001  
 राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां दिनांक 28 दिसम्बर 2003 से करते हैं:-

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल (टाइम स्केल)

पद और नाम, संख्या, पदोन्नतियों की तारीख

ले. कर्नल श्रीमती प्रसन्ना के टी (एन आर-17829-एक्स), 28 दिसम्बर 2003.

ले. कर्नल श्रीमती लवली एंटोनी (एन आर-17831-पी), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती जे जॉन (एन आर-17839-एफ), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सुजा अब्राहम (एन आर-17841-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती कोचु रानी वी पी (एन आर-17842-एफ), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती एस वी सरस्वती (एन आर-17845-पी), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती आभा पेसेन्स फिलिप्स (एन आर-17848-एच), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती लीना कुमारी पी आर (एन आर-17854-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल कुमारी स्पीता देवरानी (एन आर-17858-एम), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती एन यू सुजाता (एन आर-17859-पी), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती ए आर सरकार (एन आर-17860-के), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती रेन कुमारी (एन आर-17863-एक्स), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती रीमा ए (एन आर-17864-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती एलिजाबेथ टी एस (एन आर-17866-एल), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती वी ई मैथ्यु (एन आर-17868-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती संतोष कुमारी (एन आर-17873-एफ), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती मैरी जॉन (एन आर-17881-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सी अब्राहम (एन आर-17882-एच), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती मर्सी मैथ्यु इदाथात्स (एन आर-17883-एल), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती रूपिन्द्र कौर (एन आर-17884-एन), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती मैरी स्टीला (एन आर-17886-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती संतोष कुमारी (एन आर-17887-एफ), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती पूजा पंकज (एन आर-17888-के), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती नुपुर चंदा (एन आर-17895-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती राजीता टी (एन आर-17898-एन), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती जसबीर कौर (एन आर-17899-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती आर जयन्थी (एन आर-17900-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती जीनेट मोनिका डेन (एन आर-17902-एल), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव (एन आर-17904-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती अमिता रानी (एन आर-17906-एफ), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती इलासम्मा वर्गीस (एन आर-17914-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती जी वनम्मल (एन आर-17919-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती लिसी जॉर्ज (एन आर-17920-एन), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती एस वी मैथ्यु (एन आर-17921-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती खुशविन्द्र कौर (एन आर-17922-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती बलविन्द्र कौर (एन आर-17924-के), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती थैंक मोनी एस (एन आर-17968-एफ), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती शशिकला सी एस (एन आर-17928-ए), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती वलम्मा बर्गेस (एन आर-17969-के), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती पुष्पम के (एन आर-17929-एच), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती इन्दिरा कुमारी के (एन आर-17971-एफ), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती मिनामा भूटिया (एन आर-17932-एच), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती बालेश (एन आर-17972-के), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती सेलिन जॉर्ज (एन आर-17934-एन), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती मैरिअम ए ड (एन आर-17973-एम), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती रावली एडा (एन आर-17937-एफ), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती पूष्पमा ऑनि (एन आर-17975-एक्स), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती पी अवस्थी (एन आर-17939-एम), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती शेरिना जॉब (एन आर-17976-ए), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती ज्योति नायक (एन आर-17943-पी), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती अम्बिका के बी (एन आर-17978-एल), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती के गीता (एन आर-17945-ए), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती सरम्मा टी के (एन आर-17979-एम), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती बी जी कुनजम्मा (एन आर-17946-एच), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती वी एस एलिस (एन आर-17980-एच), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती मधुमलथी देवी (एन आर-17951-एन), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती सरला देवी पी (एन आर-17981-एल), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती संतोष जुनेजा (एन आर-17952-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती रुकमनी एम एस (एन आर-17982-एन), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती रुकमिनी पी जी (एन आर-17953-वाई), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती तेजिन्द कौर (एन आर-17984-वाई), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती नीरू तारा (एन आर-17954-एफ), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती एन के फिलिप (एन आर-17986-के), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती अनम्मा बी ए (एन आर-17957-पी), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती देवकी देवी बिष्ट (एन आर-17990-एम), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती लीलम्मा सेबास्तिअन (एन आर-17959-ए), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती विनेश्वरी के (एन आर-17991-पी), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती ह बी रेखिका (एन आर-17960-पी), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती मैरी कुट्टी थॉमस (एन आर-17992-एन), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती सुशीला विलसन (एन आर-17961-एक्स), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती बी सुधा कुमारी (एन आर-17995-एल), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती टी सरिअक (एन आर-17965-एन), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती थेसिआ के डी (एन आर-17996-एम), 28 दिसम्बर 2003
ले. कर्नल श्रीमती सुनीता गुप्ता (एन आर-17967-वाई), 28 दिसम्बर 2003	ले. कर्नल श्रीमती लीलम्मा टी एन (एन आर-18001-एल), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती जे बी शोम (एन आर-18002-एन), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती अंशु राय (एन आर-18006-के), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सुनीता कपूर (एन आर-18007-एम), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती बलजिन्द कौर (एन आर-18010-एम), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती ए ए मैरी (एन आर-18011-पी), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सिसिली के ए (एन आर-18013-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती एस के अम्मा एस (एन आर-18017-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती कुनजुमोल पी (एन आर-18018-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सुनीता कुमारी (एन आर-18021-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सुधामणि सी के (एन आर-18022-एफ), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती मैरी पी ओ (एन आर-18025-पी), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती वाल्सला कुमारी (एन आर-18026-एक्स), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती आर चित्रा (एन आर-18028-एच), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती मैरी कामलन एम (एन आर-18030-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती ऊषा कुमारी ए पी (एन आर-18031-एच), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती श्री कुमारी एस (एन आर-18032-एल), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती के चौधरी (एन आर-18034-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती मीना कुरिआकोस (एन आर-18036-एफ), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल कुमारी मुना प्रधान (एन आर-18037-के), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती एल के अगस्तीन (एन आर-18039-पी), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती लीना टी एन (एन आर-18041-एम), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सान्था कुमारी (एन आर-18042-पी), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती एस जयाश्री (एन आर-18043-एक्स), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती जी बसुन्धरा देवी (एन आर-18044-ए), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती अनिअम्मा वर्गीस (एन आर-18045-एच), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती सी डी सोभना (एन आर-18046-एल), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती के सान्था कुमारी (एन आर-18048-डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती विजया कुमारी अम्मा बी (एन आर-18049-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती चौधरी भालविका (एन आर-18052-वाई), 28 दिसम्बर 2003

ले. कर्नल श्रीमती रेणु कौल (एन आर-18053-एफ), 28 दिसम्बर 2003

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां उनके नाम के समुख दर्शाई गई तारीख से करते हैं।

(कैप्टन से मेजर)

पद और नाम, संख्या और पदोन्नतियों की तारीख

मेजर एस जी ज्योति (एन आर-19901-एफ), 14 सितम्बर 2002

मेजर सुमा के एस (एन आर-19902-के), 14 सितम्बर 2002

मेजर निशा सथिसन पी (एन आर-19904-पी), 14 सितम्बर 2002

मेजर शीला एस वी (एन आर-19905-एक्स), 14 सितम्बर 2002

मेजर शीबा जैकब (एन आर-19907-एच), 14 सितम्बर 2002

मेजर जेस्सी वर्गीस (एन आर-19908-एल), 14 सितम्बर 2002

मेजर सैजा बी पी (एन आर-19909-एन), 14 सितम्बर 2002

मेजर जैन्सी पी एस (एन आर-19912-एन), 14 सितम्बर 2002

मेजर सुशमा थॉमस (एन आर-19914-वाई), 14 सितम्बर 2002

मेजर पूनम दुबे (एन आर-19915-एफ), 14 सितम्बर 2002

मेजर रीठाम्बा वी (एन आर-19916-के), 14 सितम्बर 2002  
 मेजर मर्सी यथाई के (एन आर-19917-एम), 14 सितम्बर 2002  
 मेजर मरिअम्बा थॉमस (एन आर-19920-एम), 14 सितम्बर 2002  
 मेजर लिली कुमारी (एन आर-19922-एक्स), 14 सितम्बर 2002  
 मेजर ज्या सी आर (एन आर-19923-ए), 14 सितम्बर 2002  
 मेजर नीलम कुमारी (एन आर-19925-एल), 14 सितम्बर 2002  
 राष्ट्रपति सहर्व निम्नलिखित पदोन्नति दिनांक 28 मार्च 2003 से  
 करते हैं।

(कैप्टन से मेजर)

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या
1	2
कैप्टन सुजाता पी नायर	(एन आर-19929एफ)
कैप्टन विमला वी आर	(एन आर-19930डब्ल्यू)
कैप्टन अनिता मेहता	(एन आर-19931वाई)
कैप्टन पूर्णिमा साहा	(एन आर-19932एफ)
कैप्टन पेरिक करम्पा	(एन आर-19933के)
कैप्टन मौसमी दत्ता	(एन आर-19934एम)
कैप्टन अंजु सिंह	(एन आर-19935पी)
कैप्टन सीमी सोनी	(एन आर-19936एक्स)
कैप्टन एल लक्ष्मी सिंह	(एन आर-19937ए)
कैप्टन बीना वर्मा	(एन आर-19938एच)
कैप्टन प्रमिला के पी	(एन आर-19942एल)
कैप्टन साई गीढ़ा के	(एन आर-19944डब्ल्यू)
कैप्टन आशा शर्मा	(एन आर-19945वाई)
कैप्टन गीढ़ा के	(एन आर-19946एफ)
कैप्टन गुरमीत कौर	(एन आर-19947के)
कैप्टन ज्योति दुबे	(एन आर-19948एम)
कैप्टन विनय सुन्दरम	(एन आर-19949पी)
कैप्टन अनुराधा	(एन आर-19950के)
कैप्टन शरिता शर्मा	(एन आर-19951एम)
कैप्टन मिनी थॉमस	(एन आर-19952पी)
कैप्टन मुमित्रा राठी	(एन आर-19955एच)

1	2
कैप्टन नीलम मिश्रा	(एन आर-19956एल)
कैप्टन शैली रस्तोगी	(एन आर-19958डब्ल्यू)
कैप्टन सुधामणि एल	(एन आर-19960एन)
कैप्टन अनिता कुमारी सी	(एन आर-19963एफ)
कैप्टन सनेहा सुभा पालटिंगल	(एन आर-19964के)
कैप्टन बिन्दु अरविन्दन	(एन आर-19966पी)
कैप्टन जी महालक्ष्मी	(एन आर-19967एक्स)
कैप्टन बबीता रानी	(एन आर-19968ए)
कैप्टन निधिबाला भट्ट	(एन आर-19969एच)
कैप्टन शशि मेहता	(एन आर-19972एच)
कैप्टन पाथरे अनिता थॉमस	(एन आर-19973एल)
कैप्टन ईपिना मुखोपाध्याय	(एन आर-19974एन)
कैप्टन शीबा जोस	(एन आर-19975डब्ल्यू)
कैप्टन राजकुमारी	(एन आर-19977एफ)
कैप्टन अरुणा गुरुंग	(एन आर-19978के)
कैप्टन जी आनंदधि	(एन आर-19980एफ)
कैप्टन एक्स इलिया लथा	(एन आर-19982एम)
कैप्टन महुआ भट्टाचार्या	(एन आर-19984एक्स)
कैप्टन शीला के आर	(एन आर-19985ए)
कैप्टन के एस प्रीथा कुमारी	(एन आर-19987एल)
कैप्टन इन्द्रजीत कौर	(एन आर-19988एन)
कैप्टन अनुपमा मण्डल	(एन आर-19991एन)
कैप्टन चन्द्रकला आर डोइडामणि	(एन आर-19992डब्ल्यू)
कैप्टन अजिता दत्ता चौधरी	(एन आर-19993वाई)
कैप्टन छवि कनजीलल	(एन आर-19994एफ)
कैप्टन रंजना एंथोनी	(एन आर-19995के)
कैप्टन पुष्पावलि	(एन आर-19996एम)
कैप्टन शम्पा चटर्जी	(एन आर-19997पी)
कैप्टन सरस्वती साहा	(एन आर-19998एक्स)
कैप्टन मिस्ती अब्राहम	(एन आर-20001के)
कैप्टन प्रमीला एस	(एन आर-20003एम)
कैप्टन पुष्पा विष्ट	(एन आर-20004एक्स)
कैप्टन कल्पना सोलोमोन	(एन आर-20006एच)
कैप्टन निर्मला डैनियल	(एन आर-20008एन)
कैप्टन सिनधिया रीठाबी	(एन आर-20010एल)
कैप्टन दीपिका सुब्बा	(एन आर-20011एन)

1	2	
कैप्टन चया देय	(एन आर-20012डब्ल्यू)	
कैप्टन राजविन्द्र कौर	(एन आर-20014एफ)	
कैप्टन लहैखोटिंग होकीप	(एन आर-20017पी)	
कैप्टन रूपा भोबमिक	(एन आर-20018एक्स)	
कैप्टन सुरिन्द्र कौर	(एन आर-20019ए)	
कैप्टन स्नेहा लता शर्मा	(एन आर-20020पी)	
कैप्टन नालिनी बी	(एन आर-20021एक्स)	
कैप्टन के एम राजश्री	(एन आर-20022ए)	
कैप्टन सरस्वती चक्रवर्ती	(एन आर-20023एच)	
कैप्टन सुजा जार्ज	(एन आर-20024एल)	
कैप्टन छया दास	(एन आर-20027वाई)	
कैप्टन रोज मैरी लेप्चा	(एन आर-20028एफ)	
कैप्टन राठी टी. के.	(एन आर-20029के)	
कैप्टन ममता देवी	(एन आर-20032के)	
कैप्टन दलजीत कौर	(एन आर-20035एक्स)	
कैप्टन बिपाशा भित्रा	(एन आर-20036ए)	
कैप्टन स्नीगधा पाल	(एन आर-20037एच)	
कैप्टन शम्पा राय	(एन आर-20039एन)	
कैप्टन पल्लवी श्रीवास्तवा	(एन आर-20042एन)	
कैप्टन रेणुका टोपे	(एन आर-20043डब्ल्यू)	
श्रीमती शारलेट सी दास	(एन आर-20576वाई)	05 सितम्बर 2002
श्रीमती सुनेना सिंह	(एन आर-20577एफ)	"
श्रीमती भारती रानी	(एन आर-20578के)	"
श्रीमती सिनिमोल पी सी	(एन आर-20579एम)	"
श्रीमती विनय शर्मा	(एन आर-20580एफ)	"
श्रीमती लीना इचेरिअन	(एन आर-20581के)	"
श्रीमती सुपर्ना गांगुली	(एन आर-20582एम)	"
श्रीमती वल्लभसेठी पी	(एन आर-20583पी)	"
प्रवीणा		
श्रीमती रेखा नारायण	(एन आर-20584एक्स)	"
श्रीमती संध्या एस	(एन आर-20585एस)	"
श्रीमती सुनी एंटोनी	(एन आर-20587एल)	"
श्रीमती अंजु रविंद्र	(एन आर-20588एन)	"
श्रीमती आशा इस्सक	(एन आर-20589डब्ल्यू)	"
श्रीमती जीबा जौस	(एन आर-20590एल)	"
श्रीमती पी विनिथा	(एन आर-20591एन)	"
श्रीमती टी एस धनलक्ष्मी	(एन आर-20592डब्ल्यू)	"
श्रीमती मल्लिका राय	(एन आर-20593वाई)	"
श्रीमती जे गायत्री	(एन आर-20594एफ)	"
श्रीमती जैनी जॉन	(एन आर-20595के)	"

राष्ट्रपति सहर्व चिम्लिखित पदोन्नति दिनांक 05 सितम्बर 2002 से  
करते हैं :--

(लॉफिटनेट से कैष्टन)

नाम	व्यक्तिगत सं.	पदोन्नतियों की तारीख
1	2	3
श्रीमती सिंधु एस	(एन आर-20563एफ)	05 सितम्बर 2002
श्रीमती निधि चौपड़ा	(एन आर-20564के)	"
श्रीमती रेखा वर्गीस	(एन आर-20565एम)	"
श्रीमती सजिता जे. के. नाथर	(एन आर-20566पी)	"
श्रीमती जोबी चाको	(एन आर-20568ए)	"
श्रीमती जोया सिरकर	(एन आर-20569एच)	"
श्रीमती श्यामी टी. जी.	(एन आर-20570एक्स)	"
श्रीमती प्रीति गिरि	(एन आर-20571ए)	"
श्रीमती रीना जॉनसन	(एन आर-20573एल)	"
श्रीमती रजनी मोल आर	(एन आर-20574एन)	"

1	2	3	1	2	3
श्रीमती सुरेणा नाथ वी आर	(एन आर-20613एफ) 05 सितम्बर 2002	"	श्रीमती संध्या वेलायुधान	(एन आर-20653एच) 05 सितम्बर 2002	"
श्रीमती शीजा ए	(एन आर-20614के)	"	श्रीमती सिंधु पी एस	(एन आर-20654एल)	"
श्रीमती इंदु नायर	(एन आर-20615एम)	"	श्रीमती शीला कुमारी एस	(एन आर-20656डब्ल्यू)	"
श्रीमती सिनी के जर्ज	(एन आर-20616पी)	"	श्रीमती रूबी थॉमस	(एन आर-20657वाई)	"
श्रीमती उर्मिला शुक्ला	(एन आर-20617एक्स)	"	श्रीमती किलीयौजही एस	(एन आर-20658एफ)	"
श्रीमती सोभा सैमुइल	(एन आर-20619एच)	"	श्रीमती प्रियुला बेकी एम	(एन आर-20659के)	"
श्रीमती अनिथा ए	(एन आर-20620एक्स)	"	श्रीमती संगीता एल एस	(एन आर-20660एक्स)	"
श्रीमती एम वी राधा रानी	(एन आर-20621ए)	"	श्रीमती के पी प्रिठा	(एन आर-20661एफ)	"
श्रीमती साली मोल बी के	(एन आर-20622एच)	"	श्रीमती प्रांकिअल ग्लैडीस	(एन आर-20662के)	"
श्रीमती सोभा नामबूद्धी	(एन आर-20623एल)	"	टी एस		
श्रीमती आभा श्रीवास्तव	(एन आर-20625डब्ल्यू)	"	श्रीमती रुठा विजयालडा	(एन आर-20663एम)	"
श्रीमती सुनील	(एन आर-20626वाई)	"	श्रीमती जीनथ मैरी	(एन आर-20665एक्स)	"
श्रीमती निशा पोददर	(एन आर-20627एफ)	"	श्रीमती ए लीना	(एन आर-20666ए)	"
श्रीमती दीपा जोशी	(एन आर-20628के)	"	श्रीमती मंजु एस	(एन आर-20667एच)	"
श्रीमती बॉबी खारबुली	(एन आर-20629एम)	"	श्रीमती इन्दिरा	(एन आर-20668एल)	"
श्रीमती मीनाक्षी देवी शर्मा	(एन आर-20630एफ)	"	श्रीमती के जी दीप्ती देवी	(एन आर-20669एन)	"
श्रीमती बिन्दु एलिजाबेथ वी	(एन आर-20631के)	"	श्रीमती प्रिन्सीमोल थॉमस	(एन आर-20670एच)	"
श्रीमती सिंगीमोल के के	(एन आर-20632एम)	"	श्रीमती दीपा आर	(एन आर-20671एल)	"
श्रीमती शीबा टी आर	(एन आर-20634एक्स)	"	श्रीमती गीता जी ए	(एन आर-20672एन)	"
श्रीमती मंजु एस	(एन आर-20635ए)	"	श्रीमती निशा कृष्णा	(एन आर-20674वाई)	"
श्रीमती सिन्धु आर	(एन आर-20636एच)	"	श्रीमती विजयाम्मा वी एम	(एन आर-20675पी)	"
श्रीमती एसवरी एस	(एन आर-20637एल)	"	श्रीमती शोभा चौदी	(एन आर-20676के)	"
श्रीमती सुनिता रानी	(एन आर-20638एन)	"	श्रीमती कमला किरण	(एन आर-20680एम)	"
श्रीमती भारथी कविता ए	(एन आर-20640एल)	"	असबाल		
श्रीमती सुजाता कुमारी जे	(एन आर-20641एन)	"	श्रीमती सपना रानी	(एन आर-20689एफ)	"
श्रीमती सुनिता कुमारी	(एन आर-20642डब्ल्यू)	"	श्रीमती सिन्धु सी आर	(एन आर-20691 वाई)	"
श्रीमती चित्रा एस	(एन आर-20643वाई)	"	श्रीमती अवन्तिका भारती	(एन आर-20694एम)	"
श्रीमती सीनु जोसेफ	(एन आर-20645के)	"	श्रीमती अमिता वी आर	(एन एस-20696एक्स)	"
श्रीमती एसमिता वर्गेस	(एन आर-20646एम)	"	सजिंदा वी	(एन एस-20704एल)	"
श्रीमती थिलका बी	(एन आर-20647पी)	"	श्रीमती शशि विष्ट	(एन एस-20705एल)	"
श्रीमती वैशाखी चट्टोपाध्याय	(एन आर-20648एक्स)	"	श्रीमती वाई टी मिनीमोल	(एन एस-20714पी)	"
श्रीमती जया पी जी	(एन आर-20649ए)	"	श्रीमती विन्दु एस	(एन एस-20715एक्स)	"
श्रीमती रुमाश्री आर	(एन आर-20650पी)	"	श्रीमती वीना वी	(एन एस-20718एल)	"
श्रीमती रचना सिंधवाल	(एन आर-20651एक्स)	"	श्रीमती रीतु	(एन एस-20719एन)	"
श्रीमती विधुवाला जी	(एन आर-20652ए)	"			

1	2	3						
श्रीमती राधिका कूमार	(एन एस-20720एच) 05	सितम्बर 2002	9.	बी. एस. लोगिया	37412	इन्फैन्ट्री 31 दिसम्बर 02		
पी एस			10.	एस. पाण्डे	37442	इन्फैन्ट्री "		
श्रीमती सध्यभमा देवी एस (एन एस-20721एल)	"		11.	बी. जयराज	38009	ए डी ए "		
	उका सिकदर, मेजर जनरल		12.	एम. सिंह	38010	आर्टी "		
	ए डी जी एम एन एस		13.	डी. नारायण	38106	" "		
	-----		14.	बी. एल. चौधरी	38383	ए एस सी "		
	सं. 383, दिनांक 14 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए		15.	एम. एस. राव	38519	इन्फैन्ट्री "		
	एम सी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:-		16.	ए. आर. राव	38555	ए एस सी "		
	नियमित सेना		17.	ए. माधुर	38575	ए सी "		
	स्थायी कमीशन		18.	एस एस. बिष्ट	37541	इन्फैन्ट्री "		
	कैप्टन से मेजर के पद पर		19.	डी. एस. सन्धु	37543	ए सी "		
	विधु भट्टाचार्य (एम आर-07252पी) ए एम सी--05 फरवरी 2004		20.	पी. एम. अहलूवालिया	37545	इन्फैन्ट्री "		
	भावना हुडा (एम आर-07254ए) ए एम सी--05 फरवरी 2004		21.	डी. के. गुरुंग	37547	" "		
	वाई पी पराफुल (एम आर-07271ए) ए एम सी--05 फरवरी		22.	एस. भेनन	37549	" "		
2004			23.	एम. ए. डिसूजा	37550	" "		
	अहींजीत बैनर्जी(एम आर-07298एक्स) ए एम सी--05 फरवरी		24.	ओ. के. मेथू	37552	" "		
2004			25.	आर. एस. ग्रेवाल	37554	ए सी "		
	एस शरत चन्द्रा (एम आर-07301एम) ए एम सी--10 फरवरी		26.	बी. जी. खाण्डे	37555	इन्फैन्ट्री "		
2004			27.	बी. एस. बरार	37557	एएस सी "		
	एम. श्रीकास्तव, ब्रिगेडियर		28.	सी. बी. लाल	37558	एओसी "		
	उप महानिदेशक (कार्मिक)		29.	बी. के. बहुगुणा	37561	इन्फैन्ट्री "		
	-----		30.	डी. पी. एस. थलोर	37564	" "		
	सं. 384, दिनांक 12 जुलाई 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों		31.	एस. एस. सेखोन	37565	आर्टी "		
	करते हैं।		32.	टी. एस. बरार	37566	इन्फैन्ट्री "		
	नियमित सेना		33.	आर. बी. एस. कंवर	37568	" "		
	स्थायी आयोग		34.	एम. पी. सिंह	37569	आर्टी "		
	ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में		35.	आर. आनन्द	37570	इन्फैन्ट्री "		
	एस डी सिन्हा आई सी-31987, ऐ ई सी--01 दिसम्बर 01 लेकिन		36.	सी. एस. भारद्वाज	37572	आर्टी "		
	वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से बिना बेतन एवं पैशन पर प्रभाव के।		37.	एस. के. भाटी	37574	इन्फैन्ट्री "		
	मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)		38.	पी. सिंह	37575	" "		
1.	के. मैती	35257	ए सी	31 दिसम्बर 02	39.	एम. एम. घिम्मेया	37577	" "
2.	उग्रसेन	35267	इन्फैन्ट्री	"	40.	जे. डी. सूरी	37579	एओसी "
3.	एस. चावला	37227	"	"	41.	बी. एस. बाहलौठिया	37581	इन्फैन्ट्री "
4.	आर एस मनराल	37256	"	"	42.	सी. एस. एन. जयदेव	37584	आर्टी "
5.	एस. गांगुली	37290	आर्टी	"	43.	बी.के. सिंह	37590	एसी "
6.	पी. के. तमंग	35531	इन्फैन्ट्री	"	44.	सी. ए. पित्तवाला	37593	इन्फैन्ट्री "
7.	बी. सिंह	35604	"	"	45.	एच. सिंह	37594	आर्टी "
8.	ए. के. आर्या	37364	आर्टी	"	46.	एम. एल. कटारिया	37596	इन्फैन्ट्री "

47. के. एस. सेखोन	37599	एओसी	31 सितम्बर 02	85. जे. के. सेटी	38653	ईएमई	31 दिसम्बर 02
48. एम. बेद	37601	आर्टी	"	86. डी.अन्नु	38654	इन्फैन्ट्री	"
49. बी. डी. शिंदे	37604	एडीए	"	87. एम. एम. इआसो	38655	एडीए	"
50. आर. कुमार	37605	ईन्ट	"	88. एस. जे. ग्रेशाईस	38656	इंजीनियर	"
51. एन. एस. गहलोत	37609	इन्फैन्ट्री	"	89. यू. एस. दादू	38657	"	"
52. पी. एच. रेड्डी	37610	एओसी	"	90. एस. राजाराम	38658	ईएमई	"
53. एम. एस. सहगल	37614	आर्टी	"	91. जी. सिंह	38660	इन्फैन्ट्री	"
54. जी. सिंह	37616	एडीए	"	92. एस. कट्टेच	38663	सिग्नल	"
55. एन. एस. धपोला	37619	इन्फैन्ट्री	"	93. आई. एस. सुहाग	38665	इन्फैन्ट्री	"
56. एस. जामवाल	37623	एडीए	"	94. ए. चाटर्जी	38666	"	"
57. एच. डी. मिश्रा	37626	आर्टी	"	95. पी. एन. चौधरी	38667	आर्टी	"
58. ए. कुमार	37628	एओसी	"	96. पी. एन. कुमार	38668	ईएमई	"
59. एस. पी. यादव	37630	एडीए	"	97. जी.शंकर	38669	इन्फैन्ट्री	"
60. बी. कुमार	37631	आर्टी	"	98. एस. के. शर्मा	38670	"	"
61. डी. कोलाथ	37632	इन्फैन्ट्री	"	99. डी. डेविड	38672	"	"
62. यू. सी. शेखर	37635	"	"	100. एम. मेहता	38673	"	"
63. ए. शर्मा	37638	आर्टी	"	101. बी. सिंह	38674	"	"
64. एच. एम. कावाडिया	37639	इन्फैन्ट्री	"	102. ए. एस. पुरी	38675	इन्फैन्ट्री	"
65. के. ए. खान	37641	"	"	103. एन. के. जैनी	38677	एसी	"
66. आर. एस. नोडियाल	37645	आर्टी	"	104. ए. कृष्णा	38679	ईन्ट	"
67. के. सिंह	37647	ईन्ट	"	105. एस. अग्रवाल	38680	इंजीनियर	"
68. एस. के. तिवारी	37648	इन्फैन्ट्री	"	106. डी. कल्लोन	38681	एसी	"
69. ए. के. सिंह	37654	एसी	"	107. ए. के. सिंह	38682	इन्फैन्ट्री	"
70. बी. जी. सुब्रमण्यम	37655	एओसी	"	108. जे. बी. खादिलकर	38684	सिग्नल	"
71. आर. के. वर्मा	37656	"	"	109. बी. पी. सिंह	38685	इन्फैन्ट्री	"
72. के. एस. पुरी	37661	आर्टी	"	110. बी. कुमार	38686	एडीए	"
73. आर. के. पंत	37663	इन्फैन्ट्री	"	111. जे. होउलिंड	38689	इन्फैन्ट्री	"
74. बी. कुमार	37664	एसी	"	112. बी. के. मोहला	38690	"	"
75. पी. मोहिन्दर	37924	ईएमई	"	113. एस. गुप्ता	38693	"	"
76. एम. पाण्डियान	37926	सिग्नल	"	114. पी. सिंह	38694	ईएमई	"
77. पी. पी. कुमार	37925	ईएमई	"	115. एन. पी. सिंह	38696	एसी	"
78. जे. एस. मेनन	38641	इन्फैन्ट्री	"	116. बी. के. जेकब	38700	ईन्ट	"
79. आर. एस. सालारिया	38643	आर्टी	"	117. ए. के. सिंह	38704	इन्फैन्ट्री	"
80. ए. साह	38645	इन्फैन्ट्री	"	118. जे. सिंह	38706	एओसी	"
81. एस. मैरा	38647	एसी	"	119. ए. आम्बरे	38708	इन्फैन्ट्री	"
82. एल. केसवन	38648	इन्फैन्ट्री	"	120. यू. सिंह	38710	एडीए	"
83. एस. के. गर्ग	38650	एसी	"	121. बी. कुमार	38711	इन्फैन्ट्री	"
84. बी. चोपड़ा	38651	ईएमई	"	122. एस. थीर	38713	आर्टी	"

123.	आर. एस. मालावे	38714	एसी	31 दिसम्बर 02	मेजर से से. कर्नल के मूल रैक में (समय मान) द्वारा वी वासुदेव (आई सी-37602), एडी--30 अप्रैल 2000
124.	बी. के. गुहा	38718	आर्टी	"	सी पी मिश्रा (आई सी-41051), सिग्नलस--24 दिसम्बर 2000
125.	ए. एस. चौधरी	38720	"	"	के टी मैथू (आई सी-40047), इन्फैन्ट्री--19 दिसम्बर 2001
126.	एल. एम. सिंह	38721	इन्फैन्ट्री	"	वी थेंकटेश्वरन (आई सी-40477), इंजीनियर्स--12 जून 2002
127.	सी. मैथसन	38722	"	"	सं. 385, दिनांक 14 जुलाई 2004---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--
128.	ए. खन्ना	38723	आर्टी	"	<b>नियमित सेना</b>
129.	के. के. एन. ठक्कर	38725	इन्फैन्ट्री	"	<b>स्थाई कमीशन</b>
130.	जे. जी. काम्बलीमथ	38726	"	"	<b>लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैक में</b>
131.	एम. एस. महल	38728	"	"	मेजर जनरल ए. एस. जामवाल, ए. वी. एस एम, वी. एस. एम, (आई सी-17206), आर्टी (जी सी)--21 मई 2003
132.	एस. के. सूदन	38729	इंजीनियर	"	मेजर जनरल डी. पी. सिंह (आई सी-17242), इन्फैन्ट्री--01 अक्टूबर 2003
133.	एस. एस. लाल्हा	38731	एओसी	"	मेजर जनरल पी. के. ग्रोवर, ए. वी. एस. एम, वी. एस. एम (आई सी-17252), इंजीनियर (जी सी)--01 अक्टूबर 2003
134.	ए. जी. कुण्डलकर	38732	इन्फैन्ट्री	"	मेजर जनरल वी. सी. जैन, एस वी एस एम, वी. एस. एम (आई सी-17280), ई. एम. ई.--01 दिसम्बर 2003
135.	वी. पी. सिंह	38733	"	"	मेजर जनरल आदित्य सिंह (आई सी-17565), आर्मड--01 जनवरी 2004
136.	के. कुमार	38736	"	"	मेजर जनरल आर. एस. के. कपूर, ए. वी. एस एम, एस एम, वी एस एम (आई सी-16782), इंजीनियर्स--20 जनवरी 2004
137.	ए. एस. विर्क	38737	एसी	"	मेजर जनरल जे. एस. वर्मा, एवीएसएम (आई सी-16033), आर्मड--01 मार्च 2001
138.	आर. कुमार	38738	सिग्नल	"	मेजर जनरल जे. जे. सिंह, एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-16078), इन्फैन्ट्री--01 अप्रैल 2001
139.	आर. के. राजपूत	38739	आर्टी	"	मेजर जनरल डी. पी. सहगल, वीएसएम (आई सी-15403), सिग्स--01 अप्रैल 2001
140.	जी. बी. पटेल	38740	आर्टी	"	मेजर जनरल जे. बी. यादवा, एवीएसएम, वीरचक्र बीएसएम (आई सी-16095), इन्फैन्ट्री--01 अप्रैल 2001
141.	जे. सिंह	38741	एसी	"	मेजर जनरल हरी प्रसाद, एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-16109), इन्फैन्ट्री--01 अप्रैल 2001
142.	एस. प्रताप	38744	इन्फैन्ट्री	"	मेजर जनरल जे. बी. सतपुते (आई सी-16139), इन्फैन्ट्री--01 अप्रैल 2001
143.	ए. वी. धुरी	38745	सिग्नल	"	मेजर जनरल जे. बी. एस चौधरी, एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-15690), आर्टी (जीसी)--27 अप्रैल 2001 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जून 2000 से दी जाएगी।
144.	ए. सेन	38746	"	"	मेजर जनरल जे. जे. सिंह, एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-15690), आर्टी (जीसी)--27 अप्रैल 2001 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जून 2000 से दी जाएगी।
145.	आर. के. सैवाल	38747	एओसी	"	मेजर जनरल प्रकाश सुरी (आई सी-15025), इंजीनियर्स--18 मई 2001
146.	एस. एम. मुरारी	38749	एडीए	"	
147.	एम. एम. नरावने	38750	इन्फैन्ट्री	"	
148.	पी. के. सिवाच	38752	"	"	
149.	बी. आर. दास	38757	"	"	
150.	आर. के. कोहली	38758	एएससी	"	
151.	डी. दास	38759	एडीए	"	
152.	एस. मामगैन	38761	ईंट	"	
153.	एस. एस. चौधरी	38763	इन्फैन्ट्री	"	
154.	एस. कुमार	38766	इंजीनियर	"	
155.	पी. एस. नायर	38767	आर्टी	"	
156.	आर. पटनायक	38768	इन्फैन्ट्री	"	
157.	जी. एस. रानावत	38771	एएससी	"	
158.	एन. के. मेहता	38772	इन्फैन्ट्री	"	

मेजर जनरल आर के मेहता एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-14851),  
ई एम ई-01 जून 2001

मेजर जनरल अरवीन्द कुमार (आई सी-15831), आर्मड--01 जून  
2001

मेजर जनरल पी.पी.एस. बीन्दा, एवीएसएम, वीएसएम (आई  
सी-18964), इन्फैन्ट्री--01 जून 2001

मेजर जनरल एन. चट्टर्जी, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम (आई  
सी-15543), आर्टी--03 सितम्बर 2001

मेजर जनरल ए. नटराजन एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-15464),  
आर्टी--17 सितम्बर 2001 से ज्येष्ठा परन्तु वेतन व पैशन पर असर  
डाले बिना 03 सितम्बर 2001 से दी जाएगी।

मेजर जनरल आर. एल. मगोत्रा, वीएसएम (आई सी-16176),  
सिस्स--05 सितम्बर 2001

मेजर जनरल बी. एस. ठाकुर, एवीएसएम (आई सी-16234),  
इन्फैन्ट्री--01 अक्टूबर 2001

मेजर जनरल एस. एस. चाहल, एवीएसएम, वीएसएम (आई  
सी-16240), इन्फैन्ट्री--08 अक्टूबर 2001

मेजर जनरल बी जी पटानकर, यूवाईएसएम, वीएसएम (आई  
सी-16313), आर्टी (जीसी)--27 नवम्बर 2001

मेजर जनरल बी. के. बोप्पना, एवीएसएम, वीएसएम (आई  
सी-22834), इन्फैन्ट्री--27 नवम्बर 2001

मेजर जनरल एच. एस. कनवर, एवीएसएम, वीएसएम (आई  
सी-21254), इन्फैन्ट्री--27 नवम्बर 2001

मेजर जनरल भोपिन्दर सिंह, एवीएसएम (आई सी-16272),  
इन्फैन्ट्री--27 फरवरी 2002 से ज्येष्ठा परन्तु वेतन व पैशन पर असर  
डाले बिना 27 नवम्बर 2001 से दी जाएगी।

मेजर जनरल बी. के. दुआ एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-15041),  
इन्जीनियर्स--30 जनवरी 2002

मेजर जनरल आर. एस. नागरा वीएसएम (आई सी-15492), आर्टी--01  
फरवरी 2002 से ज्येष्ठा परन्तु वेतन व पैशन पर असर डाले बिना 18  
मई 2001 से दी जाएगी।

मेजर जनरल एन. पी. डल, एवीएसएम (आई सी-15018),  
इन्जीनियर्स--01 मई 2002 से ज्येष्ठा परन्तु वेतन व पैशन पर असर  
डाले बिना 18 मई 2001 से दी जाएगी।

मेजर जनरल बी. के. जेटली, यूवाईएसएम (आई सी-16542),  
इन्फैन्ट्री--01 फरवरी 2002

मेजर जनरल बी. एस. ठाकर, वीएसएम (आई सी-16543),  
आर्मड--01 अप्रैल 2002

मेजर जनरल आर. एस. शेहराबत वीएसएम (आई सी-16250),  
एओसी--01 अप्रैल 2002

मेजर जनरल जी. एस. नेगी एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-16545),  
इन्फैन्ट्री--01 अप्रैल 2002

मेजर जनरल एस. के. कौराल एवीएसएम, वीएसएम (आई  
सी-15947), आर्टी--20 अप्रैल 2002

मेजर जनरल यश मल्होत्रा (आई सी-16038), इन्जीनियर्स--01  
जुलाई 2002

एन. मारियप्पन  
संयुक्त निदेशक एम एस (एक्स)

सं. 386, दिनांक 14 जुलाई 2004.—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों  
को पदोन्नत करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर

अबरार अहमद (आई सी-52443), इन्फैन्ट्री--11 दिसम्बर 2003  
(परन्तु वेतन व भत्ते दिनांक 10 जनवरी 2004 से देय)

जगदेव सिंह ग्रेवाल एसएलएपीटीसी (एसएल-4299), 15 दिसम्बर  
2002

ले. से कैप्टन

आई सी नं., नाम व आर्म

आई सी-59056 क्षितिज बलहारा, इन्फैन्ट्री

आई सी-59057 परमेन्द्र के मलिक, एसी

आई सी-59058 नितिन रखेजा, ई एम ई

आई सी-59059 आशीष प्रधान, इन्जीनियर्स

आई सी-59060 सौभाग्य नायक, ए डी आर्टी

आई सी-59062 राजेश आर्य, ए एस सी

आई सी-59063 सलीम ऐजाज, आर्टी

आई सी-59064 अमिताभ राज, इन्फैन्ट्री

आई सी-59065 रितेश कटोच, इन्फैन्ट्री

आई सी-59066 मोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री

आई सी-59067 हेमन्त सिंह पैवार, इन्फैन्ट्री

आई सी-59068 एस सत्यमूर्ति, ए ओ सी

आई सी-59070 सरफराज सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-59071 सुबी के जॉय, ई एम ई

आई सी-59072 संजय शर्मा, इन्फैन्ट्री

आई सी-59073 जसदीप सिंह चट्टाल, आर्टी

आई सी-59074 उमंग गन्दोत्रा, आर्टी

आई सी-59075 सुधाकर ठाकुर, इन्फैन्ट्री

आई सी-59076 इन्द्र प्रीत सिंह, ए एस सी

आई सी-59077 अमित बत्स, सिग्नल्स	आई सी-59113 निशांत शेट्टी, इन्फैन्ट्री
आई सी-59078 हिमांशु खुल्ले, आर्टी	आई सी-59114 संजय राय, ई एम ई
आई सी-59079 शुभांकर सेनगुप्ता, मेक इन्फैन्ट्री	आई सी-59115 एस मुखोपाध्याय, ए औ सी
आई सी-59080 प्रदीप सेमवाल, इन्फैन्ट्री	आई सी-59117 सुमन भजूमदार, ए डी आर्टी
आई सी-59081 बेद प्रसाद धुंगना, आर्टी	आई सी-59118 रुचिर सेठी, ए डी आर्टी
आई सी-59083 जय सिंह शेखावत, ए डी आर्टी	आई सी-59119 चन्द्र मोहन त्यागी, ई एम ई
आई सी-59084 विवेक भौदिल, इन्ट	आई सी-59120 विनय पाल सिंह, ए डी आर्टी
आई सी-59085 हिमांशु काला, ई एम ई	आई सी-59121 अर्नब सरकार, ए सी
आई सी-59086 अमित कुमार, आर्टी	आई सी-59123 धेकाने संतोष सुभाष, आर्टी
आई सी-59087 किशोर गुलाब येवाले, इन्जीनियर्स	आई सी-59124 राहुल मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आई सी-59088 विजय कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59125 जगन्नाथ प्रसाद बारिक, मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-59089 आशीष अनिल जोशी, इन्फैन्ट्री	आई सी-59127 खाण्डो छष्टिकेश दिलीप, इन्फैन्ट्री
आई सी-59090 अक्षत सूर्यवंशी, आर्टी	आई सी-59128 सुजीत कुमार मलिक, ई एम ई
आई सी-59091 चरणजीत सिंह चाहिल, सिग्नल्स	आई सी-59129 बी बी साई विजय बलराम, ए डी आर्टी
आई सी-59092 पुष्पिन्दर सिंह जामवाल, इन्फैन्ट्री	आई सी-59130 गिल गगनदीप सिंह, आर्टी
आई सी-59093 विक्रम जीत सिंह पंडर, इन्फैन्ट्री	आई सी-59131 श्रोत सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-59094 एस बी थिम्मैया, ए एस सी	आई सी-59132 अमर अत्री, ए एस सी
आई सी-59095 कुमार आनन्द, इन्फैन्ट्री	आई सी-59133 वारधाडे शिवाजी भागवत, इन्फैन्ट्री
आई सी-59096 आशीष दत्त, ए सी	आई सी-59134 एल सुरेश कुमार राव, आर्टी
आई सी-59097 खान शगफ शुजा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59135 अंशुमन चौधरी, इन्जीनियर्स
आई सी-59098 आदित्य सिंह, इन्फैन्ट्री	आई सी-59136 प्रदीप सिंह कार्कि, इन्फैन्ट्री
आई सी-59099 प्रशांत विलास पाटिल, ए एस सी	आई सी-59137 आलोक श्रीवास्तव, ए सी
आई सी-59100 शैलेन्द्र शर्मा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59138 अनिमेष जतराना, इन्फैन्ट्री
आई सी-59101 कुरकुरे अमित विनायक, आर्टी	आई सी-59139 रणधीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-59102 अमोल लवाते, इन्फैन्ट्री	आई सी-59140 सम्राट मैटी, इन्फैन्ट्री
आई सी-59103 सुशील कुमार राणा, आर्टी	आई सी-59141 रोहित रावत, इन्फैन्ट्री
आई सी-59104 सुखदीप सिंह, सिग्नल्स	आई सी-59142 रंजीत सिंह पवार, ए ओ सी
आई सी-59105 राजीव सहारन, इन्फैन्ट्री	आई सी-59143 हरमनजीत सिंह सीरे, इन्जीनियर्स
आई सी-59106 मनोज कुमार सिंह, आर्टी	आई सी-59144 पी अलेकजेण्डर, इन्फैन्ट्री
आई सी-59107 आशुतोष शर्मा, आर्टी	आई सी-59145 पंकज रावत, आर्टी
आई सी-59108 अवनीश रावत, मेक इन्फैन्ट्री	आई सी-59146 के सुधाकर, इन्फैन्ट्री
आई सी-59109 आदित्य सूदन, ई एम ई	आई सी-59147 जुविन सिद्दीकी, ए एस सी
आई सी-59110 अरविन्द भाकुनी, इन्जीनियर्स	आई सी-59148 सुरेश कुमार सिंह, आर्टी
आई सी-59112 सुरेन्द्र पाल खर्ब, ए ओ सी	आई सी-59149 रजत शर्मा, ए सी

- आई सी-59152 पराग चौहान, आर्टी  
 आई सी-59153 अमनदीप सिंह, ए डी आर्टी  
 आई सी-59154 फन्जौबम सानन्द सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59155 अनुपम जोशी, आर्टी  
 आई सी-59156 शैलेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59157 बेथनाम्बेल्ली जगन्नाथ नायडू, आर्टी  
 आई सी-59158 रोहित त्यागी, ए सी  
 आई सी-59159 मनीष पार्थसारथी, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59160 विशाल गुलेरिया, इंजीनियर्स  
 आई सी-59162 अक्षय यादव, मेक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59163 अनिल सरोजा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59164 विशाल बबर, ए ओ सी  
 आई सी-59165 अभिषेक औमरी, ई एम ई  
 आई सी-59167 तुषार गोपाल कम्पेकर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59168 अमरदीप सिंह हुड्डा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59169 माधवन अयंगर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59172 श्रीवेंकट कृष्ण हरि, ई एम ई  
 आई सी-59173 नितिन सिंह साम्बाल, आर्टी  
 आई सी-59174 मनोज कुमार जोशी, ए डी आर्टी  
 आई सी-59175 शुभांकर घोषाल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59176 अन्वश्वगन एम, ई एम ई  
 आई सी-59177 परितोष उपाध्याय, ए ओ सी  
 आई सी-59178 गायकवाड केदार विजय, आर्टी  
 आई सी-59179 आशीष नगार्हच, सिग्नल्स  
 आई सी-59180 श्रीरंग एस मूले, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59182 ओम प्रकाश मिश्रा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59183 सुधीर चमोली, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59184 येरुंकर प्रवीण प्रकाश, इंजीनियर्स  
 आई सी-59185 मनोज के, ए सी  
 आई सी-59186 शिवानन्द एलियास शिवबाबान, आर्टी  
 आई सी-59187 अश्वनी मिश्रा, ए डी आर्टी  
 आई सी-59188 सोनम भारद्वाज, ए ओ सी  
 आई सी-59189 श्याम बिहारी सिंह, ई एम ई  
 आई सी-59190 एस सिंह, इन्ट
- आई सी-59191 शिवराज आवन्द मूर दल्वी, आर्टी  
 आई सी-59192 संदीप सिंह रथ्यावा, ए एस सी  
 आई सी-59193 विनोद कुमार शिवरन, मेक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59194 विभाकर त्यागी, आर्टी  
 आई सी-59195 वी बालाजी, आर्टी  
 आई सी-59197 सुमीत वरिष्ठ, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59198 प्रदीप कुमार सेनगुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59199 अक्षय दुष्टि राजा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59200 दीपक शर्मा, सिग्नल्स  
 आई सी-59201 निशांत सानवाल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59202 अतुल देवली, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59203 राजीव थोंभस, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59204 फैजन जहूर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59206 गिरीश चन्द्र पाण्डेय, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59207 अम्बरीश राय, आर्टी  
 आई सी-59208 भाष्कर तौमर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59209 जगदीप सिंह, सिग्नल्स  
 आई सी-59210 मनु धनकर, ए सी  
 आई सी-59212 अश्वनी नागपाल, ए ओ सी  
 आई सी-59213 विशाल पठानिया, ए एस सी  
 आई सी-59214 अभिजीत दास, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59216 इन्द्रजीत सिंह, ए डी आर्टी  
 आई सी-59217 संतोष लोखक, ई एम ई  
 आई सी-59218 गणेश शर्मा, ए सी  
 आई सी-59219 सुमीत शेरान, इन्ट  
 आई सी-59220 तारिक रशीद, सिग्नल्स  
 आई सी-59221 भूपेन्द्र मेहरा, आर्टी  
 आई सी-59222 अजीत कुमार, ई एम ई  
 आई सी-59223 प्रमोद कुमार यादव, मेक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59224 तरुण डांगी, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59225 पंकज पुरी, इंजीनियर्स  
 आई सी-59226 विनीत लोहिया, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59227 सचिन गहलाकुत, आर्टी  
 आई सी-59228 बरीदा बरन पट्टनायक, ए डी आर्टी

- आई सी-59229 ओमवीर पवार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59230 अमित, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59232 पॉल अर्नेस्ट, आर्टी  
 आई सी-59233 प्रशांत सिंह बकवाल, आर्टी  
 आई सी-59234 देव कुमार पवार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59236 गौरव सिरोही, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59237 सुमन कुमार मिश्रा, ए एस सी  
 आई सी-59239 भूषण पारिख, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59241 कमलजीत सिंह, ए सी  
 आई सी-59242 अजय कुमार पाठक, आर्टी  
 आई सी-59243 एस पिंटे सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59244 राकेश शर्मा, इंजीनियर्स  
 आई सी-59245 चेतन आनन्द, ई एम ई  
 आई सी-59246 विशाल जैन, सिग्नल्स  
 आई सी-59247 प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ए डी आर्टी  
 आई सी-59248 जोयस के जोसफ, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59249 प्रमोद रावत, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59250 मनुजेन्द्र सिंह, ए सी  
 आई सी-59251 मयंक मेहता, इंजीनियर्स  
 आई सी-59252 आनन्द प्रताप सिंह, ए ओ सी  
 आई सी-59253 जसप्रीत सिंह चहल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59254 पीयूष कुमार सिंह, आर्टी  
 आई सी-59255 अनिल कुमार फोगट, मेक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59256 अजय ठाकुर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59257 अधिवेक तलवार, ए एस सी  
 आई सी-59258 अनन्त पाल सिंह, ए डी आर्टी  
 आई सी-59259 एस सुनील रेड्डी, सिग्नल्स  
 आई सी-59260 प्रियंज कोटियाल, ई एम ई  
 आई सी-59261 जसविन्दर सिंह, ई एम ई  
 आई सी-59262 विनय, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59263 दिनेश रघु रमन, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59264 शुभ्रांगशु चौधरी, आर्टी  
 आई सी-59265 बलबीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59266 कमल भारद्वाज, ए एस सी
- आई सी-59267 तुषार मितलल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59270 सी हिमकिरण कुमार, सिग्नल्स  
 आई सी-59271 अशोक कुमार गौर्य, आर्टी  
 आई सी-59272 अरिंदम चौधरी, ए डी आर्टी  
 आई सी-59273 अनूप सिंह यादव, ए एस सी  
 आई सी-59274 प्रदीप दहिया, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59275 अजय कुमार सिंह, आर्टी  
 आई सी-59277 करम राजा सिंह, आर्टी  
 आई सी-59278 अस्मिनी कुमार शीष्वरताल, आर्टी  
 आई सी-59279 अनुपम शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59280 अतुल राई, ए डी आर्टी  
 आई सी-59281 पंकज शर्मा, आर्टी  
 आई सी-59283 आभास मिश्रा, इंजीनियर्स  
 आई सी-59284 सुमीत साम्याल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59285 मृणाल कांत भट्टचार्य, इंजीनियर्स  
 आई सी-59286 अजय पेढिल, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59287 अभिल कुमार, सिग्नल्स  
 आई सी-59288 राजीव नयन सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59289 मनीष प्रियदर्शन, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59290 सलिल कुमार गोयल, ई एम ई  
 आई सी-59291 संजय कुमार जा, आर्टी  
 आई सी-59292 ब्रजेश लैलवाल, ए एस सी  
 आई सी-59293 गगनदीप सिंह, आर्टी  
 आई सी-59294 मयर अम्बाल, मेक इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59295 एस हरिहर, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59296 निखिल आर्टी, आर्टी  
 आई सी-59297 विनय शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59298 बबीन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59299 वी अशोक कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59300 कुणाल महापात्रा, सिग्नल्स  
 आई सी-59301 दीपक मार्टिन, ई एम ई  
 आई सी-59302 जयन्त सिंह, ए सी  
 आई सी-59303 एन चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री  
 आई सी-59304 शबरीश बालाकृष्णन बाचाली, इंजीनियर्स  
 आई सी-59305 विशाल आनन्द, ए ओ सी

आई सी-59306 मोहिन्दर किशोर केसर, इन्फैन्ट्री	आई सी-59342 मुदित आर्य, आर्टी
आई सी-59307 संदीप सिंह औलख, आर्टी	आई सी-59343 विकास, ई एम ई
आई सी-59308 पार्थ प्रतीम बिस्वास, सिग्नल्स	आई सी-59344 मनोज कुमार हुइडा, ए सी
आई सी-59309 अजय सैगल, आर्टी	आई सी-59345 विवेक सिवाच, इन्फैन्ट्री
आई सी-59310 के प्रकाश, इन्जीनियर्स	आई सी-59346 श्रीनिवासन वी, ए डी आर्टी
आई सी-59311 विक्रम, आर्टी	आई सी-59348 अमित बैदी, इन्फैन्ट्री
आई सी-59313 विवेक एस बडवे, ए सी	आई सी-59349 बीरेन्द्र नाथ चटर्जी, आर्टी
आई सी-59314 बीरेन्द्र नाथ चटर्जी, आर्टी	आई सी-59351 एन्टीनी हेनरी सेलवम, आर्टी
आई सी-59315 अमरजीत चौधरी, ए एस सी	आई सी-59352 सौरव पति, आर्टी
आई सी-59316 हेमन्त कुमार, ए डी आर्टी	आई सी-59353 रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री
आई सी-59317 दीपक सिसोदिया, ए ओ सी	आई सी-59354 जयप्रकाश लाल्हा, मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-59318 बल्लुरु शिव शेष साई, ए एस सी	आई सी-59355 रजीथ आर उन्नी, इन्ट
आई सी-59319 मुकेश कुमार झा, आर्टी	आई सी-59356 परविन्दर सिंह, आर्टी
आई सी-59320 प्रदीप कुमार तक्षक, इन्फैन्ट्री	आई सी-59357 अरिन्दम पृथि, इन्फैन्ट्री
आई सी-59321 मुहुल भाटिया, इन्ट	आई सी-59358 अजय कुमार यादव, सिग्नल्स
आई सी-59322 रंजन देवरानी, इन्फैन्ट्री	आई सी-59359 विनीत कुमार, सिग्नल्स
आई सी-59323 अनिल कुमार चद्भा, आर्टी	आई सी-59360 अंजन कुमार हलदर, इन्फैन्ट्री
आई सी-59324 कृष्ण विश्वकर्मा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59361 विवेक प्रकाश, ए सी
आई सी-59325 पंकज शर्मा, ई एम ई	आई सी-59362 किशन सिंह रावत, ए एस सी
आई सी-59326 हिमांशु, आर्टी	आई सी-59363 भांजा किशोर प्रधान, इन्फैन्ट्री
आई सी-59327 आशीष सहगल, इन्जीनियर्स	आई सी-59364 विजय चौर सिंह दहिया, इन्फैन्ट्री
आई सी-59328 राज कुमार श्याम सिंह, इन्फैन्ट्री	आई सी-59365 रोशन कुमार, आर्टी
आई सी-59329 देव मोहन, इन्फैन्ट्री	आई सी-59366 मनीष धापा, मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-59330 विक्रम बीर बासनेट, ए एस सी	आई सी-59367 विकास गुप्ता, ए डी आर्टी
आई सी-59331 संतगौड़ मलंगोपा पुट्टंगोडा, इन्जीनियर्स	आई सी-59368 संजीव रैना, इन्जीनियर्स
आई सी-59332 अजय बालाकृष्णन, इन्फैन्ट्री	आई सी-59369 मनोज उपाध्याय, इन्जीनियर्स
आई सी-59333 गोकर्ण चण्डोला, मेक इन्फैन्ट्री	आई सी-59370 यशवर्द्धन, आर्टी
आई सी-59334 अनूप सन्योग्ना, इन्फैन्ट्री	आई सी-59371 मानस कुमार महापात्रा, इन्फैन्ट्री
आई सी-59335 राहुल कुमार, इन्फैन्ट्री	आई सी-59372 अरुण मामगैन, इन्फैन्ट्री
आई सी-59336 सुधीर टोकस, इन्फैन्ट्री	आई सी-59373 संजय गैरोला, ई एम ई
आई सी-59337 बी विजय कुमार, इन्फैन्ट्री	आई सी-59374 विक्रम स्नाल, ए ओ सी
आई सी-59338 नीरज, इन्फैन्ट्री	आई सी-59375 मानन कण्ठारी, ए ओ सी
आई सी-59339 तुषार कथूरिया, आर्टी	आई सी-59376 दिनेश छुफल, इन्फैन्ट्री
आई सी-59340 आनन्द सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	आई सी-59377 अनिल शंकरराव गायकवाड़, आर्टी
आई सी-59341 दिविक काण्डपाल, ई एम ई	

आई सी-59378 रोनित चंद्रा सिंह, ई एम ई	आई सी-59415 सुदेश भांगा, इन्फैन्ट्री
आई सी-59379 अरुण सिंह, ए एस सी	आई सी-59416 प्रताप सिंह, सिनल्स
आई सी-59380 आनन्द गिरि, इन्जीनियर्स	आई सी-59417 अमित कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-59381 गौरव सेठी, आर्टी	आई सी-59419 नवीन सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-59382 मृदुल शर्मा, ए डी आर्टी	आई सी-59420 अनिल खुर्दिया, ई एम ई
आई सी-59383 संदीप मुख्यार्जी, इन्फैन्ट्री	आई सी-59421 धीरज कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-59385 गौरव भाटिया, आर्टी	आई सी-59422 जसप्रीत सिंह हंसपाल, ए सी
आई सी-59386 मनीष श्रीधारसत्र, आर्टी	आई सी-59423 समीर डी वाकंकर, आर्टी
आई सी-59387 अरविन्द कुमार तिवारी, सिनल्स	आई सी-59425 सतिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-59388 राकेश चन्द्र बर्थवाल, इन्फैन्ट्री	आई सी-59426 विनय सिंह, मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-59389 पवन बंकल, ए एस सी	आई सी-59427 आकाश पाण्डेय, ए सी
आई सी-59390 रजविन्दर सिंह, ई एम ई	आई सी-59428 मुजम्मिल अहमद, इन्फैन्ट्री
आई सी-59391 लोकेश देवा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59429 भागवत अनन्त अशोक, आर्टी
आई सी-59392 हरमनजीत सिंह गिल, इन्फैन्ट्री	आई सी-59430 अमित कुमार सिंघल, इन्ट
आई सी-59393 अजय पठानिया, इन्फैन्ट्री	आई सी-59431 भयंक गुप्ता, ए ओ सी
आई सी-59394 बीरेन्द्र कुमार राय, इन्फैन्ट्री	आई सी-59432 राकेश कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-59395 नरेन्द्र कुमार, आर्टी	आई सी-59434 कौशिक मिश्रा, आर्टी
आई सी-59396 रितेश कुमार, ए सी	आई सी-59435 राहुल पुरी, ए एस सी
आई सी-59397 रविन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री	आई सी-59436 अविनाश नेगी, इन्जीनियर्स
आई सी-59398 आशुतोष कुमार, आर्टी	आई सी-59437 प्रवीण कुमार, ई एम ई
आई सी-59400 काने श्रीरंग सुभाष, आर्टी	आई सी-59438 शील मोहन काला, इन्जीनियर्स
आई सी-59401 जीतेन्द्र कुमार महापात्रा, ए डी आर्टी	आई सी-59439 दुष्टं एस नलवाडे, सिनल्स
आई सी-59402 मोहित प्रकाश, ए ओ सी	आई सी-59440 देशपाण्डे विष्णु कुमार, इन्फैन्ट्री
आई सी-59403 मेहर प्राधीत, ए एस सी	आई सी-59441 यादव अनिल पुनवासी, इन्फैन्ट्री
आई सी-59404 कुलवन्त सिंह मलिक, इन्फैन्ट्री	आई सी-59442 आशुतोष जगाति, ई एम ई
आई सी-59405 मंजीत बधवार, ई एम ई	आई सी-59443 विक्रांत पंचल, ए ओ सी
आई सी-59406 थेरेवा मुथु, इन्फैन्ट्री	आई सी-59444 यशदेव सिंह बाली, आर्टी
आई सी-59407 अमित रे, आर्टी	आई सी-59445 देशपाण्डे अनिलद्द सुधाकर, ए डी आर्टी
आई सी-59408 अनूप कुमार, ए ओ सी	आई सी-59446 अनिल कुमार खारायत, ई एम ई
आई सी-59409 विनय आहुजा, ए एस सी	आई सी-59447 परितोष पाठक, इन्जीनियर्स
आई सी-59410 अंगद रेयर, आर्टी	आई सी-59448 अमित कुमार, आर्टी
आई सी-59411 तेजिन्दर पाल सिंह हुण्डल, इन्फैन्ट्री	आई सी-59449 विनायक शर्मा, मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-59413 कुलजीत एस पदम, ई एम ई	आई सी-59450 अमूल्य प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-59414 जजोत गुरुदेव भईया, ए डी आर्टी	आई सी-59451 अभिजीत कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री

आई सी-59452	मनोज सांगवान, इन्फैन्ट्री	आई सी-59490	सौरभ चट्ठी, ए सी
आई सी-59453	विकास मेहता, ए एस सी	आई सी-59491	नितिन थापा, इन्फैन्ट्री
आई सी-59455	दिवाकर कुमार, ए एस सी	आई सी-59492	निर्मल कुमार दूबे, आर्टी
आई सी-59456	भरत सिंह रावत, इन्फैन्ट्री	आई सी-59493	राहुल नाथर, आर्टी
आई सी-59457	सोमेश कुमार दास, इन्फैन्ट्री	आई सी-59494	अनिल कुमार, आर्टी
आई सी-59458	देव कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आई सी-59495	अमन ग्रेवाल, आर्टी
आई सी-59459	अमित रंजन बाजेपेकी, इन्जीनियर्स	आई सी-59496	अमरदीप सिंह छतवाल, ई एम ई
आई सी-59460	प्रशांत शर्मा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59497	राधाकृष्णन मुरली, इन्फैन्ट्री
आई सी-59461	मुथंगी वाम्पी प्रशांत, इन्फैन्ट्री	आई सी-59498	राजीव यादव, ए एस सी
आई सी-59462	रोहित अश्विनी, आर्टी	आई सी-59499	अनुज प्रकाश गुप्ता, ए डी आर्टी
आई सी-59463	नितिन उपाध्याय, ए डी आर्टी	आई सी-59500	अजय तोमर, इन्फैन्ट्री
आई सी-59465	अजय कुमार पुण्डकर, ए ओ सी	आई सी-59501	यादविन्दर कुमार पुरी, इन्फैन्ट्री
आई सी-59466	राहुल सरकार, ई एम ई	आई सी-59502	अजमेर सिंह छिक, इन्फैन्ट्री
आई सी-59467	नवीन खरे, ए सी	आई सी-59504	विशाल सनी, आर्टी
आई सी-59469	कुलदीप सिंह, ए डी आर्टी	आई सी-59505	अनुराग सिंह सेंगर, इन्फैन्ट्री
आई सी-59470	मनोज ए भी, इन्फैन्ट्री	आई सी-59506	आशुनोष त्रिवेदी, ई एम ई
आई सी-59471	महेन्द्र सिंह नेही, इन्फैन्ट्री	आई सी-59507	रितेश कुमार सिंह, ए एस सी
आई सी-59472	सुमीत बंसल, ए ओ सी	आई सी-59508	अभिजीत शर्मा, इन्जीनियर्स
आई सी-59473	अर्दमन सिंह शेखो, ए सी	आई सी-59509	संजीव द्विवेदी, ए डी आर्टी
आई सी-59474	मोअम्मद आदिल तबरेज, आर्टी	आई सी-59510	जयवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आई सी-59475	रजत टण्डन, आर्टी	आई सी-59511	अतुल शर्मा, आर्टी
आई सी-59476	प्रवेश प्रकाश, ई एम ई	आई सी-59512	पुष्पेन्दु मिश्रा, आर्टी
आई सी-59478	बलबीर झा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59513	शांतनु रसीदी, ए सी
आई सी-59479	उपजीत सिंह रंधाका, इन्फैन्ट्री	आई सी-59514	कुलदीप सिंह मट्टो, मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-59480	पार्थ सारथी सिंघा, ए ओ सी	आई सी-59515	शरद शर्मा, इन्फैन्ट्री
आई सी-59481	मनीष कोठरी, इन्जीनियर्स	आई सी-59516	संजय नाथर, इन्फैन्ट्री
आई सी-59482	मोहित नवल, मेक इन्फैन्ट्री	आई सी-59517	वाघमोडे शशिकांत लक्ष्मण, इन्जीनियर्स
आई सी-59483	ब्रह्मदेव शर्मा, इन्जीनियर्स	आई सी-59518	सैयद इनायत कबीर, ए सी
आई सी-59484	पंकज सुव्वा, इन्फैन्ट्री	आई सी-59519	एस जी सुधांशु शेखर, आर्टी
आई सी-59485	पुष्पम् कुमार, इन्फैन्ट्री	आई सी-59520	समीर कुमार सिंह, ए डी आर्टी
आई सी-59486	प्रवीण रावत, ए एस सी	आई सी-59521	टी राजिश सुम्दरन, सिनल्स
आई सी-59487	देवी प्रसाद बराल, ई एम ई	आई सी-59522	आशीष अग्रवाल, ए ओ सी
आई सी-59488	नवीन जौशुआ फैनसोनी, इन्फैन्ट्री	आई सी-59524	कुलकर्णी अमित अनिल, ई एम ई
आई सी-59489	अल्फ्रेड फनाडिस, ए डी आर्टी	आई सी-59525	बिस्वजीत राय, ए एस सी

आई सी-59527 शशि कांत छिपाल, इन्टरेस्टेमेंट्स

आई सी-59528 मनमीत सिंह बिज्जन, इन्फैन्ट्री

आई सी-59529 अभिषेक मिश्रा, इन्फैन्ट्री

आई सी-59530 अबीर दत्ता, आर्टी

--11 दिसम्बर 2003--

आई सी-61961 शेलके महेश सारंगेरो, सिग्नल्स

आई सी-61962 अरुण शेखर, ई एम ई

आई सी-61963 नारायण एम टी, इंजीनियर्स

आई सी-61964 रविन्द्र यादव, सिग्नल्स

आई सी-61965 प्रमोद पाणिकर, इंजीनियर्स

आई सी-61966 रुषिकेश दोत्रे, इंजीनियर्स

आई सी-61967 सिद्धार्थ भन्होत्रा, इंजीनियर्स

आई सी-61969 अभिषेक स्थागी, इंजीनियर्स

आई सी-61970 वशिष्ठ जी आर, इंजीनियर्स

आई सी-61971 अविनाश देश कुलकर्णी, ई एम ई

आई सी-61972 संतोष रोय, ई एम ई

आई सी-61973 जयंत कानूनगो, इंजीनियर्स

आई सी-61974 चिन्मय गिरिश पारिख, ई एम ई

आई सी-61975 जितेन्द्र रावत, ई एम ई

आई सी-61976 रमेत सिंह, ई एम ई

आई सी-61977 सचिन चोपड़ा, ई एम ई

आई सी-61978 हरकेश कुमार, इंजीनियर्स

आई सी-61979 विकाश कुमार गुप्ता, इंजीनियर्स

आई सी-61980 कुमार अभिसेन्ट, इंजीनियर्स

आई सी-61981 विवेक शर्मा, इंजीनियर्स

आई सी-61982 अमन प्रीत सिंह, ई एम ई

आई सी-61983 नीरव तुली, इंजीनियर्स

आई सी-61984 आदित्य मुरारी इन्डॉरिया, ई एम ई

आई सी-61985 मंद मन्दीप सिंह, सिग्नल्स

आई सी-61986 जुल्लान अनमोल फ्रॉसिस कंदीर, इंजीनियर्स

आई सी-61989 राणा करण सिंह, इंजीनियर्स

आई सी-61990 राजेश गुप्ता, ई एम ई

आई सी-61991 परीक्षित मेहरा राज कुमार, सिग्नल्स

आई सी-61992 हरकीरत सिंह, इंजीनियर्स

आई सी-61993 के सुरेश सेल्वा कुमार, सिग्नल्स

आई सी-61995 जलियान प्रशांत सदाशिव, सिग्नल्स

आई सी-61996 शिवकुमार चौ, सिग्नल्स

आई सी-61997 यहुल लक्षिकांत केस्कर, ई एम ई

आई सी-61998 देवाशीच चक्रवर्ती, इंजीनियर्स

--12 दिसम्बर 2003

करम सिंह बर्मा

संयुक्त निदेशक

एमएस 8सी

सं. 387, दिनांक 13 जुलाई 2004—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

#### भारतीय वायु सेना

##### वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

आर के गुप्ता (8899) वै.इ. (वै), 01 नवम्बर 2001

वी ए पतकार (8632) वै.इ. (वै), 01 नवम्बर 2001

पी के देसाई (10078) वै.इ. (या), 12 जून 2002

#### उड़ान शाखा

एयर कामोड़ेर के मूल रैक में :—

एएका जी एस कोवर (13149), उ. शा., 16 दिसम्बर 2002/01 फरवरी 2002 (नो से)

एएका आर सी बहाओ (13156), उ. शा., 13 जनवरी 2003/01 फरवरी 2002 (नो से)

एएका ए आर निगम (13240), उ. शा., 01 जनवरी 2003/01 फरवरी 2002 (नो से)

एएका डी एन गणेश (13243), उ. शा., 01 फरवरी 2002

एएका बी सी नान्जपा (13246), उ. शा., 10 जनवरी 2003/01 फरवरी 2002 (नो से)

एएका वी के यर्जुवेदी (13248), उ. शा., 01 फरवरी 2002

एएका के स्वामीनाथन (13251), उ. शा., 01 फरवरी 2002

एएका आर एस दास (13158), उ. शा., 01 जनवरी 2003/01 फरवरी 2002 (नो से)

एएका ए गुप्ता (13241), उ. शा., 01 फरवरी 2002

एएका डी सी कुमारिया (13366), उ. शा., 11 मार्च 2002

एएका ए चोपड़ा (13368), उ. शा., 11 मार्च 2002

एएका आर एच कर्म (13369), उ. शा., 11 मार्च 2002

एएका जे एस पनेसर (13370), उ. शा., 26 मार्च 2002

ए/ए/का आर खुराना (13377), उ. शा., 26 मार्च 2002  
 ए/ए/का ए कपूर (13378), उ. शा., 26 मार्च 2002  
 ए/ए/का एक के कर्माकर (13379), उ. शा., 27 मार्च 2002  
 ए/ए/का एम भण्डारी (13380), उ. शा., 23 दिसम्बर 2002/27  
 मार्च 2002 (नो से)  
 ए/ए/का ए के गोगोई (13382), उ. शा., 27 मार्च 2002  
 ए/ए/का के पी देविया (12949), उ. शा., 25 अप्रैल 2003/07  
 जनवरी 2003 (नो से)  
 ए/ए/का के गोपकुमार (13391), उ. शा., 07 जनवरी 2003  
 ए/ए/का के जे मैथ्यू (13393), उ. शा., 07 जनवरी 2003  
 ए/ए/का ए गोपीनाथ (13397), उ. शा., 13 जनवरी 2003  
 ए/ए/का एम बनर्जी (13400), उ. शा., 13 जनवरी 2003  
 ए/ए/का ए संकिया (13585), उ. शा., 13 जनवरी 2003  
 ए/ए/का आर मल्होत्रा (13590), उ. शा., 15 फरवरी 2003  
 ए/ए/का टी के बिनुगोपाल (13598), उ. शा., 15 फरवरी 2003  
 ए/ए/का एम पी एस गिल (13604), उ. शा., 15 फरवरी 2003  
 ए/ए/का एस वर्षभान (13606), उ. शा., 15 फरवरी 2003  
 ग्रुप कैप्टन के मूल रैक में :--  
 आर सी पाण्डेय (15024), उ (पा), 11 मार्च 2002/09 जुलाई  
 2001 (नो से)  
 एस एस पाटिल (15032), उ (पा), 09 जुलाई 2001 (पी/आर  
 31.05.03)  
 आर महादेवन (15033), उ (पा), 01 अक्टूबर 2001 (पी/आर  
 31.08.02)  
 एन पी सिंह (15036), उ (पा), 01 अक्टूबर 2001  
 सी सी करियप्पा (15038), उ (पा), 01 अक्टूबर 2001  
 डी डी कुलकर्णी (15041), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 सी आर प्रसाद (14998), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 बी एस नागरा (15045), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 ए एस काकी (15048), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 ए सी भराली (15049), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 एम बी आवर (15052), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 ए के एस नायर (14999), उ (ने), 05 नवम्बर 2001  
 पी एस गिल (15055), उ (पा), 11 मार्च 2002/05 नवम्बर  
 2001(नो से)  
 राजा सिंह (15056) उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 के के घोष (15057), उ (पा), 11 मार्च 2002/05 नवम्बर  
 2001 (नो से)

एन एल खान (15058), उ (पा), 11 मार्च 2002/05 नवम्बर  
 2001(नो से)  
 आर एस गिल (15059), उ (पा), 11 मार्च 2002/05 नवम्बर  
 2001(नो से)  
 ए जे एस डिल्लौ (15002), उ (ने), 11 मार्च 2002/05 नवम्बर  
 2001(नो से)  
 के मलिक (15181), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 एस नीलाकण्ठ (15184), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 आर कुमार (15187), उ (पा), 05 नवम्बर 2001  
 बी एस चिकारा (पी/आर 30.06.02) (15188), उ (पा), 01  
 दिसम्बर 2001  
 ए पी कादुस्कर (15189), उ (पा), 01 दिसम्बर 2001  
 के पी नायर (15195), उ (पा), 01 दिसम्बर 2001  
 आर गौड़ (15196), उ (पा), 03 दिसम्बर 2001  
 एस सिंह (15197), उ (पा), 03 दिसम्बर 2001  
 के आर प्रसाद (15204), उ (पा), 01 जनवरी 2002  
 के सी दाश (15174), उ (ने), 27 फरवरी 2002  
 आर नन्दा (15177), उ (ने), 01 फरवरी 2002  
 एच एस जलावालिया (15206), उ (पा), 01 फरवरी 2002  
 के एस भारद्वाज (15207), उ (पा), 01 फरवरी 2002  
 पी के शरण (15210), उ (पा), 01 फरवरी 2002  
 एन सिवाराम (15212), उ (पा), 11 मार्च 2002  
 ए सी राजीव (15215), उ (पा), 11 मार्च 2002 (पी/आर-02  
 अप्रैल 2003)  
 के एस गिल (15220), उ (पा), 11 मार्च 2002  
 आर सक्सेना (15190), उ (पा), 26 मार्च 2002  
 बी के सिंह (15192), उ (पा), 02 जनवरी 2003  
 वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा  
 स्क्वाइर लीडर से विंग कमांडर (टाइम स्केल) के मूल रैक में :--  
 पी के दासबर्मा (15973), वै ई(वै), 05 जनवरी 2002  
 एस के शुक्ला  
 उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2बी

-----  
 सेना शाखा  
 महानिदेशालय, रक्षा संपदा

सं. 388, दिनांक 09 जुलाई 2004--राष्ट्रपति महोदय सशस्त्र  
 सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री एस. सी. डोगरा, अनुभाग अधि-  
 कारी, रक्षा संपदा महानिदेशालय को अधिकारीता की आयु प्राप्त करने  
 पर दिनांक 31 मई 2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्ति करते हैं, अतः  
 उनका मामला दिनांक 1 जून 2004 (पूर्वाह्न) से पेशन स्थापना को  
 स्थानांतरित किया जाता है।



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st July 2004

No. 374, dated 8th July 2004.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Krishnarao Thade, IAS (WB : 89), as Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Pranab Mukherjee) w.e.f. 3.6.2004 (AN) upto 27.4.2009 or till he ceases to function as Private Secretary to RM or until further orders, whichever event occurs the earliest.

V. SARASWATHY  
Under Secy.

## ARMY BRANCH

## DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE ESTATES

No. 375, dated the 9th July 2004.—The President is pleased to appoint Shri Kalu Ram, Assistant (Group 'B' non gazetted) of AFHQ Civil Services as officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules 2001 with effect from 28th May 2004 to 24th August 2004 or till regular incumbents become available whichever is earlier.

2. The appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. The officer will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will his service rendered as Section Officer under Rule 7(8) reckon for seniority.

4. The appointment is subject to any modification that may become necessary in course of implementation of direction of the Hon'ble High Court of Delhi in WP filed by the department and also any other court cases that may have a bearing on the seniority in the grade of assistant.

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 376, dated the 13th July 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

Shri Nagalla Ravi Krishna to be temporary Scientist 'C' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of one year with effect from 01-10-2001 in the Pay Scale of Rs. 10000-325-15200 and posted in DLRL, Hyderabad.

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research &

Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500:—

Name	Estt/Lab	Date
Shri S. Amrudesh	NPOL, Kochi	11.07.2001
Shri Baiju M Nair	—Do—	23.09.2002
Shri Puneet Kumar Sharma	SSPL, Delhi	23.09.2002
Shri Fahim	—Do—	19.03.2001
Shri Krishanu Ray	ISSA, Delhi	08.08.2002
Shri Anand Mohan	LASTEC, Delhi	12.07.1999
MS Parvathi UM	ADE, Bangalore	05.12.2001
MS Pritika-na Debnath	—Do—	20.07.2001
MS Rekha R	—Do—	21.01.2002
Shri Akhilesh Kumar Jha	—Do—	11.07.2001
Shri Vijayvittal P Nadagouda	—Do—	01.02.2002
Shri Pankaj Kumar Morya	—Do—	08.08.2002

JK KHADWAL  
Jt. Dir (Pers)

KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHASTRA SENA  
CHIKITSA SEWA/DG-3D

No. 377 dated the 14th July 2004.—The President is pleased to appoint the following individual to the post of lecturer, Statistics & Demography, Post Partum Cell AFMC, Pune (Family Welfare) (GP 'A' Gazetted) in a temporary capacity in the Family Welfare Organisation under Ministry of Defence with effect from the date shown against her name until further orders. She will be on probation for a period of two years.

(a) Ms. Seema Rajesh Patrikar 01 Aug 2003 (FN)

SANJAY SINHA  
Jt. Director

## NAVY BRANCH

## INTEGRATED HQrs-MOD (NAVY)

No. 378 dated the 09th July 2004.—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants as officiating Private Secretary (Group 'B' Gazetted Pay Scale Rs. 6,500-200-10,500/-) in the AFHQ Stenographers' Service w.e.f. the dates mentioned against their names, until further orders:—

(a) Shri Lachhman Dass : 25.02.2004

(b) Shri V Narasinga Rao : 01.03.2004

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 379 dated the 08th July 2004—The president is pleased to make the following promotion:—

**ARMY BRANCH**

**REGIMENT OF ARTILLERY**

**To be Substantive Subedar (GD)**

Nb Sub Krishan (JC-258872X), 27 Jun 2002/01 Apr 2002\*

Nb Sub M. Chennaiah (JC-260905W), 04 May 2002/01 Apr 2002\*

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-262290P), 13 Sep 2002/31 Aug 2002\*

Nb Sub Balwant Singh (JC-259655H), 01 Nov 2002/14 Oct 2002\*

Nb Sub Siya Ram Singh (JC-258862N), 21 Oct 2002.

Nb Sub Babu Ram (JC-262780H), 17 Dec 2002/26 Oct 2002\*

Nb Sub Bhup Singh (JC-263078K), 17 Dec 2002/26 Oct 2002\*

Nb Sub Prema Chandran MB (JC-258004L), 03 Mar 2003/28 Oct 2002\*

Nb Sub Dalbir Singh Dhani (JC-259205W), 28 Mar 2003/30 Oct 2002\*

Nb Sub Karan Singh (JC-262925H), 03 Mar 2003/30 Oct 2002\*

Nb Sub Paramjit Singh (JC-262660K), 31 Mar 2003/30 Oct 2002\*

Nb Sub Rattan Lal (JC-261487Y), 24 Jan 2003/31 Oct 2002\*

Nb Sub Chander Bhan Zandu (JC-260473M), 02 Nov 2002/01 Nov 2002\*

Nb Sub Kanwar Pal Singh (JC-260480H), 27 Nov 2002/01 Nov 2002\*

Nb Sub Kartar Singh (JC-260777K), 17 Feb 2003/01 Nov 2002\*

Nb Sub Pokharkar Krishna Ganpat (JC-262308A), 30 Dec 2002/01 Nov 2002\*

Nb Sub Gurmit Singh (JC-261753M), 11 Jan 2003/01 Nov 2002\*

Nb Sub A Amburose (JC-262511W), 01 Nov 2002.

Nb Sub Onkar Chand Sharma (JC-262357H), 01 Nov 2002

Nb Sub Bishan Singh (JC-263130F), 05 Apr 2003/01 Nov 2002\*

Nb Sub Vijay Singh (JC-263200P), 20 Nov 2002/01 Nov 2002\*

Nb Sub Mahabub Alam (JC-256969K), 01 Jan 2003/01 Dec 2002\*

Nb Sub Hind Kumar (JC-261818P), 01 Mar 2003.

Nb Sub Mahender Singh (JC-260135P), 02 Apr 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Surat Mal (JC-260315X), 01 Apr 2003.

Nb Sub Manohar Lal Rajput (JC-260956K), 22 Apr 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Padmanna BS (JC-261138P), 14 Apr 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Davinder Singh (JC-261566N), 25 May 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Baldev Raj (JC-262267F), 13 Apr 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Nihal Singh (JC-262127P), 12 Apr 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Jagmal Singh (JC-262484X), 12 May 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Prem Chandra Pandey (JC-262837M), 15 Apr 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-263166A), 01 Apr 2003.

Nb Sub Binod Kumar Pathak (JC-263542H), 05 Aug 2003/01 Apr 2003\*

Nb Sub Raj Singh (JC-261727L), 01 May 2003/05 Apr 2003\*

Nb Sub Dinesh Singh (JC-260412P), 01 June 2003.

Nb Sub Rajpal Singh (JC-261601L), 23 Nov 2003/01 Oct 2003\*

Nb Sub Sarwan Singh (JC-261428M), 12 Dec 2003/01 Oct 2003\*

Nb Sub Kuliwant Singh (JC-261729W), 21 Nov 2003/01 Oct 2003\*

Nb Sub Kadam Namdeo Rajaram (JC-261933P), 01 Oct 2003.

Nb Sub Ravinder Singh (JC-262557Y), 11 Nov 2003/01 Oct 2003\*

Nb Sub Kartar Singh (JC-262635L), 04 Dec 2003/01 Oct 2003\*

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-262417M), 01 Oct 2003

Nb Sub MG Karuppu Swamy (JC-262678A), 20 Nov 2003/01 Oct 2003\*

Nb Sub Mahabir Singh (JC-262791P), 01 Oct 2003

Nb Sub Rajender Singh (JC-262180X), 01 Oct 2003

Nb Sub Swaran Singh (JC-262620H), 12 Oct 2003/01 Oct 2003\*

Nb Sub Ajeet Singh Yadav (JC-262809A), 11 Nov 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Darshan Kumar Saini (JC-262568L), 16 Dec 2003/22 Oct 2003*
Nb Sub Satham Singh (JC-262658N), 12 Dec 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Karan Singh (JC-264308Y), 12 Nov 2003/29 Oct 2003*
Nb Sub Isakala Jornish (JC-262767Y), 15 Dec 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Karan Singh (JC-260631W), 17 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Raghbir Singh (JC-262830H), 01 Oct 2003	Nb Sub Ramvir Singh (JC-261398A), 03 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Narang Singh (JC-263136H), 21 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Kamlesh Bahadur Singh (JC-261415P), 15 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Vir Singh (JC-263004P), 14 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Nimmala Palle Dharama Reddy (JC-261739A), 03 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Anil Singh (JC-263686L), 04 Dec 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Nitya Nand (JC-261098Y), 22 Dec 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Attar Singh (JC-263253N), 15 Nov 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Bhagirathi Khuntia (JC-261719M), 01 Nov 2003.
Nb Sub Vinod Sharma (JC-263593W), 06 Nov 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Dinesh Chandra Wary (JC-262097H), 03 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Sheo Punjan Singh (JC-263538A), 25 Nov 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Ravinder Singh (JC-261941N), 08 Dec 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Rai Singh (JC-263541A), 03 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Nermalapuri Prasada Rao (JC-262169F), 14 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Satish Kumar (JC-263500W), 18 Nov 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Harinder Singh (JC-262589F), 11 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Bajrang Singh (JC-262482Y), 19 Dec 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Rajinder Singh (JC-262776A), 08 Dec 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Bharata Chandra Upadhyaya (JC-263739Y), 27 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Som Datt (JC-262869P), 10 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Dhyantal Singh (JC-263828X), 01 Oct 2003	Nb Sub Deputy Singh (JC-262913N), 29 Dec 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Bylla Purshottam (JC-263742Y), 20 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Ram Bahadur Prasad Yadav (JC-263225F), 11 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Virpal Singh (JC-263923K), 05 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Sidh Nath Dubey (JC-262934K), 01 Nov 2003
Nb Sub Balsubramanian AK (JC-263945H), 18 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Sarwan Singh (JC-263275M), 01 Nov 2003
Nb Sub Kamlash Kumar Mishra (JC-264300M), 24 Nov 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Puran Chand (JC-263509L), 11 Nov 2003/01 Nov 2003*
Nb Sub Baldev Raj (JC-264263K), 18 Oct 2003/01 Oct 2003*	Nb Sub Sukhdev Singh (JC-263484K), 01 Nov 2003.
Nb Sub Jagdish Prasad Yadav (JC-261879N), 02 Nov 2003/02 Oct 2003*	Nb Sub Kanwar Singh Yadav (JC-264405W), 01 Nov 2003.
Nb Sub Umesh Babu (JC-263212K), 08 Nov 2003/05 Oct 2003*	Nb Sub Ranjit Singh (JC-261507F), 01 Dec 2003.
Nb Sub Kishor KS (JC-263334N), 22 Nov 2003/12 Oct 2003*	Nb Sub Rajender Prashad (JC-262205F), 08 Jan 2004/01 Dec 2003*
Nb Sub Lal Singh (JC-258972H), 19 Oct 2003.	Nb Sub Jandru P (JC-261846F), 01 Dec 2003.
	Nb Sub Dev. Raj (JC-262397K), 01 Dec 2003.
	Nb Sub Radha Krishna (JC-263038H), 13 Feb 2004/01 Dec 2003*

- |  |  |
|--|--|
| Nb Sub Birendra Prasad (JC-262569P), 18 Dec 2003/01<br>Dec 2003*         | Nb Sub Molanch Das (JC-264558A), 29 Dec 2003/25<br>Aug 2003*             |
| Nb Sub P Muthu Raj (JC-263221L), 15 Dec 2003/01<br>Dec 2003*             | Nb Sub Didar Singh (JC-263205N), 11 Jan 2004/31 Aug<br>2003*             |
| Nb Sub Ram Singh (JC-262753Y), 01 Dec 2003                               | Nb Sub Jitendra Prasad Singh (JC-263712F), 13 Nov<br>2003/06 Sep 2003*   |
| Nb Sub Koyale Ashok Tukaram (JC-263389X), 13 Dec<br>2003/01 Dec 2003*    | Nb Sub Krishan Singh (JC-264179K), 22 Sep 2003/01<br>Sep 2003*           |
| Nb Sub Nirbir Singh (JC-263195P), 07 Feb 2004/01 Dec<br>2003*            | Nb Sub Yannam Poli Reddy (JC-264411K), 01 Nov 2003/<br>01 Sep 2003*      |
| Nb Sub S Shahul Hameed (JC-263199L), 05 Dec 2003/<br>01 Dec 2003*        | Nb Sub Bindeshwar Prasad (JC-259179A), 11 Nov 2003/<br>01 Oct 2003*      |
| Nb Sub Gamini Ramesh Babu (JC-263476L), 13 Dec<br>2003/01 Dec 2003*      | Nb Sub Rajvir Singh (JC-259746X), 24 Oct 2003/01<br>Oct 2003*            |
| Nb Sub Satish Kumar (JC-263523X), 24 Dec 2003/01<br>Dec 2003*            | Nb Sub Ram Prakash (JC-260560A), 23 Oct 2003/01<br>Oct 2003*             |
| Nb Sub Chander Singh (JC-263081K), 01 Dec 2003                           | Nb Sub Suresh Kumar Yadav (JC-259741Y), 05 Oct<br>2003/01 Oct 2003*      |
| Nb Sub Prabhoo Dayal (JC-261320P), 11 Jun 2003/01<br>Jun 2003*           | Nb Sub Inderjit Agnihotri (JC-260410K), 09 Nov 2003/<br>01 Oct 2003*     |
| Nb Sub Sulakhan Singh (JC-262223K), 07 Jul 2003/06<br>Jun 2003*          | Nb Sub J Balendra Singh (JC-261302M), 22 Nov 2003/<br>01 Oct 2003*       |
| Nb Sub Venugopalai K P (JC-261377K), 02 Oct 2003/<br>10 Jun 2003*        | Nb Sub Ghan Shyam Meena (JC-261285K), 05 Dec<br>2003/01 Oct 2003*        |
| Nb Sub Kanchan Ram (JC-259921P), 01 Jul 2003                             | Nb Sub Tarsem Singh (JC-260945X), 01 Nov 2003/01<br>Oct 2003*            |
| Nb Sub Harvinder Kumar (JC-261089X), 09 Jul 2003/<br>01 Jul 2003*        | Nb Sub Ram Naresh Roy (JC-260961P), 05 Oct 2003/01<br>Oct 2003*          |
| Nb Sub Shinder Ram (JC-261405L), 01 Jul 2003                             | Nb Sub Yogendra Nath Singh Yadav (JC-261014A), 01<br>Oct 2003*           |
| Nb Sub Haradhan Muzumdar (JC-261549N), 05 Jul 2003/<br>01 Jul 2003*      | Nb Sub Kewal Singh (JC-261030X), 13 Oct 2003/01<br>Oct 2003*             |
| Nb Sub G Chinna Swamy (JC-263100K), 17 Aug 2003/<br>01 Jul 2003*         | Nb Sub Thambada Tirupathi Rao (JC-262265W), 12 Nov<br>2003/01 Oct 2003*  |
| Nb Sub Nishan Singh (JC-262863N), 01 Jul 2003                            | Nb Sub Sukhdev Singh (JC-261189H), 01 Nov 2003/01<br>Oct 2003*           |
| Nb Sub Kuldip Singh (JC-261585Y), 12 Sep 2003/01<br>Aug 2003*            | Nb Sub E Babu (JC-261580M), 14 Apr 2002/01 Mar<br>2002*                  |
| Nb Sub Birender Singh (JC-263752H), 28 Aug 2003/01<br>Aug 2003*          | Nb Sub Din Dayal Yadav (JC-259614K), 01 Apr 2002<br>Apr 2002*            |
| Nb Sub Ram Saran Singh (JC-264329P), 28 Oct 2003/<br>01 Aug 2003*        | Nb Sub Krishan Lal (JC-259868F), 18 May 2002/01<br>Apr 2002*             |
| Nb Sub A Harikrishnan (JC-262855P), 13 Oct 2003/13<br>Aug 2003*          | Nb Sub Umed Singh (JC-259982Y), 24 Aug 2002/01<br>Apr 2002*              |
| Nb Sub Om Prakash (JC-263900H), 27 Nov 2003/16<br>Aug 2003*              | Nb Sub Meda Bayiha Veerayya (JC-259753N), 01 Apr<br>2002                 |
| Nb Sub Sukhdev Singh (JC-264124A), 15 Oct 2003/17<br>Aug 2003*           | Nb Sub Sudhansu Sekar Satpathy (JC-263720A), 22 Nov<br>2003/25 Aug 2003* |
| Nb Sub Sudhansu Sekar Satpathy (JC-263720A), 22 Nov<br>2003/25 Aug 2003* | Nb Sub Patil Vitthal Shripati (JC-260035K), 22 May 2002/<br>01 Apr 2002* |

Nb Sub Puran Singh (JC-260240L), 18 Apr 2002/01 Apr 2002*	Nb Sub Jalesh Sharma (JC-259569H), 21 Oct 2002/01 Sep 2002*	
Nb Sub Ram Vraksh Yadav (JC-260274Y), 02 Apr 2002/01 Apr 2002*	Nb Sub Virendra Singh (JC-259852N), 01 Sep 2002.	
Nb Sub Vijay Pal (JC-260393P), 15 Apr 2002/01 Apr 2002*	Nb Sub Bishambar Dayal (JC-260642H), 24 Sep 2002/01 Sep 2002*	
Nb Sub Hakim Singh (JC-260714F), 08 May 2002/01 Apr 2002*	Nb Sub Arslan Sandipan Bhagwanrao (JC-261803M), 28 Feb 2003/01 Sep 2002*	
Nb Sub VSV Santiago (JC-261369L), 01 Apr 2002	Nb Sub Daulat Ram (JC-258373H), 12 Oct 2002/10 Sep 2002*	
Nb Sub Gianendra Kumar Rai (JC-260274L), 13 Aug 2002/01 Apr 2002*	Nb Sub Kartick Chandra Paul (JC-261186P), 15 Nov 2002/11 Oct 2002*	
Nb Sub Dewan Singh (JC-261207A), 21 Jun 2002/01 Apr 2002*	Nb Sub Gurshinder Singh (JC-262983M), 02 Nov 2002/23 Oct 2002*	
Nb Sub Jit Bahadur Pun (JC-261136K), 01 Apr 2002	Nb Sub Jaspal Singh (JC-263139W), 20 Nov 2002/23 Oct 2002*	
Nb Sub Nanda Raj Bhandari (JC-261141P), 01 Apr 2002	*(Granted ante date seniority)	
Nb Sub Ajaib Singh (JC-261533H), 01 Apr 2002	To be Sub Clk (GD/SKs T)	
Nb Sub Arjun Singh (JC-262045M), 02 Apr 2002/01 Apr 2002*	Hav/Clk Birbal Singh (No. 14359691K now JC-266330H), 30 Dec 2003/12 Nov 2003*	
Nb Sub Mohan Das P S (JC-262521A), 24 Jun 2002/01 Apr 2002*	Hav/Clk Hiremath Nagayya (No. 14469854P now JC-266331L), 29 Dec 2003/12 Nov 2003*	
Nb Sub Rattan Lal (JC-259585A), 28 May 2002/01 May 2002*	Hav/Clk Sumer Singh (No. 14476862W now JC-266390X), 01 Jan Dec 2004/12 Nov 2003*	
Nb Sub Ramesh Chand (JC-261538F), 01 Jul 2002/01 May 2002*	*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Nov 2003 without effect on pay & allowances)	
Nb Sub Beerendra Singh (JC-262297Y), 10 Jul 2002/07 May 2002*	Hav/Clk T N Raman (No. 14478691N now JC-266329N), 31 Dec 2003/01 Apr 2003*	
Nb Sub Rajender Kumar (JC-256498F), 24 May 2002	*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay & allowances)	
Nb Sub Balak Ram Dhiman (JC-258791X), 09 Nov 2002/01 Jun 2002*	Hav/Clk Janardana K C (No. 14360338K now JC-266391A), 31 Dec 2003/01 May 2003*	
Nb Sub Ramchandra Govind Swami (JC-262077P), 20 Jul 2002/01 Jun 2002*	*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003 without effect on pay & allowances)	
Nb Sub Pahal Singh Thapa (JC-258596A), 18 Oct 2002/01 Aug 2002*	Hav/Clk Shobha Singh (No. 14468375F now JC-266332N), 31 Dec 2003/12 Nov 2003*	
Nb Sub Abdul Saleem M (JC-259111Y), 01 Aug 2002	Hav/Clk Harish Candra (No. 14352595M now JC-266333W), 27 Dec 2003/12 Nov 2003*	
Nb Sub Puttu Singh Parihar (JC-261067Y), 30 Aug 2002/01 Aug 2002*	Hav/Clk V V Madan Mohan (No. 14469175X now JC-266392H), 01 Jan 2004/12 Nov 2003*	
Nb Sub Tarlochan Singh (JC-257306L), 16 Aug 2002/10 Aug 2002*	Hav/Clk Mangal Singh (No. 14469296Y now JC-266393L), 02 Jan 2004/12 Nov 2003*	
Nb Sub Mahinder Singh (JC-263315H), 09 Nov 2002/22 Aug 2002*	*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Nov 2003 without effect on pay & allowances)	
Nb Sub Dinan K (JC-263043N), 25 Oct 2002/30 Aug 2002*	Hav/Clk Durjodhan Behera (No. 14346061L now JC-266394N), 03 Jan 2004/12 Nov 2003*	
Nb Sub Mahipal (JC-258828N), 28 Sep 2002/01 Sep 2002*		

Hav/Clk N Gopal Swamy (No. 14467921W now JC-266295L), 20 Dec 2003/12 Nov 2003\*

Hav/Clk Surender Pal (No. 14352908A now JC-266396Y), 01 Jan 2004/12 Nov 2003\*

Hav/Clk Subhash Singh Kalothra (No. 14469309L now JC-266397F), 01 Jan 2004/12 Nov 2003\*

Hav/Clk Abhaybir Singh (No. 14482788W now JC-266398K), 01 Jan 2004/12 Nov 2003\*

Hav/Clk Ashwani Kumar Pathak (No. 14369909Y now JC-266399M), 01 Jan 2004/12 Nov 2003\*

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Nov 2003 without effect on pay & allowances)

Hav/Clk Bahadur Singh (No. 14370337P now JC-266296N), 20 Dec 2003/01 Dec 2003\*

Hav/Clk Ishwar Singh (No. 14370427W now JC-266400W), 05 Jan 2004/01 Dec 2003\*

Hav/Clk Sukh Pal Singh (No. 14483425Y now JC-266401Y), 01 Jan 2004/01 Dec 2003\*

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay & allowances)

Hav/Clk Sivasankaran M (No. 14468064N now JC-266395W), 08 Jan 2004/12 Nov 2003\*

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Nov 2003 without effect on pay & allowances)

Hav/Clk Subhash Chand (No. 14370495K now JC-266402F), 08 Jan 2004/01 Jan 2004\*

Hav/Clk Azad Singh (No. 14483569F now JC-266403K), 07 Jan 2004/01 Jan 2004\*

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay & allowances)

#### To be Nb Sub

Hav Shayar Singh (No. 14463605A now JC-266449M), 19 Jan 2004/13 Jun 2003\*

Hav Dileep D (No. 14360227M now JC-266450F), 18 Jan 2004/22 Sep 2003\*

Hav Rohitas Yadav (No. 14467345X now JC-266451K), 01 Nov 2003/01 Oct 2003\*

Hav K Selva Kumar (No. 14372069P now JC-266452M), 18 Jan 2004/01 Oct 2003\*

Hav Jaswant Singh (No. 14357144Y now JC-266453P), 03 Dec 2003/01 Oct 2003\*

Hav S Victer Teyaseelan (No. 14344287X now JC-266454X), 20 Dec 2003/09 Oct 2003\*

Hav Ved Prakash Verma (No. 14339004F now JC-266455A), 18 Oct 2003/10 Oct 2003\*

RHM Jagir Singh (No. 14467745K now JC-266456H), 01 Nov 2003

BHM Mahavir Singh (No. 14464558A now JC-266457L), 19 Dec 2003/04 Nov 2003\*

BHM Joseph P L (No. 14470218N now JC-266458N), 29 Dec 2003/06 Nov 2003\*

Hav Kola Nageshwara Rao (No. 15109975K now JC-266459W), 12 Jan 2004/22 Nov 2003\*

Hav Purushothaman M (No. 14404718L now JC-266460L), 01 Feb 2004/25 Dec 2003\*

BHM Daleep Singh (No. 14467262M now JC-266461N), 19 Feb 2004/13 Jan 2004\*

RHM Narain Singh (No. 14344038Y now JC-266462W), 19 Feb 2004/13 Jan 2004\*

RHM Babban Singh (No. 14464388F now JC-266463Y), 01 Feb 2004

Hav Zarkar Rajabhai (No. 14386443X now JC-266464F), 10 Mar 2004/01 Feb 2004\*

Hav Balbir Singh (No. 14357292F now JC-266465K), 07 Dec 2003/01 Aug 2003\*

BHM Swaran Singh (No. 14474017M now JC-266466M), 16 Feb 2004/05 Aug 2003\*

Hav Mewa Lal (No. 14394403L now JC-266767P), 03 Feb 2004/25 Aug 2003\*

Hav Ajay Kumar (No. 14489245M now JC-266468X), 20 Nov 2003/25 Aug 2003\*

Hav Suriachandran O S (No. 14486838L now JC-266469A), 29 Dec 2003/01 Sep 2003\*

BHM Karun Kumar (No. 14849880A now JC-266470P), 16 Jan 2004/01 Oct 2003\*

BHM Roop Singh (No. 14368541P now JC-266471X), 24 Dec 2003/23 Oct 2003\*

BHM Chandan Singh Soun (No. 14462974L now JC-266472A), 08 Dec 2003/01 Nov 2003\*

Hav Bhupinder Singh (No. 14366669F now JC-266473N), 30 Jan 2004/01 Nov 2003\*

RHM Ram Avtar (No. 14343765K now JC-266474L), 30 Dec 2003/15 Nov 2003\*

BQMH Bhajan Lal (No. 14470134A now JC-266475N), 30 Dec 2003/15 Nov 2003\*

RHM Gurmail Singh (No. 14467389P now JC-266476W), 26 Jan 2004/01 Dec 2003\*

BHM Sikandar Yadav (No. 14345237M now JC-266477Y), 12 Jan 2004/01 Dec 2003\*

Hav Mool Raj (No. 14470331P now JC-266478F), 01 Jan 2004

Hav Harnam Singh (No. 14469745H now JC-266479K), 31 Jan 2004/01 Jan 2004\*

- RHM Shinde Mahari Ganpat** (No. 14499627K now JC-266480Y), 28 Feb 2004/01 Jan 2004\*
- RHM Avdesh Kumar Tiwari** (No. 14486942F now JC-266481F), 09 Aug 2003/01 Jul 2003\*
- RHM Suresh** (No. 14399746E now JC-266482K), 16 Oct 2003/01 Oct 2003\*
- RHM Rajbir Singh** (No. 15100216H now JC-266483M), 01 Dec 2003\*
- RHM R Rajgopal** (No. 15112879A now JC-266484P), 01 Dec 2003\*
- RHM Devinder Singh** (No. 15100028F now JC-266485X), 01 Dec 2003\*
- RHM Jadhav Tukaram Hindu** (No. 14397137H now JC-266486A), 01 Dec 2003\*
- RHM Atish Kumar** (No. 15113717F now JC-266487H), 01 Dec 2003\*
- RHM Narendra Kumar** (No. 14492273K now JC-266488L), 10 Dec 2003/01 Dec 2003\*
- RHM Rakesh Kumar** (No. 14396090W now JC-266489N), 01 Jan 2004\*
- Hav Jagadeesh K** (No. 144368676W now JC-266490H), 18 Oct 2003/13 Aug 2003\*
- Hav Palwe Dharmnath Mohan** (No. 14339414Y now JC-266491L), 01 Dec 2003/06 Sep 2003\*
- RHM Mukundar Singh** (No. 14345918F now JC-266492N), 20 Jan 2004/01 Nov 2003\*
- BHM K Amritrao Rao** (No. 14462299K now JC-266493W), 25 Feb 2004/01 Dec 2003\*
- RHM Sudhir Kumar Jha** (No. 14464074A now JC-266494Y), 03 Feb 2004/01 Dec 2003\*
- Hav N Thimma Reddy** (No. 14490863K now JC-266495F), 27 Jan 2004/01 Dec 2003\*
- Hav Shree Montu Roy** (No. 14467680P now JC-266496K), 11 Feb 2004/01 Dec 2003\*
- BHM Kuldip Singh** (No. 14466899K now JC-266497M), 16 Jan 2004/22 Dec 2003\*
- Hav Madan Singh Rawat** (No. 14340338Y now JC-266498P), 24 Jan 2004/01 Jan 2004\*
- RHM Shankar Batta** (No. 14332408H now JC-266499X), 26 Jan 2004/09 Jan 2004\*
- BHM Madan Lal** (No. 14468355H now JC-266500F), 24 Jan 2004/11 Jan 2004\*
- Hav Shiv Dayab Singh** (No. 14339490K now JC-266501K), 15 Jan 2004\*
- Hav Manohar Ram** (No. 14376977P now JC-266502M), 20 Feb 2004/15 Jan 2004\*
- BHM Debendra Nath Patra** (No. 14352271P now JC-266503P), 01 Feb 2004/20 Jan 2004\*
- BHM Braham Prakash** (No. 14460457P now JC-266504X), 14 Feb 2004/01 Feb 2004\*
- BHM Krishna Deo Prasad Yadav** (No. 14472997A now JC-266505A), 10 Feb 2004/01 Feb 2004\*
- Hav PM Machaiah** (No. 14462285K now JC-266358H), 07 Nov 2003/01 Jul 2003\*
- Hav M Mutha Lagu** (14355600X now JC-266359L), 20 Nov 2003/ 31 Aug 2003\*
- Hav Avtar Singh** (No. 14462348F now JC-266360A), 06 Nov 2003/ 31 Aug 2003\*
- Hav Ghana Kanta Choudhury** (No. 14344187M now JC-266361H), 13 Oct 2003/ 01 Sep 2003\*
- RHM Jaswant Singh** (No. 14346748H now JC-266362L), 12 Dec 2003/ 01 Oct 2003\*
- BHM Nishan Singh** (No. 14350879X now JC-266363N), 04 Dec 2003/ 01 Oct 2003\*
- RHM M Fakuruddin** (No. 14345699W now JC-266364W), 22 Nov 2003/ 01 Oct 2003\*
- Hav Gurdip Singh** (No. 15103201M now JC-266365V), 12 Jan 2004/ 01 Oct 2003\*
- Hav G Anki Reddi** (No. 14464367L now JC-266366F), 06 Dec 2003/ 01 Oct 2003\*
- Hav Rajendra Prasad Yadava** (No. 14371522P now JC-266367K), 09 Nov 2003/ 14 Oct 2003\*
- BHM Naravla Gopala Krishnudu** (No. 14341078P now JC-266368M), 15 Dec 2003/ 22 Oct 2003\*
- BHM Gurcharan Singh** (No. 14497210L now JC-266369P), 05 Jan 2004/ 01 Nov 2003\*
- Hav Talwinder Singh** (No. 14462762A now JC-266370P), 01 Nov 2003\*
- RHM P Ashok Kumar** (No. 14342689W now JC-266371M), 05 Dec 2003/ 01 Dec 2003\*
- BHM N Rajkishore Singh** (No. 14343096W now JC-266372P), 13 Dec 2003/01 Dec 2003\*
- BHM Kehri Singh** (No. 14462844H now JC-266373X), 18 Dec 2003/ 12 Dec 2003\*
- Hav Fundi Singh** (No. 14377567L now JC-266374A), 01 Dec 2003/ 01 Mar 2003\*
- Hav Mahil Singh** (No. 14481206Y now JC-266375H), 15 Oct 2003/ 01 Aug 2003\*
- Hav Shobh Nath** (No. 14378500M now JC-266376L), 17 Oct 2003/ 05 Aug 2003\*
- Hav Khem Karan Singh** (No. 14347216F now JC-266377N), 01 Nov 2003/25 Aug 2003\*

- Hav Nishan Singh (No. 14455929W now JC-266378W),  
04 Nov 2003/01 Sep 2003\*
- Hav Mritunjay Singh (No. 14482729K now JC-266379Y), 22 Dec 2003/01 Sep 2003\*
- RHM Surjan Singh (No. 14347248K now JC-266380N),  
04 Dec 2003/01 Oct 2003\*
- Hav Rajbir (No. 14472897W now JC-266381W), 24 Oct  
2003/01 Oct 2003\*
- Hav Radha Krishnan KN (No. 14391879M now JC-  
266382Y), 08 Oct 2003.
- Hav Vijay Kumar (No. 14349097P now JC-266383F),  
19 Nov 2003/ 25 Oct 2003\*
- Hav Mahinder Singh (No. 14490015L now JC-266384K),  
16 Dec 2003/01 Nov 2003\*
- Hav Suresh Kumar (No. 14492456A now JC-266385M),  
19 Dec 2003/01 Nov 2003\*
- Hav Kulwant Singh (No. 14378091W now JC-266386P),  
17 Nov 2003/01 Nov 2003\*
- Hav Badalu Ram Yadav (No. 14356643Y now JC-  
266387X), 24 Dec 2003/01 Dec 2003\*
- Hav Murlidharan Nair R (No. 14346510P now JC-  
266388A), 08 Dec 2003/01 Dec 2003\*
- BHM Harish Chandra Yadav (No. 14355618N now JC-  
266389H), 22 Dec 2003/02 Dec 2003\*.
- Hav Krishan A (No. 14345352Y now JC-266404M), 05  
Jan 2004/01 Jun 2003\*
- Hav James Kutty D (No. 14350541M now JC-266405P),  
12 Nov 2003/01 Jun 2003\*
- Hav Chattar Singh (No. 14469021L now JC-266406X),  
10 Nov 2003/01 Aug 2003\*
- Hav Kampta Prasad Misra (No. 14478718M now JC-  
266407A), 22 Dec 2003/16 Aug 2003\*
- Hav Darwan Singh (No. 14461886H now JC-266408H),  
09 Sep 2003/28 Aug 2003\*
- Hav Suresh Baboo (No. 14462280L now JC-266409L),  
16 Jan 2004/01 Oct 2003\*
- BHM Randhir Singh (No. 14368498Y now JC-266410A),  
19 Nov 2003/01 Oct 2003\*
- Hav Ranjan Kumar Das (No. 14341923P now JC-  
266411H), 23 Oct 2003/01 Oct 2003\*
- BHM Vijaya Kumar A (No. 14357451N now JC-  
266412L), 22 Nov 2003/01 Oct 2003\*
- Hav Balbir Singh (No. 14347988Y now JC-266413N),  
14 Oct 2003/01 Oct 2003\*
- RHM Kanak Ch. Gogai (No. 14343287L now JC-  
266414W), 05 Jan 2004/01 Nov 2003\*
- Hav Babu Singh Langew (No. 14482673H now JC-  
266415Y), 24 Jan 2004/30 Nov 2003\*
- Hav Maheswar Sahu (No. 15115936F now JC-266416F),  
24 Jan 2004/30 Nov 2003\*
- BHM Mahadik Mahadev Babu (No. 14474506X now  
JC-266417K), 14 Jan 2004/01 Dec 2003\*
- RHM Darshan Singh (No. 14466521X now JC-  
266418M), 18 Dec 2003/01 Dec 2003\*
- BHM Rampal Singh (No. 14467014W now JC-266419P),  
08 Jan 2004/01 Dec 2003\*
- Hav OM Prakash Shukla (No. 14475641X now JC-  
266420K), 07 Jan 2004/01 Mar 2003\*
- Hav Ashoka Kumar Singh (No. 14366034H now JC-  
266421M), 20 Jan 2004/01 Aug 2003\*
- Hav Khem Bahadur Thapa (No. 14342747P now JC-  
266422P), 13 Dec 2003/21 Aug 2003\*
- Hav Sajjan Singh (No. 15111521P now JC-266423X),  
13 Jan 2004/01 Sep 2003\*
- BHM Diwan Singh (No. 14464507M now JC-266424A),  
25 Nov 2003/01 Sep 2003\*
- BHM Devendra Pal Singh (No. 14357385W now JC-  
266425H), 05 Dec 2003/01 Oct 2003\*
- Hav Yogesh Kumar (No. 14481964W now JC-266426L),  
27 Oct 2003/01 Oct 2003\*
- BHM Padmanabhan PC (No. 14357022M now JC-  
266427N), 09 Jan 2004/01 Nov 2003\*
- Hav Bikram Singh (No. 14466160K now JC-266428W),  
18 Dec 2003/01 Nov 2003\*
- Hav Deo Dhary Singh (No. 14472721K now JC-  
266429Y), 27 Dec 2003/01 Nov 2003\*
- Hav Rakesh Kumar (No. 14344358N now JC-266430N),  
16 Nov 2003/01 Nov 2003\*
- RHM Uthappa MN (No. 14484212X now JC-266431W),  
19 Dec 2003/02 Nov 2003\*
- Hav Suresh Kumar (No. 14463609W now JC-266432Y),  
24 Dec 2003/06 Nov 2003\*
- Hav Mahadeo Ram Jat (No. 15100406P now JC-  
266433F), 21 Jan 2003/06 Nov 2003\*
- Hav Hari Singh (No. 14476053W now JC-266434K), 01  
Jan 2004/01 Dec 2003\*
- Hav Mohan Lal (No. 14457180W now JC-266435M),  
21 Jan 2004/ 06 Dec 2003\*
- \*(Gtd Seniority Wef)

R. CHATURVEDI  
Under Secy.

No. 380 dated 09 July 2004—The President is pleased to make the following promotion:—

**ARMOURED CORPS**

(To be Substantive Risaldar Major)

Risaldar Onkar Singh (JC-236965M), 07 Sep 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 July 2003 without effect on Pay and allowances)

Risaldar Prem Dass (JC-236891H), 01 Sep 2003.

Risaldar Jaswant Singh (JC-237147X), 03 Oct 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Oct 2003 without effect on Pay and allowances)

Risaldar/Clk (GD) Mohinder Singh (JC-236429H), 01 Nov 2003.

Risaldar Abdul Gafoor (JC-237446W), 02 Dec 2003\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Dec 2003 without effect on Pay and allowances)

Risaldar Prakash Chand (JC-237368K), 01 Jan 2004.

Risaldar Shambhu Singh (JC-237546F), 12 Feb 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Feb 2004 without effect on Pay and allowances)

Risaldar Chandra Kumar Rai (JC-236017A), 05 Feb 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Feb 2004 without effect on Pay and allowances)

(To be Nb Ris)

Dfr/Clk Udaivir Singh Tanwar (No. 1073713H now JC-240538N), 01 Feb 2004

Dfr/Clk Gulab Singh (No. 1073716X now JC-240539W), 01 Feb 2004

Dfr/Clk Jitender Singh (No. 1073751A now JC-240540L), 03 Feb 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Biswajit Das (No. 1073772W now JC-240541N), 03 Feb 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Jairam Singh Diwakar (No. 1068748W now JC-240637W), 01 Apr 2004

Dfr/Clk Ojjwal Kumar Poddar (No. 1073774F now JC-240638Y), 01 Apr 2004

Dfr/Clk Jagdish (No. 1073797H now JC-240639F), 01 Apr 2004

Dfr/SKT Prem Pal Singh (No. 1079061M now JC-240640W), 01 Apr 2004

**JOSE THOMAS**  
Under Secy.

No. 381, dated 08th July 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**  
**ARMY EDUCATIONAL CORPS**  
To be Sub Maj

PA Sub Maj Maskeen Singh Bhou (JC-207066H), 01 Dec 2003

PA Sub Maj Ramphal Singh (JC-211926H), 01 Dec 2003

PA Sub Maj Harpal Singh (JC-214281W), 04 Feb 2004@

PA Sub Maj Rakesh Kumar Sharma (JC-209928P), 06 Feb 2004@

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)

PA Sub Maj Bharat Singh (JC-206827W), 22 Mar 2004#

#(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

PA Sub Maj Pratap Singh (JC-211933Y), 01 Apr 2004

To be Subedar

PA Sub Ramesh Pratap Singh Raghubanshi (JC-802704K), 03 Oct 2003@

PA Sub Krishna Ballav Lal (JC-802711A), 01 Feb 2004@

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances)

PA Sub Virendra Singh (JC-802720F), 01 Sep 2003

PA Sub Ashok Singh (JC-802728N), 03 Oct 2003#

#(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances)

PA Sub Ami Chand (JC-802734F), 01 Dec 2003

PA Sub Surendra Prasad Pandey (JC-802736M), 02 Dec 2003\$

\$ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances)

PA Sub Aditya Nath Mishra (JC-802739N), 01 Dec 2003

PA Sub Arun Kumar Rai (JC-802741X), 01 Dec 2003

PA Sub Ram Gopal (JC-802580A), 01 Apr 2004%

- PA Sub Vijay Bahadur Singh Sengar (JC-802770M), 01 Apr 2004%  
 % (Granted seniority in the rank of Sub wef 03 Dec 2003 without effect on pay and allowances)
- PA Sub Kulvinder Singh (JC-802745N), 01 Jan 2004
- PA Sub Vijay Pal Singh Rawat (JC-802747Y), 01 Jan 2004
- PA Sub Lachhmi Narayan Mishra (JC-802759N), 03 Jan 2004&  
 & (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)
- PA Sub Varadi Dharma Rao (JC-802761L), 01 Jan 2004
- PA Sub Mahesh Kumar (JC-802762N), 01 Jan 2004
- PA Sub Nagendra Singh (JC-802774H), 01 Feb 2004
- PA Sub Prakash Chandra Pathak (JC-802765F), 15 Mar 2004\*
- PA Sub Mukhtyar Singh (JC-802766K), 04 Feb 2004\*
- PA Sub Santosh Kumar Mishra (JC-802767M), 01 Feb 2004
- PA Sub Shiv Kumar Mishra (JC-802768P), 04 Feb 2004\*
- PA Sub Ganga Sahay (JC-802775L), 01 Mar 2004\*
- PA Sub Kushala Nand Purohit (JC-802776N), 03 Feb 2004\*
- PA Sub Madan Mohan (JC-802777W), 01 Feb 2004
- PA Sub Ramesh Kumar (JC-802778Y), 13 Feb 2004\*
- PA Sub Hardeo Prasad (JC-802779F), 01 Feb 2004
- PA Sub Sarveshwer Pathak (JC-802780W), 11 Feb 2004\*
- PA Sub/Clk Narayan Singh Rathore (JC-803042Y), 03 Feb 2004\*
- PA Sub/Clk Ram Nath (JC-803043F), 01 Feb 2004  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)
- PA Sub Puran Chandra Mishra (JC-802781Y), 13 Mar 2004+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)
- PA Sub Kuldeep Singh (JC-802783K), 01 Mar 2004
- PA Sub Satyendra Prakash Tyagi (JC-802784M), 01 Apr 2004
- PA Sub Rais Ahmed (JC-802785P), 01 Apr 2004
- PA Sub Rajbir Singh (JC-802786X), 05 Apr 2004=
- = (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)
- To be Naib Subedar
- Hav Chand Singh (No. 9509540W now JC-803591Y), 10 Mar 2004@
- Hav Saseendran V K (No. 9509541Y now JC-803592F), 09 Mar 2004@
- Hav Prem Lal (No. 9509542F now JC-803593K), 01 Mar 2004
- Hav Kanwar Pal (No. 9509543K now JC-803594M), 08 Mar 2004@
- Hav Chhabil Dass (No. 9509544M now JC-803595P), 15 Mar 2004@
- Hav Umakanta Baral (No. 9509545P now JC-803596X), 01 Mar 2004
- Hav Lavkush Kumar Sharma (No. 9509548H now JC-803597A), 08 Mar 2004@
- Hav Ramesh Chander (No. 9509553N now JC-803598H), 03 Mar 2004@
- Hav Devendra Pal Singh (No. 9509555Y now JC-803599L), 09 Mar 2004@
- Hav Murlidhar Pandey (No. 9509556F now JC-803600P), 14 Mar 2004@
- @ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)
- Hav Om Prakash Dwivedi (No. 9509561M now JC-803601X), 08 May 2004#
- Hav Udhvir Singh (No. 9509562P now JC-803602A), 01 Apr 2004
- Hav Ravindra Singh Rawat (No. 9509563X now JC-803603H), 01 Apr 2004
- Hav Mukesh Chand (No. 9509564A now JC-803604L), 01 Apr 2004
- Hav Hem Singh (No. 9509565H now JC-803605N), 05 Apr 2004#
- Hav Daljit Singh Chauhan (No. 9509568W now JC-803606W), 01 Apr 2004
- Hav Bajrang Lal (No. 9509571W now JC-803607Y), 01 Apr 2004
- Hav Onkar Nath Tripathi (No. 9509573F now JC-803609K), 01 Apr 2004
- Hav Dev Karan (No. 9509574K now JC-803610Y), 01 Apr 2004
- # (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).
- Hav Pitamber Mishra (No. 9508710H now JC-803611F), 01 May 2004
- Hav Mohan K (No. 9509468L now JC-803612K), 01 May 2004

Hav Arjun Singh (No. 9509577X now JC-803614P), 01 May 2004

Hav Hans Raj (No. 9509579H now JC-803616A), 01 May 2004

Hav Ram Phal (No. 9509583L now JC-803617H), 01 May 2004

Hav Pulak Kanti Mondal (No. 9509584N now JC-803618L), 01 May 2004

Hav Kuldip Kumar (No. 9509586Y now JC-803620H), 01 May 2004

Hav Radhey Kant Dubey (No. 9509587F now JC-803621L), 01 May 2004

Hav Mani Sekar M (No. 9509591K now JC-803623W), 01 May 2004

Hav Ashok Kumar (No. 9509598N now JC-803628P) 01 May 2004

Hav Diler Singh (No. 9509611M now JC-803631P), 01 May 2004

Hav Ashok Thapa (No. 9509398X now JC-803498X), 28 May 2003@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Apr 2003 without effect on pay and allowances)

Hav Sanwar Mal Suthar (No. 9509010F now JC-803555N), 10 Dec 2003#

Hav Brij Chandra Yadav (No. 9509340A now JC-803556W), 12 Mar 2004#

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances)

Hav Sakal Deo Singh (No. 9508660H now JC-803569N), 09 Jan 2004\$

Hav Raghbir Singh (No. 9509167F now JC-803571L), 11 Jan 2004\$

Hav Raj Kumar (No. 9509222M now JC-803572N), 17 Jan 2004\$

Hav Narendra Pal Singh (No. 9509281Y now JC-803573W), 05 Jan 2004\$

Hav Rajendra Ram (No. 9509478P now JC-803574Y), 04 Feb 2004\$

\$@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Shivajirao Baburao (No. 9509508F now JC-803575F), 01 Feb 2004

Hav Raj Kumar Singh (No. 9509518L now JC-803576P), 14 Feb 2004%

Hav Debangshu Hazra (No. 9509520H now JC-803577M), 06 Feb 2004%

Hav Paramjit Singh (No. 9509522N now JC-803578P), 03 Feb 2004%

Hav Ajit Singh (No. 9509524Y now JC-803579X), 06 Feb 2004%

Hav Mathai Kunhu PP (No. 9509527M now JC-803580M), 10 Feb 2004%

Hav Siba Shankar Prusty (No. 9509528P now JC-803581P), 01 Feb 2004

Hav Laxman Singh (No. 9509529X now JC-803582X), 01 Feb 2004

Hav Satya Prakash Mahapatra (No. 9509530M now JC-803583A), 09 Feb 2004%

Hav Suresh Chandra Tiwari (No. 9509534H now JC-803584H), 01 Feb 2004

Hav Prem Chandra Pal (No. 9509535L now JC-803585L), 04 Feb 2004%

Hav Rabindra Nath Thakur (No. 9509536N now JC-803586N), 01 Feb 2004

Hav Anil Kumar (No. 9509538Y now JC-803587W), 01 Feb 2004

Hav Rajender Singh (No. 9509539F now JC-803588Y), 01 Feb 2004

Hav/Clk Dalvir Singh (No. 9508299H now JC-803589F), 24 Feb 2004%

Hav/Clk Kuldip Singh Raghav (No. 9508300M now JC-803590W), 05 Feb 2004 %

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)

V. K. KAPOOR  
Under Secy.

#### MILITARY NURSING SERVICE (PERMANENT COMMISSION)

No. 382, dated 13th July 2004.—The President is pleased to make the following promotion with effect from the dates mentioned against each name :—

(Lt Col (TS) to Lt Col (Select))

Name, Personnel Number, Date of Promotion

AME Coultas (NR-14709M), 01 Dec 1992

Mrs A Sushma Soy (NR-15784K), 07 May 1999

Mrs Pramila Kappor (NR-15773X), 09 May 2000

Mrs Shobha Rai (NR-15829Y), 31 May 2000

Mrs Roopa Ram Sharma (NR-15798K), 17 Feb 2001

Mrs Y Lhamu (NR-15953A), 19 Feb 2001

Mrs P U Mary (NR-16032M), 20 Feb 2001

Mrs P Bhandari (NR-16095P), 20 Feb 2001  
 Mrs Dorothy Daulat (NR-16135L), 15 Mar 2001  
 Mrs R Vijayalakshmi (NR-16055N), 30 Mar 2001  
 Mrs Nomi Devi (NR-15960W), 01 Apr 2001  
 Mrs M Manikyamma (NR-16070H), 07 Apr 2001  
 Mrs Anvary Begum (NR-16142F), 10 Apr 2001  
 Mrs P Usha Rani (NR-16090W), 17 Apr 2001  
 Mrs Indira Menen (NR-15936A), 10 May 2001  
 Mrs Sunita Kapoor (NR-15948P), 10 May 2001  
 Mrs Prakash Kaur (NR-15990N), 10 May 2001  
 Mrs Stephen Sherly (NR-16039W), 10 May 2001  
 Mrs Paramjeet Kaur (NR-16089F), 10 May 2001  
 Mrs Nirmal Kapil Bata (NR-16151H), 10 May 2001  
 Mrs Sugunu Murari (NR-15897M), 13 May 2001  
 Mrs V Saraswathy (NR-15893W), 10 Apr 2001  
 Mrs Rita Razoor (NR-15583L), 17 May 2001  
 Mrs P L Bhola (NR-15918X), 17 May 2001  
 Mrs Shamsher Kaur (NR-15946K), 31 May 2001  
 Mrs N G Shantha (NR-16088Y), 23 Jun 2001

The President is pleased to make the following promotion with effect from 28 Dec 2003.

(Major to Lt Col (Time Scale)

Rank, Name, Number and Date of Promotion

Lt Col Mrs Prasanna K T (NR-17829X), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Lovely Antony (NR-17831P), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs J John (NR-17839F), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Suja Abraham (NR-17841Y), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Kochu Rani V P (NR-17842F), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs S V Saraswathi (NR-17845P), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Abha Patience Phillips (NR-17848H), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Leena Kumari P R (NR-17854W), 28 Dec 2003  
 Lt Col Miss Smita Devrani (NR-17858M), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs N U Sujatha (NR-17859P), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs A R Sarkar (NR-17860K), 28 Dec 2003  
 Lt Col Miss Renu Kumari (NR-17863X), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Rema A (NR-17864A), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Elizabeth T S (NR-17866L), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs V E Mathew (NR-17868W), 28 Dec 2003

Lt Col Mrs Santosh Kumari (NR-17873F), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Mary John (NR-17881A), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs C Abraham (NR-17882H), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Mercy Mathew Edathattel (NR-17883L), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Rupinder Kaur (NR-17884N), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Mary Stella (NR-17886Y), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Santosh Kumari (NR-17887F), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Pooja Pankaj (NR-17888K), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Nupur Chanda (NR-17895A), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Rajitha T (NR-17898N), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Jasbir Kaur (NR-17899W), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs R Jayanthi (NR-17900A), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Jeeneth Monica Dean (NR-17902L), 28 Dec 2003  
 Lt Col Miss Sunita Srivastava (NR-17904W), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Amita Rani (NR-17906F), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Elsamma Varghese (NR-17914A), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs G Vanammal (NR-17919Y), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Lisy George (NR-17920N), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs S V Mathew (NR-17921W), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Khushwinder Kaur (NR-17922Y), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Balvinder Kaur (NR-17924K), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Shashikala C S (NR-17928A), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Pushpam K (NR-17929H), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Mingma Bhutia (NR-17932H), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Celine George (NR-17934N), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Rawly Aida (NR-17937F), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs P Awasthi (NR-17939M), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Jyoti Naik (NR-17943P), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs K Geetha (NR-17945A), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs V G Kunjamma (NR-17946H), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Madhumathi Devi (NR-17951N), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Santosh Juneja (NR-17952W), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Rukmini P G (NR-17953Y), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Neeru Tara (NR-17954F), 28 Dec 2003  
 Lt Col Mrs Annamma V A (NR-17957P), 28 Dec 2003

Lt Col Mrs Leelamma Sebastian (NR-17959A), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Valsala Kumari (NR-18026X), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs E V Rebecca (NR-17960P), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs R Chitra (NR-18028H), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Sushila Wilson (NR-17961X), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Mary Kamlam M (NR-18030A), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs T Cyriac (NR-17965N), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Usha Kumari A P (NR-18031H), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Sunita Gupta (NR-17967Y), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Sri Kumari S (NR-18032L), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Thankamony S (NR-17968F), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs K Choudhary (NR-18034W), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Valamma Varghese (NR-17969K), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Meena Kuriakose (NR-18036F), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Indira Kumari K (NR-17971F), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Munna Pradhan (NR-18037K), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Balesh (NR-17972K), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs L K Agustine (NR-18039P), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Marian A U (NR-17973M), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Leela T N (NR-18041M), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Poonamma O N (NR-17975X), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Santha Kumari (NR-18042P), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Sherina Job (NR-17976A), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs S Jayashree (NR-18043X), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Ambika K V (NR-17978L), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs G Vasundhara Devi (NR-18044A), 28 Dec 2003
Lt Col Ms Saramma T K (NR-17979N), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Aniamma Varghese (NR-18045H), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs V/S Alice (NR-17980H), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs C D Sobhana (NR-18046L), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Sarala Devi P (NR-17981L), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs K Santha Kumari (NR-18048W), 28 Dec 2003
Lt Col Miss Rukmani M S (NR-17982N), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Vijaya Kumari Amma B (NR-18049Y), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Tejinder Kaur (NR-17984Y), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Choudhary Malvika (NR-18052Y), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs M K Philip (NR-17986K), 28 Dec 2003	Lt Col Mrs Renu Kaul (NR-18053F), 28 Dec 2003
Lt Col Mrs Devaki Devi Bisht (NR-17990M), 28 Dec 2003	The President is pleased to make the following promotion with effect from 14 Sep 2002:—
Lt Col Mrs Vigneshwari K (NR-17991P), 28 Dec 2003	(Capt to Maj)
Lt Col Mrs Mary Kutty Thomas (NR-17992X), 28 Dec 2003	Rank, Name, Number & Date of Promotion
Lt Col Mrs V Sudha Kumari (NR-17995L), 28 Dec 2003	Maj S G Jyothy (NR-19901F), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Thresia K D (NR-17996M), 28 Dec 2003	Maj Suma K S (NR-19902K), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Leelamma T N (NR-18001L), 28 Dec 2003	Maj Nisha Sathisan P (NR-19904P), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs J B Shoine (NR-18002N), 28 Dec 2003	Maj Sheela S V (NR-19905X), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Anshu Rai (NR-18006K), 28 Dec 2003	Maj Beena C A (NR-19906A), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Sunita Kapoor (NR-18007M), 28 Dec 2003	Maj Sheeba Jacob (NR-19907H), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Baljinder Kaur (NR-18010M), 28 Dec 2003	Maj Gessy Varghese (NR-19908L), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs A A Mary (NR-18011P), 28 Dec 2003	Maj Saija VP (NR-19909N), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Cisili K A (NR-18013A), 28 Dec 2003	Maj Annamma CJ (NR-19910H), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs S K Amma S (NR-18017W), 28 Dec 2003	Maj Jhancy PS (NR-19912N), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Kunjumol P (NR-18018Y), 28 Dec 2003	Maj Sushama Thomas (NR-19914Y), 14 Sep 2002
Lt Col Mrs Suneetha Kumari (NR-18021Y), 28 Dec 2003	
Lt Col Mrs Sudhamani C K (NR-18022F), 28 Dec 2003	
Lt Col Mrs Mary P O (NR-18025P), 28 Dec 2003	

Maj Poonam Dubey (NR-19915F), 14 Sep 2002

Maj Reethamma V (NR-19916K), 14 Sep 2002

Maj Mercy Mathai K (NR-19917M), 14 Sep 2002

Maj Mariamma Thomas (NR-19920M), 14 Sep 2002

Maj Lilly Kumari (NR-19922X), 14 Sep 2002

Maj Jaya CR (NR-19923A), 14 Sep 2002

Maj Neelam Kumari (NR-19925L), 14 Sep 2002

The President is pleased to make the following promotion with effect from 28 Mar 2003:—

(Captain to Major)

Maj Sujatha P Nair (NR-19929F), 28 Mar 2003

Maj Vimla VR (NR-19930W), 28 Mar 2003

Maj Anita Mehta (NR-19931Y), 28 Mar 2003

Maj Purnima Saha (NR-19932F), 28 Mar 2003

Maj Perike Karnamma (NR-19933K), 28 Mar 2003

Maj Mousumi Dutta (NR-19934M), 28 Mar 2003

Maj Anju Singh (NR-19935P), 28 Mar 2003

Maj Simi Soni (NR-19936X), 28 Mar 2003

Maj L. Lakshmi Singh (NR-19937A), 28 Mar 2003

Maj Beena Varghese (NR-19938H), 28 Mar 2003

Maj Prameela KP (NR-19942L), 28 Mar 2003

Maj Sai Geetha K (NR-19944W), 28 Mar 2003

Maj Asha Sharma (NR-19945Y), 28 Mar 2003

Maj Geetha K (NR-19946F), 28 Mar 2003

Maj Gurmeet Kaur (NR-19947K), 28 Mar 2003

Maj Jyoti Dubey (NR-19948M), 28 Mar 2003

Maj Binay Sundaram (NR-19949P), 28 Mar 2003

Maj Anuradha (NR-19950K), 28 Mar 2003

Maj Sarita Sharma (NR-19951M), 28 Mar 2003

Maj Mini Thomas (NR-19952P), 28 Mar 2003

Maj Sumitra Rathee (NR-19955H), 28 Mar 2003

Maj Neelam Misra (NR-19956L), 28 Mar 2003

Maj Shaili Rastogi (NR-19958W), 28 Mar 2003

Maj Sudhamany L (NR-19960N), 28 Mar 2003

Maj Ajitha Kumari C (NR-19963F), 28 Mar 2003

Maj Sneha Subha Palatingal (NR-19964K), 28 Mar 2003

Maj Bindu Aravindan (NR-19966P), 28 Mar 2003

Maj G Mahalakshmi (NR-19967X), 28 Mar 2003

Maj Babeeta Rani (NR-19968A), 28 Mar 2003

Maj Nidhibala Bhatt (NR-19969H), 28 Mar 2003

Maj Shashi Mehta (NR-19972H), 28 Mar 2003

Maj Pathare Anita Thomas (NR-19973L), 28 Mar 2003

Maj Epina Mukhopadhyay (NR-19974N), 28 Mar 2003

Maj Sheeba Jose (NR-19975W), 28 Mar 2003

Maj Raj Kumari (NR-19977F), 28 Mar 2003

Maj Aruna Gurung (NR-19978K), 28 Mar 2003

Maj G Anandhi (NR-19980F), 28 Mar 2003

Maj Axelia Latha (NR-19982M), 28 Mar 2003

Maj Mahua Bhattacharya (NR-19984X), 28 Mar 2003

Maj Sheela KR (NR-19985A), 28 Mar 2003

Maj KS Preetha Kumari (NR-19987L), 28 Mar 2003

Maj Inderjit Kaur (NR-19988N), 28 Mar 2003

Maj Anupoma Mondal (NR-19991N), 28 Mar 2003

Maj Chandrakala R Doddamani (NR-19992W), 28 Mar 2003

Maj Ajita Datta Chaudhuri (NR-19993Y), 28 Mar 2003

Maj Chhabi Kanjilal (NR-19994F), 28 Mar 2003

Maj Ranjana Anthony (NR-19995K), 28 Mar 2003

Maj Pushpawali (NR-19996M), 28 Mar 2003

Maj Shampa Chatterjee (NR-19997P), 28 Mar 2003

Maj Saraswati Saha (NR-19998X), 28 Mar 2003

Maj Mincy Abraham (NR-20001K), 28 Mar 2003

Maj Pramela S (NR-20003P), 28 Mar 2003

Maj Pushpa Bisht (NR-20004X), 28 Mar 2003

Maj Kalpana Solomon (NR-20006H), 28 Mar 2003

Maj Nirmala Daniel (NR-20008N), 28 Mar 2003

Maj Sinthiya Rita B (NR-20010L), 28 Mar 2003

Maj Deepika Subba (NR-20011N), 28 Mar 2003

Maj Chaya Dey (NR-20012W), 28 Mar 2003

Maj Rajvinder Kaur (NR-20014F), 28 Mar 2003

Maj Lhaikhoting Haokip (NR-20017P), 28 Mar 2003

Maj Rupa Bhowmik (NR-20018X), 28 Mar 2003

Maj Surinder Kaur (NR-20019A), 28 Mar 2003

Maj Sneh Lata Sharma (NR-20020P), 28 Mar 2003

Maj Nalini V (NR-20021X), 28 Mar 2003

Maj K M Rajashree (NR-20022A), 28 Mar 2003

Maj Saraswati Chakraborty (NR-20023H), 28 Mar 2003

Maj Suja George (NR-20024L), 28 Mar 2003

Maj Chhaya Das (NR-20027Y), 28 Mar 2003  
 Maj Rose Mary Lepcha (NR-20028F), 28 Mar 2003  
 Maj Rathi T K (NR-20029K), 28 Mar 2003  
 Maj Mamta Devi (NR-20032K), 28 Mar 2003  
 Maj Daljit Kaur (NR-20035X), 28 Mar 2003  
 Maj Bipasha Mitra (NR-20036A), 28 Mar 2003  
 Maj Singdha Pal (NR-20037H), 28 Mar 2003  
 Maj Shampa Ray (NR-20039N), 28 Mar 2003  
 Maj Pallavi Shrivastva (NR-20042N), 28 Mar 2003  
 Maj Renuka Toppe (NR-20043W), 28 Mar 2003

The President is pleased to make the following promotion with effect from 05 Sep 2002 :—

Lt to Capt

Mrs Sindhu S (NR-20563F), 05 Sep 2002  
 Miss Nidhi Chopra (NR-20564K), 05 Sep 2002  
 Mrs Rekha Varghese (NR-20565M), 05 Sep 2002  
 Miss Sajitha J K Nair (NR-20566P), 05 Sep 2002  
 Miss Jobi Chacko (NR-20568A), 05 Sep 2002  
 Miss Joya Sircar (NR-20569H), 05 Sep 2002  
 Miss Shybi TG (NR-20570X), 05 Sep 2002  
 Miss Priti Giri (NR-20571A), 05 Sep 2002  
 Miss Reena Johnson (NR-20573L), 05 Sep 2002  
 Mrs Rajanimole R (NR-20574N), 05 Sep 2002  
 Miss Sharlet C Das (NR-20576Y), 05 Sep 2002  
 Miss Sunaina Sidh (NR-20577F), 05 Sep 2002  
 Miss Bharti Rani (NR-20578K), 05 Sep 2002  
 Miss Sinimol PC (NR-20579M), 05 Sep 2002  
 Miss Vinay Sharma (NR-20580F), 05 Sep 2002  
 Miss Leeha E Cherian (NR-20581K), 05 Sep 2002  
 Miss Suparna Ganguli (NR-20582M), 05 Sep 2002  
 Miss Vallamsetti P Praveena (NR-20583P), 05 Sep 2002  
 Miss Rekha Narayan (NR-20584X), 05 Sep 2002  
 Miss Sandhya S (NR-20585A), 05 Sep 2002  
 Miss Suni Antoni (NR-20587L), 05 Sep 2002  
 Miss Anju Raveendra (NR-20588N), 05 Sep 2002  
 Miss Asha Issac (NR-20589W), 05 Sep 2002  
 Miss Jeeba Jose (NR-20590L), 05 Sep 2002  
 Miss P Vinitha (NR-20591N), 05 Sep 2002

Miss T S Dhanalakshmi (NR-20592W), 05 Sep 2002  
 Miss Mallika Ray (NR-20593Y), 05 Sep 2002  
 Miss J Gayathri (NR-20594F), 05 Sep 2002  
 Miss Jenney John (NR-20595K), 05 Sep 2002  
 Miss Pooja Patel (NR-20596M), 05 Sep 2002  
 Miss Amutha N (NR-20597P), 05 Sep 2002  
 Miss PJ Jayasree (NR-20598X), 05 Sep 2002  
 Miss Priya V (NR-20599A), 05 Sep 2002  
 Miss Shally Malik (NR-20600K), 05 Sep 2002  
 Miss Manju C Kochukunju (NR-20601N), 05 Sep 2002  
 Miss Jaya Varghese (NR-20602P), 05 Sep 2002  
 Miss Vidya P (NR-20603X), 05 Sep 2002  
 Miss Sanjeev (NR-20604A), 05 Sep 2002  
 Miss Poonam (NR-20605X), 05 Sep 2002  
 Miss V Juli (NR-20606L), 05 Sep 2002  
 Miss Ananya Sanyal (NR-20607N), 05 Sep 2002  
 Miss Manjushree Mandal (NR-20608W), 05 Sep 2002  
 Miss Kamlesh Choudhary (NR-20609Y), 05 Sep 2002  
 Miss Reena Kumari (NR-20610N), 05 Sep 2002  
 Miss Saroj Pal (NR-20611W), 05 Sep 2002  
 Miss MB Pushpavalli (NR-20612Y), 05 Sep 2002  
 Miss Suraiya Nath VR (NR-20613F), 05 Sep 2002  
 Miss Sheeja A (NR-20614K), 05 Sep 2002  
 Miss Indu Nair (NR-20615M), 05 Sep 2002  
 Miss Sini K George (NR-20616P), 05 Sep 2002  
 Miss Urmila Shukla (NR-20617X), 05 Sep 2002  
 Miss Sobha Samuel (NR-20619H), 05 Sep 2002  
 Miss Anitha A (NR-20620X), 05 Sep 2002  
 Miss MV Radha Rani (NR-20621A), 05 Sep 2002  
 Miss Salimol VK (NR-20622H), 05 Sep 2002  
 Miss Sobha Namboodiri (NR-20623L), 05 Sep 2002  
 Miss Abha Shrivastava (NR-20625W), 05 Sep 2002  
 Mrs Sunil (NR-20626Y), 05 Sep 2002  
 Miss Nisha Poddar (NR-20627F), 05 Sep 2002  
 ✓ Miss Deepa Joshi (NR-20628K), 05 Sep 2002  
 Miss Bobby Kharbuli (NR-20629M), 05 Sep 2002  
 Miss Meenakshidevi Sharma (NR-20630F), 05 Sep 2002  
 Miss Bindu Elezabeth V (NR-20631K), 05 Sep 2002  
 Miss Sugymol KK (NR-20632M), 05 Sep 2002

Miss Sheeba TR (NR-20634X), 05 Sep 2002  
 Mrs Manju S (NR-20635A), 05 Sep 2002  
 Mrs Sindhu R (NR-20636H), 05 Sep 2002  
 Mrs Easwari S (NR-20637L), 05 Sep 2002  
 Miss Sunita Rani (NR-20638N), 05 Sep 2002  
 Miss Bharthi Kavitha A (NR-20640L), 05 Sep 2002  
 Miss Sujatha Kumari J (NR-20641N), 05 Sep 2002  
 Miss Sunita Kumari (NR-20642W), 05 Sep 2002  
 Miss Chithra S (NR-20643Y), 05 Sep 2002  
 Miss Seenu Joseph (NR-20645K), 05 Sep 2002  
 Miss Smitha Varghese (NR-20646M), 05 Sep 2002  
 Miss Thilaka B (NR-20647P), 05 Sep 2002  
 Miss Baisakhi Chattopadhy (NR-20648X), 05 Sep 2002  
 Miss Jaya P G (NR-20649A), 05 Sep 2002  
 Miss Roopasree R (NR-20650P), 05 Sep 2002  
 Miss Rachana Sindhwal (NR-20651X), 05 Sep 2002  
 Mrs Vidhubala D (NR-20652A), 05 Sep 2002  
 Miss Sandhya Velayudhan (NR-20653H), 05 Sep 2002  
 Miss Sindhu PS (NR-20654L), 05 Sep 2002  
 Miss Sheelakumari S (NR-20656W), 05 Sep 2002  
 Miss Ruby Thomas (NR-20657Y), 05 Sep 2002  
 Miss Kilimozhi S (NR-20658F), 05 Sep 2002  
 Mrs Mridula Baby M (NR-20659K), 05 Sep 2002  
 Mrs Sangeetha LS (NR-20660X), 05 Sep 2002  
 Miss K P Preetha (NR-20661F), 05 Sep 2002  
 Miss Frankly Gladis TS (NR-20662K), 05 Sep 2002  
 Miss Ruth Vijayalatha (NR-20663M), 05 Sep 2002  
 Miss Zeenath Mary (NR-20665X), 05 Sep 2002  
 Miss A Leena (NR-20666A), 05 Sep 2002  
 Miss Manju S (NR-20667H), 05 Sep 2002  
 Miss Indira (NR-20668L), 05 Sep 2002  
 Miss K G Deepthi Devi (NR-20669N), 05 Sep 2002  
 Miss Princymol Thomas (NR-20670H), 05 Sep 2002  
 Miss Deepa R (NR-20671L), 05 Sep 2002  
 Miss Geeta GA (NR-20672N), 05 Sep 2002  
 Miss Nisha Krishnan (NR-20674Y), 05 Sep 2002  
 Miss Vijayamma V M (NS-20675P), 05 Sep 2002  
 Miss Shobha Chandi (NS-20676K), 05 Sep 2002  
 Miss Kamala Kirar Aswal (NS-20680M), 05 Sep 2002

Miss Sapna Rani (NS-20689F), 05 Sep 2002  
 Miss Sindhu C R (NS-20691Y), 05 Sep 2002  
 Miss Awantika Bharti (NS-20694M), 05 Sep 2002  
 Miss Smitha V R (NS-20696X), 05 Sep 2002  
 Miss Sajitha V (NS-20704L), 05 Sep 2002  
 Miss Shashi Bisth (NS-20705N), 05 Sep 2002  
 Miss Y T Minimole (NS-20714P), 05 Sep 2002  
 Miss Bindu S (NS-20715X), 05 Sep 2002  
 Miss Beena V (NS-20718L), 05 Sep 2002  
 Miss Ritu (NS-20719N), 05 Sep 2002  
 Miss Radhika Kumar P S (NS-20720H), 05 Sep 2002  
 Miss Sathyabhamma Devi S (NS-20721L), 05 Sep 2002

USHA SIKDAR  
Maj. Gen. Addl D G MNS

No. 383, dated 14th July 2004.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against each :—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Capt. to be Major

Vidhu Bhatnagar (MR-07252P), AMC—05 Feb 2004  
 Bhavana Hooda (MR-07254A), AMC—05 Feb 2004  
 Y P Praful (MR-07271A), AMC—05 Feb 2004  
 Ahijit Banerjee (MR-07298X), AMC—05 Feb 2004  
 S Sharat Chandra (MR-07301M), AMC—10 Feb 2004

M SRIVASTAVA  
Brig. Dy DGAFMS (P)

No. 384, dated 12th July 2004.—The President is pleased to make the following promotion:—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Lt Col to be Substantive Col

S D Sinha IC-31987, AEC—01 Dec 2001 but seniority from 01 Dec 2000 without effect on pay and pension.

Maj to be Substantive Lt. Col. (By Selection)

K Maini (IC-35257), AC—31 Dec 2002  
 Ugrasen (IC-35267), Inf—31 Dec 2002  
 S Chawla (IC-37227), Inf—31 Dec 2002

RS Manral (IC-37256), Inf—31 Dec 2002	VK Singh (IC-37590), AC—31 Dec 2002
S Ganguly (IC-37290), Arty—31 Dec 2002	CA Pithawalla (IC-37593); Inf—31 Dec 2002
P K Tamang (IC-35531), Inf—31 Dec 2002	H Singh (IC-37594), Arty—31 Dec 2002
B Singh (IC-35604), Inf—31 Dec 2002	ML Kataria (IC-37596), Inf—31 Dec 2002
AK Arya (IC-37364), Arty—31 Dec 2002	KS Sekhon (IC-37599), AOC—31 Dec 2002
BS Laungia (IC-37412), Inf—31 Dec 2002	M Vaid (IC-37601), Arty—31 Dec 2002
S Pande (IC-37442), Inf—31 Dec 2002	BD Shinde (IC-37604), Adarty—31 Dec 2002
B Jayaraj (IC-38009), Adarty—31 Dec 2002	R Kumar (IC-37605), Int—31 Dec 2002
M Singh (IC-38010), Arty—31 Dec 2002	NS Gahiaut (IC-37609), Inf—31 Dec 2002
D Narain (IC-38106), Arty—31 Dec 2002	PH Reddy (IC-37610), AOC—31 Dec 2002
BL Chaudhari (IC-38383), ASC—31 Dec 2002	MS Sehgal (IC-37614), Arty—31 Dec 2002
MS Rao (IC-38519), Inf—31 Dec 2002	G Singh (IC-37616), Adarty—31 Dec 2002
AR Rao (IC-38555), ASC—31 Dec 2002	NS Dhapola (IC-37619), Inf—31 Dec 2002
A Mathur (IC-38575), AC—31 Dec 2002	S Jamwal (IC-37623), Adarty—31 Dec 2002
SS Bisht (IC-37541), Inf—31 Dec 2002	HD Mishra (IC-37626), Arty—31 Dec 2002
DS Sandhu (IC-37543), AC—31 Dec 2002	A Kumar (IC-37628), AOC—31 Dec 2002
PM Ahluwalia (IC-37545), Inf—31 Dec 2002	SP Yadav (IC-37630), Adarty—31 Dec 2002
DK Gurung (IC-37547), Inf—31 Dec 2002	V Kumar (IC-37631), Arty—31 Dec 2002
S Menon (IC-37549), Inf—31 Dec 2002	D Kolath (IC-37632), Inf—31 Dec 2002
MA D'Souza (IC-37550), Inf—31 Dec 2002	UC Shekher (IC-37635), Inf—31 Dec 2002
OK Mathew (IC-37552), Inf—31 Dec 2002	A Sharma (IC-37638), Arty—31 Dec 2002
RS Grewal (IC-37554), AC—31 Dec 2002	HM Kavadia (IC-37639), Inf—31 Dec 2002
VG Khandare (IC-37555), Inf—31 Dec 2002	KA Khan (IC-37641), Inf—31 Dec 2002
BS Brar (IC-37557), ASC—31 Dec 2002	RS Nautiyal (IC-37645), Arty—31 Dec 2002
CB Lal (IC-37558), AOC—31 Dec 2002	K Singh (IC-37647), Int—31 Dec 2002
VK Bahuguna (IC-37561), Inf—31 Dec 2002	SK Tiwari (IC-37648), Inf—31 Dec 2002
DPS Thalor (IC-37564), Inf—31 Dec 2002	AK Singh (IC-37654), AC—31 Dec 2002
SS Sekhon (IC-37565), Arty—31 Dec 2002	VG Subramanian (IC-37655), AOC—31 Dec 2002
TS Brar (IC-37566), Inf—31 Dec 2002	RK Verma (IC-37656), AOC—31 Dec 2002
RBS Kanwar (IC-37568), Inf—31 Dec 2002	KS Puri (IC-37661), Arty—31 Dec 2002
MP Singh (IC-37569), Arty—31 Dec 2002	RK Pant (IC-37663), Inf—31 Dec 2002
R Anand (IC-37570), Inf—31 Dec 2002	V Kumar (IC-37664), AC—31 Dec 2002
CS Bhardwaj (IC-37572), Arty—31 Dec 2002	P Mohinder (IC-37924), EME—31 Dec 2002
SK Bhati (IC-37574), Inf—31 Dec 2002	PP Kumar (IC-37925), EME—31 Dec 2002
P Singh (IC-37575), Inf—31 Dec 2002	M Pandiyan (IC-37926), Sigs—31 Dec 2002
MM Thimmiah (IC-37577), Inf—31 Dec 2002	JS Menon (IC-38641), Inf—31 Dec 2002
JD Suri (IC-37579), AOC—31 Dec 2002	RS Salaria (IC-38643), Arty—31 Dec 2002
VS Bhalothia (IC-37581), Inf—31 Dec 2002	A Sah (IC-38645), Inf—31 Dec 2002
GN Jayadev (IC-37584), Arty—31 Dec 2002	S Maira (IC-38647), AC—31 Dec 2002

L Kesaván (IC-38648), Inf—31 Dec 2002	V Kumar (IC-38711), Inf—31 Dec 2002
SK Garg (IC-38650), AC—31 Dec 2002	S Dhir (IC-38713), Arty—31 Dec 2002
B Chopra (IC-38651), EME—31 Dec 2002	RS Malave (IC-38714), AC—31 Dec 2002
JK Sethi (IC-38653), EME—31 Dec 2002	BK Guha (IC-38718), Arty—31 Dec 2002
D Anbu (IC-38654), Inf—31 Dec 2002	AS Chowdhry (IC-38720), Arty—31 Dec 2002
MM Easow (IC-38655), Adarty—31 Dec 2002	LM Singh (IC-38721), Inf—31 Dec 2002
SJ Gracias (IC-38656), Engrs—31 Dec 2002	C Mathson (IC-38722), Inf—31 Dec 2002
US Dadu (IC-38657), Engrs—31 Dec 2002	A Khanna (IC-38723), Arty—31 Dec 2002
S Rajaram (IC-38658), EME—31 Dec 2002	KKN Thacker (IC-38725), Inf—31 Dec 2002
G Singh (IC-38660), Inf—31 Dec 2002	JG Kambalimath (IC-38726), Inf—31 Dec 2002
S Katoch (IC-38663), Sigs—31 Dec 2002	MS Mahal (IC-38728), Inf—31 Dec 2002
IS Suhag (IC-38665), Inf—31 Dec 2002	SK Sudan (IC-38729), Engrs—31 Dec 2002
A Chatterji (IC-38666), Inf—31 Dec 2002	SS Lamba (IC-38731), AOC—31 Dec 2002
PN Chaudhari (IC-38667), Arty—31 Dec 2002	AG Kundalkar (IC-38732), Inf—31 Dec 2002
PN Kumar (IC-38668), EME—31 Dec 2002	VP Singh (IC-38733), Inf—31 Dec 2002
G Sankar (IC-38669), Inf—31 Dec 2002	K Kumar (IC-38736), Inf—31 Dec 2002
SK Sharma (IC-38670), Inf—31 Dec 2002	AS Virk (IC-38737), AC—31 Dec 2002
D David (IC-38672), Inf—31 Dec 2002	R Kumar (IC-38738), Sigs—31 Dec 2002
M Mehta (IC-38673), Inf—31 Dec 2002	RK Rajput (IC-38739), Arty—31 Dec 2002
B Singh (IC-38674), Inf—31 Dec 2002	GB Patel (IC-38740), Arty—31 Dec 2002
AS Puri (IC-38675), Inf—31 Dec 2002	J Singh (IC-38741), AC—31 Dec 2002
NK Jaini (IC-38677), AC—31 Dec 2002	S Pratap (IC-38744), Inf—31 Dec 2002
A Krishna (IC-38679), Int—31 Dec 2002	AV Dhuri (IC-38745), Sigs—31 Dec 2002
S Agrawal (IC-38680), Engrs—31 Dec 2002	A Sen (IC-38746), Sigs—31 Dec 2002
D Kahlon (IC-38681), AC—31 Dec 2002	RK Saiwal (IC-38747), AOC—31 Dec 2002
AK Singh (IC-38682), Inf—31 Dec 2002	SM Murari (IC-38749), Adarty—31 Dec 2002
JB Khadilkar (IC-38684), Sigs—31 Dec 2002	MM Naravane (IC-38750), Inf—31 Dec 2002
VP Singh (IC-38685), Inf—31 Dec 2002	PK Siwach (IC-38752), Inf—31 Dec 2002
V Kumar (IC-38686), Adarty—31 Dec 2002	BR Das (IC-38757), Inf—31 Dec 2002
J Houlend (IC-38689), Inf—31 Dec 2002	RK Kohli (IC-38758), ASC—31 Dec 2002
VK Mohla (IC-38690), Inf—31 Dec 2002	D Das (IC-38759), Adarty—31 Dec 2002
S Gupta (IC-38693), Inf—31 Dec 2002	S Mamgain (IC-38761), Int—31 Dec 2002
P Singh (IC-38694), EME—31 Dec 2002	SS Chaudhari (IC-38763), Inf—31 Dec 2002
NP Singh (IC-38696), AC—31 Dec 2002	S Kumar (IC-38766), Engrs—31 Dec 2002
BK Jacob (IC-38700), Int—31 Dec 2002	PS Nair (IC-38767), Arty—31 Dec 2002
AK Singh (IC-38704), Inf—31 Dec 2002	R Patnaik (IC-38768), Inf—31 Dec 2002
J Singh (IC-38706), AOC—31 Dec 2002	GS Ranawat (IC-38771), ASC—31 Dec 2002
A Ambre (IC-38708), Inf—31 Dec 2002	NK Mehta (IC-38772), Inf—31 Dec 2002
U Singh (IC-38710), Adarty—31 Dec 2002	

Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

V Vasudev (IC-37602), ADA—30 Apr 2000

CP Mishra (IC-41051), Sigs—24 Dec 2000

KT Mathew (IC-40047), Inf—19 Dec 2001

V Venkateswaran (IC-40477), Engrs—12 Jun 2002

SS SINHA  
Dy Dir  
DAMS-8A

No. 385, dated the 14th July 2004.—The President is pleased to make substantive promotions of Lt General to the following officers:

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

To be Substantive Lt Gen

Rank, Name, IC No., Arm and Effective Date of Substantive Lt Gen

Maj Gen AS Jamwal, AVSM, VSM (IC-17206), Arty (GC)—21 May 2003

Maj Gen DP Singh (IC-17242), Inf—01 Oct 2003

Maj Gen PK Grover, AVSM, VSM (IC-17252), Engrs (GC)—01 Oct 2003

Maj Gen VC Jain, AVSM, VSM\* (IC-17280), EME—01 Dec 2003

Maj Gen Aditya Singh (IC-17565), AC—01 Jan 2004

Maj Gen RSK Kapur, AVSM, SM, VSM (IC-16782), Engrs—20 Jan 2004

Maj Gen JS Varma, AVSM (IC-16033), AC—01 Mar 2001

Maj Gen JJ Singh, AVSM, VSM (IC-16078), Inf—01 Apr 2001

Maj Gen DP Sehgal, VSM (IC-15403), Sigs—01 Apr 2001

Maj Gen JBS Yadava, AVSM, VrC, VSM (IC-16095), Inf—01 Apr 2001

Maj Gen Hari Prasad, AVSM, VSM (IC-16109), Inf—01 Apr 2001

Maj Gen SB Satpute (IC-16139), Inf—01 Apr 2001

Maj Gen S Choudhry, AVSM, VSM (IC-15690), Arty GC—27 Apr 2001 with seniority from 22 June 2000 without effect on pay and pension.

Maj Gen Prakash Suri (IC-15025), Engrs—18 May 2001

Maj Gen RK Mehta, AVSM, VSM (IC-14851), EME—01 Jun 2001

Maj Gen Arvind Kumar (IC-15831), AC—01 Jun 2001

Maj Gen PPS Bindra, AVSM, VSM (IC-18964), Inf—01 Jun 2001

Maj Gen N Chatterjee, AVSM, SM, VSM (IC-15543), Arty—03 Sept 2001

Maj Gen A Natarajan, AVSM, VSM (IC-15464), Arty—17 Sept 2001 with seniority from 03 Sept 2001 without effect on pay and pension.

Maj Gen RL Magotra, VSM (IC-16176), Sigs—05 Sept 2001

Maj Gen BS Thakur, AVSM (IC-16234), Inf—01 Oct 2001

Maj Gen SS Chahal, AVSM, VSM (IC-16240), Inf—08 Oct 2001

Maj Gen VG Patankar, UYSM, VSM (IC-16313), Arty GC—27 Nov 2001

Maj Gen BK Bopanna, AVSM, VSM (IC-22834), Inf—27 Nov 2001

Maj Gen HS Kanwar, AVSM, VSM (IC-21254), Inf—27 Nov 2001

Maj Gen Bhopinder Singh, AVSM (IC-16272), Inf—27 Feb 2002 with seniority from 27 Nov 2001 without effect on pay and pension.

Maj Gen VK Dua, AVSM, VSM (IC-15041), Engrs—30 Jan 2001

Maj Gen RS Nagra, VSM (IC-15492), Arty—01 Feb 2002 with seniority from 18 May 2001 without effect on pay and pension.

Maj Gen NPAul, AVSM (IC-15018), Engrs—01 May 2002 with seniority from 18 May 2001 without effect on pay and pension.

Maj Gen VK Jetley, UYSM (IC-16542), Inf—01 Feb 2002

Maj Gen BS Takhar, VSM (IC-16543), AC—01 Apr 2002

Maj Gen RS Shahrawat, VSM (IC-16250), AOC—01 Apr 2002

Maj Gen GS Negi, AVSM\*, VSM (IC-16545), Inf—01 Apr 2002

Maj Gen SK Kaushal, AVSM, VSM (IC-15947), Arty—20 Apr 2002

Maj Gen Yash Malhotra (IC-16038), Engrs—01 Jul 2002

N MARIAPPAN  
Jt. Director/MS (X)

No. 386, dated the 14th July 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY****PERMANENT COMMISSION**

Capt to be Maj

Name, IC No. and Arm

Abrar Ahmed (IC-52443), Inf

—11 Dec 2003—

(But Pay &amp; Allowances wef 10 Jan 2004)

**PERMANENT COMMISSION (SL)**

Capt to be Maj

Name, SL No. and ARM

Jagdev Singh Grewal (SL-4299), APTC

—15 Dec 2002—

Lt to be Capt

Name, IC No. and Arm

Kshitij Balhara (IC-59056), Inf

Permender K Malik (IC-59057), AC

Nitin Rekheja (IC-59058), EME

Ashish Pradhan (IC-59059), Engrs

Soubhagya Nayak (IC-59060), AD Arty

Rajesh Arya (IC-59062), ASC

Saleem Ajaz (IC-59063), Arty

Aminabh Raj (IC-59064), Inf

Ritesh Katooch (IC-59065), Inf

Mohit Sharma (IC-59066), Inf

Hemant Singh Panwar (IC-59067), Inf

S Sathiamoorthy (IC-59068), AOC

Sarfraz Singh (IC-59070), Inf

Subi K Joy (IC-59071), EME

Sanjay Sharma (IC-59072), Inf

Jasdeep Singh Chatwal (IC-59073), Arty

Umang Gandotra (IC-59074), Arty

Sudhakar Thakur (IC-59075), Inf

Inder Preet Singh (IC-59076), ASC

Amit Vats (IC-59077), Sigs

Himanshu Khulbe (IC-59078), Arty

Shubhankar Sengupta (IC-59079), Mech Inf

Pradeep Semwal (IC-59080), Inf

Bed Prasad Dhungana (IC-59081), Arty

Jai Singh Shekhawat (IC-59083), AD Arty

Vivek Moudgil (IC-59084), Int

Himanshu Kala (IC-59085), EME

Amit Kumar (IC-59086), Arty

Kishor Gulab Yewale (IC-59087), Engrs

Vijay Kumar Sharma (IC-59088), Inf

Ashish Anil Joshi (IC-59089), Inf

Akshat Suryavanshi (IC-59090), Arty

Charanjeet Singh Chahil (IC-59091), Sigs

Pushpinder Singh Jamwal (IC-59092), Inf

Vikram Jeet Singh Pandher (IC-59093), Inf

MB Thimaiah (IC-59094), ASC

Kumar Anand (IC-59095), Inf

Ashish Dutta (IC-59096), AC

Khan Shagaf Shuja (IC-59097), Inf

Aditya Singh (IC-59098), Inf

Prashant Vilas Patil (IC-59099), ASC

Shailesh Sharma (IC-59100), Inf

Kurkure Amit Vinayak (IC-59101), Arty

Amol Lawate (IC-59102), Inf

Sushil Kumar Rana (IC-59103), Arty

Sukhdeep Singh (IC-59104), Sigs

Rajiv Saharan (IC-59105), Inf

Manoj Kumar Singh (IC-59106), Arty

Ashutosh Sharma (IC-59107), Arty

Avaneesh Rawat (IC-59108), Mech. Inf

Aditya Sudan (IC-59109), EME

Arvind Bhakuni (IC-59110), Engrs

Surender Pal Kharb (IC-59112), AOC

Nishant Shetty (IC-59113), Inf

Sanjay Rai (IC-59114), EME

S. Mukhopadhyay (IC-59115), AOC

Suman Majumder (IC-59117), AD Arty

Ruchir Sethi (IC-59118), AD Arty

Chandra Mohan Tyagi (IC-59119), EME

Vinay Pal Singh (IC-59120), AD Arty

Arnab Sarkar (IC-59121), AC

Dhekane Santosh Subhash (IC-59123), Arty	Tushar Gopal Kumthekar (IC-59167), Inf
Rahul Mishra (IC-59124), Inf	Amardeep Singh Hooda (IC-59168), Inf
Jagannath Prasad Barik (IC-59125), Mech Inf	Madhavan Iyengar (IC-59169), Inf
Khandge Hrushikesh Dilip (IC-59127), Inf	Srivenkata Krishna Hari (IC-59172), EME
Sujit Kumar Malik (IC-59128), EME	Nitan Singh Sambyal (IC-59173), Arty
BV Sai Vijay Balaram (IC-59129), AD Arty	Manoj Kumar Joshi (IC-59174), AD Arty
Gill Gagandeep Singh (IC-59130), Arty	Subhankar Ghoshal (IC-59175), Inf
Shrot Singh (IC-59131), Inf	Anbazhagan M (IC-59176), EME
Amar Attri (IC-59132), ASC	Paritosh Upadhayay (IC-59177), AOC
Warghade Shivaji Bhagavant (IC-59133), Inf	Gaikwad Kedar Vijay (IC-59178), Arty
L. Suresh Kumar Rao (IC-59134), Arty	Ashish Nagaich (IC-59179), Sigs
Anshuman Chowdhary (IC-59135), Engrs	Shrirang S Mooley (IC-59180), Inf
Pradeep Singh Karki (IC-59136), Inf	Om Prakash Mishra (IC-59182), Inf
Alok Shrivastava (IC-59137), AC	Sudhir Chamoli (IC-59183), Inf
Animesh Jatrana (IC-59138), Inf	Yerunkar Pravin Prakash (IC-59184), Engrs
Randhir Kumar Singh (IC-59139), Inf	Manoj K (IC-59185), AC
Samrat Maiti (IC-59140), Inf	Shivanand Alias Shivabasappa (IC-59186), Arty
Rohit Rawat (IC-59141), Inf	Ashwini Mishra (IC-59187), AD Arty
Ranjit Singh Pawar (IC-59142), AOC	Sonam Bhardwaj (IC-59188), AOC
Harmanjit Singh Seeray (IC-59143), Engrs	Shyam Behari Singh (IC-59189), EME
P Alexander (IC-59144), Inf	S Singh (IC-59190), Int
Pankaj Rawat (IC-59145), Arty	Shivraj Anand More Dalvi (IC-59191), Arty
K. Sudhakar (IC-59146), Inf	Sandeep Singh Randhawa (IC-59192), ASC
Zubin Siddique (IC-59147), ASC	Vinod Kumar Shivran (IC-59193), Mech. Inf
Suresh Kumar Singh (IC-59148), Arty	Vibhakar Tyagi (IC-59194), Arty
Rajat Sharma (IC-59149), AC	V. Balaji (IC-59195), Arty
Parag Chauhan (IC-59152), Arty	Sumeet Vashishth (IC-59197), Engrs
Amandeep Singh (IC-59153), AD Arty	Pradeep Kumar Sengupta (IC-59198), Inf
Phanjoubam Sananda Singh (IC-59154), Inf	Akshay Budhraja (IC-59199), Inf
Anupam Joshi (IC-59155), Arty	Deepak Sharma (IC-59200), Sigs
Shailendra Singh (IC-59156), Inf	Nishant Sanwal (IC-59201), Inf
Bethanabelli Jagannadha Naidu (IC-59157), Arty	Atul Devli (IC-59202), Inf
Rohit Tyagi (IC-59158), AC	Rajiv Thomas (IC-59203), Inf
Maneesh Parthsarthy (IC-59159), Inf	Faizan Zahoor (IC-59204), Inf
Vishal Guleria (IC-59160), Engrs	Girish Chandra Pandey (IC-59206), Inf
Akshay Yadava (IC-59162), Mech. Inf	Ambrish Rai (IC-59207), Arty
Aneel Sarotra (IC-59163), Inf	Bhaskar Tomar (IC-59208), Inf
Vishal Babbar (IC-59164), AOC	Jagdeep Singh (IC-59209), Sigs
Abhishek Dimri (IC-59166), EME	Manu Dhankar (IC-59210), AC

Ashwani Nagpal (IC-59212), AOC	Ajay Thakur (IC-59256), Inf
Vishal Pathania (IC-59213), ASC	Abhishek Talwar (IC-59257), ASC
Abhijit Das (IC-59214), Inf	Anant Pal Singh (IC-59258), AD Arty
Inderjit Singh (IC-59216), AD Arty	S. Suneel Reddy (IC-59259), Sigs
Santosh Lekhak (IC-59217), EME	Priyaj Kothiyal (IC-59260), EME
Gunjesh Sharma (IC-59218), AC	Jaswinder Singh (IC-59261), EME
Sumit Sheron (IC-59219), Int	Vinay (IC-59262), Inf
Tariq Rasheed (IC-59220), Sigs	Dinesh Raghu Raman (IC-59263), Inf
Bhupender Mehra (IC-59221), Arty	Shuvrangshu Chowdhury (IC-59264), Arty
Ajit Kumar (IC-59222), EME	Balbir Singh (IC-59265), Inf
Pramod Kumar Yadav (IC-59223), Mech. Inf	Kamal Bhardwaj (IC-59266), ASC
Tarun Dangi (IC-59224), Inf	Tushar Mittal (IC-59267), Inf
Pankaj Puri (IC-59225), Engrs	C Himakiran Kumar (IC-59270), Sigs
Vineet Lohia (IC-59226), Inf	Ashok Kumar Maurya (IC-59271), Arty
Sachin Gahlawat (IC-59227), Arty	Arindam Chaudhuri (IC-59272), AD Arty
Barida Baran Pattanaik (IC-59228), AD Arty	Anoop Singh Yadav (IC-59273), ASC
Omvir Panwar (IC-59229), Inf	Pradeep Dahiya (IC-59274), Inf
Amit (IC-59230), Inf	Ajay Kumar Singh (IC-59275), Arty
Paul Earnest (IC-59232), Arty	Karam Raja Singh (IC-59277), Arty
Prashant Singh Bakwal (IC-59233), Arty	Ashwani Kumar Srivastava (IC-59278), Arty
Dev Kumar Panwar (IC-59234), Inf	Anupam Sharma (IC-59279), Inf
Gaurav Sirohi (IC-59236), Inf	Atul Ghai (IC-59280), AD Arty
Suman Kumar Mishra (IC-59237), ASC	Pankaj Sharma (IC-59281), Arty
Bhoosan Parikh (IC-59239), Inf	Abhash Mishra (IC-59283), Engrs
Kamaljit Singh (IC-59241), AC	Sumeet Samyal (IC-59284), Inf
Ajay Kumar Pathak (IC-59242), Arty	Mrinal Kant Bhattacharya (IC-59285), Engrs
S Pintoo Singh (IC-59243), Inf	Ajay Pandit (IC-59286), Inf
Rakesh Sharma (IC-59244), Engrs	Anil Kumar (IC-59287), Sigs
Chetan Anand (IC-59245), EME	Rajeev Nayan Singh (IC-59288), Inf
Vishal Jain (IC-59246), Sigs	Manish Priyadarshan (IC-59289), Inf
Prafulla Shrivastava (IC-59247), AD Arty	Lalit Kumar Goel (IC-59290), EME
Joyous K Joseph (IC-59248), Inf	Sanjay Kumar Jha (IC-59291), Arty
Pramod Rawat (IC-59249), Inf	Brijesh Nailwal (IC-59292), ASC
Manujendra Singh (IC-59250), AC	Gagandeep Singh (IC-59293), Arty
Mayank Mehta (IC-59251), Engrs	Mayur Ambastha (IC-59294), Mech Inf
Anand Pratap Singh (IC-59252), AOC	S Harihar (IC-59295), Inf
Jaspreet Singh Chahal (IC-59253), Inf	Nikhil Apte (IC-59296), Arty
Piyush Kumar Singh (IC-59254), Arty	Vinay Sharma (IC-59297), Inf
Anil Kumar Phogat (IC-59255), Mech. Inf	Babin Kumar (IC-59298), Inf

V Ashok Kumar (IC-59299), Inf	Tushar Kathuria (IC-59339), Arty
Kunal Mohapatra (IC-59300), Sigs	Anand Singh Chauhan (IC-59340), Inf
Deepak Martin (IC-59301), EME	Divik Kandpal (IC-59341), EME
Jayant Singh (IC-59302), AC	Mudit Arya (IC-59342), Arty
N Chaturvedi (IC-59303), Inf	Vikas (IC-59343), EME
Shabarish Balakrishnan Vachali (IC-59304), Engrs	Manoj Kumar Hooda (IC-59344), AC
Vishal Anand (IC-59305), AOC	Vivek Siwach (IC-59345), Inf
Mohinder Kishor Kesar (IC-59306), Inf	Srinivasan V (IC-59346), AD Arty
Sandeep Singh Aulukh (IC-59307), Arty	Amit Bedi (IC-59348), Inf
Partha Pratim Biswas (IC-59308), Sigs	Virender Singh (IC-59349), Sigs
Ajay Saigal (IC-59309), Arty	Antony Henry Selvam (IC-59351), Arty
K Prakash (IC-59310), Engrs	Saurav Pati (IC-59352), Arty
Vikram (IC-59311), Arty	Rohit Sharma (IC-59353), Inf
Vivek S Badve (IC-59313), AC	Jaiprakash Lamba (IC-59354), Mech. Inf
Birendra Nath Chatterji (IC-59314), Arty	Rajith R Unni (IC-59355), Int
Amarjeet Chaudhary (IC-59315), ASC	Parvinder Singh (IC-59356), Arty
Hemant Kumar (IC-59316), AD Arty	Arindam Pruthi (IC-59357), Inf
Deepak Sisodia (IC-59317), AOC	Ajay Kumar Yadav (IC-59358), Sigs
Valluru Siva Sesha Sai (IC-59318), ASC	Vineet Kumar (IC-59359), Sigs
Mukesh Kumar Jha (IC-59319), Arty	Anjan Kumar Haldar (IC-59360), Inf
Pradeep Kumar Takshak (IC-59320), Inf	Vivek Prakash (IC-59361), AC
Mridul Bhatia (IC-59321), Int	Kishan Singh Rawat (IC-59362), ASC
Ranjan Devrani (IC-59322), Inf	Bhanja Kishore Pradhan (IC-59363), Inf
Anil Kumar Chadha (IC-59323), Arty	Vijay Vir Singh Dahiya (IC-59364), Inf
Krishna Vishwakarma (IC-59324), Inf	Roshan Kumar (IC-59365), Arty
Pankaj Sharma (IC-59325), EME	Manish Thapa (IC-59366), Mech. Inf
Himanshu (IC-59326), Arty	Vikas Gupta (IC-59367), AD Arty
Ashish Sehgal (IC-59327), Engrs	Sanjeev Raina (IC-59368), Engrs
Raj Kumar Shyam Singh (IC-59328), Inf	Manoj Upadhyay (IC-59369), Engrs
Dev Mohan (IC-59329), Inf	Yashvardhan (IC-59370), Arty
Vikram Bir Basnet (IC-59330), ASC	Manas Kumar Mohapatra (IC-59371), Inf
Santagoudar Mallangoupa Puttangouda (IC-59331), Engrs	Arun Mamgain (IC-59372), Inf
Ajay Balakrishnan (IC-59332), Inf	Sanjay Gairola (IC-59373), EME
Gorki Chandola (IC-59333), Mech. Inf	Vikram Sral (IC-59374), AOC
Anup Sanmota (IC-59334), Inf	Manan Kandari (IC-59375), AOC
Rahul Kumar (IC-59335), Inf	Dinesh Chufal (IC-59376), Inf
Sudhir Tokas (IC-59336), Inf	Anil Shankarrao Gaikwad (IC-59377), Arty
B Vijay Kumar (IC-59337), Inf	Ronit Chandra Singh (IC-59378), EME
Neetu (IC-59338), Inf	Arun Singh (IC-59379), ASC

Anand Giri (IC-59380), Engrs	Sameer D Wakankar (IC-59423), Arty
Gaurav Sethi (IC-59381), Arty	Satinder Singh (IC-59425), Inf
Mridul Sharma (IC-59382), AD Arty	Vinay Singh (IC-59426), Mech. Inf
Sandip Mukherjee (IC-59383), Inf	Akash Pandey (IC-59427), AC
Gaurav Bhatia (IC-59385), Arty	Muzammil Ahmad (IC-59428), Inf
Manish Shrivastava (IC-59386), Arty	Bhagwat Anant Ashok (IC-59429), Arty
Arvind Kumar Tiwari (IC-59387), Sigs	Amit Kumar Singhal (IC-59430), Int
Rakesh Chandra Barthwal (IC-59388), Inf	Mayank Gupta (IC-59431), AOC
Pawan Bankal (IC-59389), ASC	Rakesh Kumar (IC-59432), Inf
Rajwinder Singh (IC-59390), EME	Kaushik Misra (IC-59434), Arty
Lokesh Deva (IC-59391), Inf	Rahul Puri (IC-59435), ASC
Harmanjit Singh Gill (IC-59392), Inf	Avinash Negi (IC-59436), Engrs
Ajay Pathania (IC-59393), Inf	Praveen Kumar (IC-59437), EME
Birendra Kumar Roy (IC-59394), Inf	Sheel Mohan Kala (IC-59438), Engrs
Narender Kumar (IC-59395), Arty	Dushyant S Nalavade (IC-59439), Sigs
Ritesh Kumar (IC-59396), AC	Deshpande Vishnu Kumar (IC-59440), Inf
Ravinder Pal Singh (IC-59397), Inf	Yadav Anil Punwasi (IC-59441), Inf
Ashutosh Kumar (IC-59398), Arty	Aashutosh Jagati (IC-59442), EME
Kane Srirang Subhash (IC-59400), Arty	Vikrant Panghal (IC-59443), AOC
Jeetendra Kumar Mohapatro (IC-59401), AD Arty	Yashdev Singh Bali (IC-59444), Arty
Mohit Prakash (IC-59402), AOC	Deshpande Aniruddha Sudhakar (IC-59445), AD Arty
Mehar Pradhit (IC-59403), ASC	Anil Kumar Kharayat (IC-59446), EME
Kulwant Singh Malik (IC-59404), Inf	Paritosh Pathak (IC-59447), Engrs
Manjit Budhwar (IC-59405), EME	Amit Kumar (IC-59448), Arty
Theiva Muthu (IC-59406), Inf	Vinayak Sharma (IC-59449), Mech. Inf
Amit Ray (IC-59407), Arty	Amulya Pratap Singh (IC-59450), Inf
Anoop Kumar (IC-59408), AOC	Abhijeet Kumar Gupta (IC-59451), Inf
Vinay Ahuja (IC-59409), ASC	Manoj Sangwan (IC-59452), Inf
Angad Reyar (IC-59410), Arty	Vikas Mehta (IC-59453), ASC
Tejinder Pal Singh Hundal (IC-59411), Inf	Diwakar Kumar (IC-59455), ASC
Kuljeet S Padam (IC-59413), EME	Bharat Singh Rawat (IC-59456), Inf
Jajot Gurudev Bhaiyan (IC-59414), AD Arty	Somesh Kumar Das (IC-59457), Inf
Sudesh Bhangra (IC-59415), Inf	Dev Kumar Singh (IC-59458), Inf
Pratap Singh (IC-59416), Sigs	Amit Ranjan Bajpai (IC-59459), Engrs
Amit Kumar (IC-59417), Inf	Prashant Sharma (IC-59460), Inf
Naveen Singh (IC-59419), Inf	Muthangi Vamsi Prashanth (IC-59461), Inf
Anil Khurdiya (IC-59420), EME	Rohit Ashwani (IC-59462), Arty
Dheeraj Kumar (IC-59421), Inf	Nitin Upadhyay (IC-59463), AD Arty
Jaspreet Singh Hanspal (IC-59422), AC	Ajay Kumar Pundkar (IC-59465), AOC

Rahul Sarkar (IC-59466), EME	Abhijeet Sharma (IC-59508), Engrs
Naveen Khare (IC-59467), AC	Sanjeev Dwivedi (IC-59509), AD Arty
Kuldeep Singh (IC-59469), AD Arty	Jaiveer Singh (IC-59510), Inf
Manoj AP (IC-59470), Inf	Atul Sharma (IC-59511), Arty
Mahendra Singh Negi (IC-59471), Inf	Pushpendu Mishra (IC-59512), Arty
Sumit Bansal (IC-59472), AOC	Shantanu Rastogi (IC-59513), AC
Ardaman Singh Sekhon (IC-59473), AC	Kuldeep Singh Mattoo (IC-59514), Mech. Inf
Moammed Adil Tabrez (IC-59474), Arty	Sharad Sharma (IC-59515), Inf
Rajat Tandon (IC-59475), Arty	Sanjay Nair (IC-59516), Inf
Pravesh Prakash (IC-59476), EME	Waghmode Shashikant Laxman (IC-59517), Engrs
Balbir Jha (IC-59478), Inf	Syed Enayet Kabir (IC-59518), AC
Upjit Singh Randhawa (IC-59479), Inf	SG Sudhansu Sekhar (IC-59519), Arty
Partha Sarathi Singha (IC-59480), AOC	Samir Kumar Singh (IC-59520), AD Arty
Manish Kothari (IC-59481), Engrs	T Rajish Sundaran (IC-59521), Sigs
Mohit Nayal (IC-59482), Mech. Inf	Ashish Agrawal (IC-59522), AOC
Brahmadev Sharma (IC-59483), Engrs	Kulkarni Amit Anil (IC-59524), EME
Pankaj Subba (IC-59484), Inf	Bishwajeet Roy (IC-59525), ASC
Pushpam Kumar (IC-59485), Inf	Shashi Kant Chhimwal (IC-59527), Int
Praveen Rawat (IC-59486), ASC	Manmeet Singh Bijjan (IC-59528), Inf
Debi Prasad Baral (IC-59487), EME	Abhishek Mishra (IC-59529), Inf
Naveen Joshua Ponsonby (IC-59488), Inf	Abir Dutta (IC-59530), Arty
Alfred Fernandes (IC-59489), AD Arty	—11 Dec 2003—
Sourabh Chatterji (IC-59490), AC	Shelke Mahesh Sarjero (IC-61961), Sigs
Nitin Thapa (IC-59491), Inf	Arun Sekhar (IC-61962), EME
Nirmal Kumar Dubey (IC-59492), Arty	Narayana MT (IC-61963), Engrs
Rahul Nair (IC-59493), Arty	Ravinder Yadav (IC-61964), Sigs
Anil Kumar (IC-59494), Arty	Pramod Panicker (IC-61965), Engrs
Aman Grewal (IC-59495), Arty	Rushikesh Dhotre (IC-61966), Engrs
Amardip Singh Chhatwal (IC-59496), EME	Sidharath Manhotra (IC-61967), Engrs
Radhakrishnan Murali (IC-59497), Inf	Abhishek Tyagi (IC-61969), Engrs
Rajiv Yadav (IC-59498), ASC	Vasist GR (IC-61970), Engrs
Anuj Prakash Gupta (IC-59499), AD Arty	Avinash Desh Kulkarni (IC-61971), EME
Ajay Tomar (IC-59500), Inf	Santosh Roy (IC-61972), EME
Yadwinder Kumar Puri (IC-59501), Inf	Jayant Kanungo (IC-61973), Engrs
Ajmer Singh Chib (IC-59502), Inf	Chinmay Girish Parikh (IC-61974), EME
Vishal Sunny (IC-59504), Arty	Jitendra Rawat (IC-61975), EME
Anurag Singh Sengar (IC-59505), Inf	Rameet Singh (IC-61976), EME
Ashutosh Trivedi (IC-59506), EME	Sachin Chopra (IC-61977), EME
Aneesh Kumar Singh (IC-59507), ASC	Harkesh Kurnar (IC-61978), Engrs

Vikash Kumar Gupta (IC-61979), Engrs

Kumar Amitendram (IC-61980), Engrs

Vivek Sharma (IC-61981), Engrs

Aman Preet Singh (IC-61982), EME

Neerav Tuli (IC-61983), Engrs

Aditya Murari Indoriya (IC-61984), EME

Mand Mandip Singh (IC-61985), Sigs

Jultan Anmol Francis, Kandir (IC-61986), Engrs

Rana Karan Singh (IC-61989), Engrs

Rajesh Gupta (IC-61990), EME

Parekshit Mehra Raj Kumar (IC-61991), Sigs

Harkeerat Singh (IC-61992), Engrs

K Suresh Selva Kumar (IC-61993), Sigs

Salian Prashant Sadashiv (IC-61995), Sigs

Shivakumar B (IC-61996), Sigs

Rahul Shashikant Kelkar (IC-61997), EME

Devashish Chakravarty (IC-61998), Engrs

—12 Dec 2003—

K. S. VERMA

Jt Dir

MS-8C

#### (AIR BRANCH)

No. 387, dated the 13th July 2004.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

#### INDIAN AIR FORCE

#### AE BRANCH

To be Substantive Air MSHL

RK Gupta (8899), AE(L)—01 Nov 2001

VA Patkar (8632) AE(L)—01 Nov 2001

PK Desai (10078) AE(M)—12 Jun 2002

#### FLYING BRANCH

To be Substantive Air CMDE

GS Kochar A/A/C, (13149) F(P)—16.12.02/01.02.02 (NS)

RC Baruah A/A/C, (13156) F(P)—13.01.03/01.02.02 (NS)

AR Nigam A/A/C, (13240) F(P)—01.01.03/01.02.02 (NS)

DN Ganesh A/A/C, (13243) F(P)—01.02.02

BC Nanjappa A/A/C, (13246) F(P)—10.01.03/01.02.02  
(NS)

VK Yajurvedi A/A/C, (13248) F(P)—01.02.02

K Swaminathan A/A/C, (13251) F(P)—01.02.02

RS Das A/A/C, (13158) F(P)—01.01.03/01.02.02 (NS)

A Gupta A/A/C, (13241) F(P)—01.02.02

DC Kumaria A/A/C, (13366) F(P)—11.03.02

A Chopra A/A/C, (13368) F(P)—11.03.02

RH Karve A/A/C, (13369) F(P)—11.03.02

JS Panesar A/A/C, (13370) F(P)—26.03.02

R Khurana A/A/C, (13377) F(P)—26.03.02

A Kapoor A/A/C, (13378) F(P)—26.03.02

SK Karmakar A/A/C, (13379) F(P)—27.03.02

M Bhandari A/A/C, (13380) F(P)—23.12.02/27.03.02  
(NS)

AK Gogoi A/A/C, (13382) F(P)—27.03.02

KP Devia A/A/C, (12949) F(P)—25.04.03/07.01.03 (NS)

K Gopakumar A/A/C, (13391) F(P)—07.01.03

KJ Mathews A/A/C, (13393) F(P)—07.01.03

A Gopinath A/A/C, (13397) F(P)—13.01.03

M Banerjee A/A/C, (13400) F(P)—13.01.03

A Saikia A/A/C, (13585) F(P)—13.01.03

R Malhotra A/A/C, (13590) F(P)—15.02.03

TK Venugopal A/A/C, (13598) F(P)—15.02.03

MPS Gill A/A/C, (13604) F(P)—15.02.03

S Varthman A/A/C, (13606) F(P)—15.02.03

To be Substantive GP Capt

GP Capt (ACTG) RC Pandey (15024) F(P)—11.03.02/  
09.07.01 (NS)

GP Capt (ACTG) SS Patil (PR-31.05.03) (15032) F(P)—  
09.07.01

GP Capt (ACTG) R Mahadevan (PR-31.08.02) (15033)  
F(P)—01.10.01

GP Capt (ACTG) NP Singh (15036) F(P)—01.10.01

GP Capt (ACTG) CC Cariapa (15038) F(P)—01.10.01

GP Capt (ACTG) DD Kulkarni (15041) F(P)—05.11.01

GP Capt (ACTG) CR Prasad (14998) F(N)—05.11.01

GP Capt (ACTG) BS Nagra (15045) F(P)—05.11.01

GP Capt (ACTG) AS Karki (15048) F(P)—05.11.01

GP Capt (ACTG) AC Bharali (15049) F(P)—05.11.01

GP Capt (ACTG) MV Achar (15052) F(P)—05.11.01

GP Capt (ACTG) AKS Nair (14999) F(N)—05.11.01

GP Capt (ACTG) PS Gill (15055) F(P)—11.03.02/  
05.11.01 (NS)

**GP Capt (ACTG) Raja Singh (15056) F(P)—05.11.01**

**(ARMY BRANCH)**

**GP Capt (ACTG) KK Dhawan (15057) F(P)—11.03.02/05.11.01 (NS)**

**DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE ESTATES**

**GP Capt (ACTG) NL Khan (15058) F(P)—11.03.02/05.11.01 (NS)**

No. 388, dated 9th July 2004.—The President is pleased to retire Shri S.C. Dogra, Section Officer, DGDE of AFHQ Civil Services on attaining the age of superannuation with effect from 31.05.2004 (A/N) and transfer to Pension establishment with effect from 01.06.2004 (F/N).

**GP Capt (ACTG) RS Gill (15059) F(P)—11.03.02/05.11.01 (NS)**

**RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION**

**GP Capt (ACTG) AJS Dhillon (15002) F(N)—11.03.02/05.11.01 (NS)**

On attaining the age of superannuation viz 60 years, Shri Prem Singh, Section Officer, R&D Orgn retired from service w.e.f. 30 April 2004 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 1 May 2004).

**GP Capt (ACTG) K Malik (15181) F(P)—05.11.01**

**SANTOSH DASGUPTA**  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

**GP Capt (ACTG) S Neelakantan (15184) F(P)—05.11.01**

**GP Capt (ACTG) R Kumar (15187) F(P)—05.11.01**

**GP Capt (ACTG) VS Chhikara (PR 30.06.02) (15188) F(P)—01.12.01**

**GP Capt (ACTG) AP Kaduskar (15189) F(P)—01.12.01**

**ARMY BRANCH**

**GP Capt (ACTG) KP Nair (15195) F(P)—01.12.01**

No. 389, dated 14th July 2004.—The undermentioned officer is awarded the following punishment by SGCM on 23 Dec 02.

**GP Capt (ACTG) R Gaur (15196) F(P)—03.12.01**

**REGULAR ARMY**

**GP Capt (ACTG) S Singh (15197) F(P)—03.12.01**

**PERMANENT COMMISSION**

**GP Capt (ACTG) KR Prasad (15204) F(P)—01.01.02**

**JC 52262 Major Sanjiv Basu Mallick, Sigs**

**GP Capt (ACTG) KC Dash (15174) F(N)—27.01.02**

(a) To forfeit one year service for purpose of promotion.

**GP Capt (ACTG) R Nanda (15177) F(N)—01.02.02**

(b) To be severely reprimanded.

—23 Dec 2002—

**GP Capt (ACTG) HS Jallawalia (15206) F(P)—01.02.02**

The undermentioned officer is awarded the following punishment by DGAR on 04 Jul 03.

**GP Capt (ACTG) KS Bhardwaj (15207) F(P)—01.02.02**

**REGULAR ARMY**

**GP Capt (ACTG) PK Sharan (15210) F(P)—01.02.02**

**PERMANENT COMMISSION**

**GP Capt (ACTG) N Sivaram (15212) F(P)—11.03.02**

**IC 51553 Capt Deepinder Singh Cheema, Inf**

**GP Capt (ACTG) AC Rajeev (PR-02.04.03) (15215) F(P)—11.03.02**

(a) To forfeit twelve months of service for purpose of promotion.

**AE BRANCH**

(b) To be severely reprimanded.

**Sqn Ldr To be Substantive WG CDR (Time Scale)**

—04 Jul 2003

**PK Dasbarma (15973), AE(L)—05.01.02**

**K. S. VERMA, Jt Dir  
MS 8C**

**S. K. SHUKLA  
Dy. Director of Personnel (Officers) 2(B)**

## (ARMY BRANCH)

No. 390, dated 13th July 2004.—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 15th Dec 1984 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is hereby amended as under:—

For—Pawar Santosh Kumar Arvindrao (IC-41428L)

Read—Pawar Santosh Kumar Arvindrao (IC-41438L)

ARVIND KUMAR  
Major  
DAMS-8B

## CORRIGENDUM

No. 391, dated 14th July 2004.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 06 Sep 2003 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to Major", the following amendment is made:—

Against—IC-49269 Narendra Singh, EME

For—16 Dec 2001 (But for Pay & allowances wef 16 Dec 2002)

Read—11 Nov 2001 (But for Pay and allowances wef 11 Nov 2002)

K. S. VERMA  
Jt Dir.  
MS-8C